



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 7—जून 13, 2008 (ज्येष्ठ 17, 1930)
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 7—JUNE 13, 2008 (JYAISTHA 17, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of
the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110 069, दिनांक 30 अप्रैल 2008

सं. ए-38012/02/2008-प्रशा. I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के
के. सचि. से. संवर्ग के संयुक्त सचिव (निदेशक स्तर) श्री एस. एस. राणा
द्वारा अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक
30 अप्रैल, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की अनुमति
प्रदान करते हैं।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-38012/01/2008-प्रशा. I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के
के. सचि. से. संवर्ग के संयुक्त सचिव (निदेशक स्तर) श्री पी. एस. नायर
द्वारा अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक
30 अप्रैल, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की अनुमति
प्रदान करते हैं।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-38013/01/2008-प्रशा. I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के
के. सचि. आशु. से. संवर्ग के निजी सचिव श्री अशोक कुमार खन्ना
द्वारा अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक
30 अप्रैल, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की अनुमति
प्रदान करते हैं।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 21 मई 2008

सं. डीपी/पर्स. 1/2008/0086/3/21/2003--श्री दीपक कुमार, भा. पु.
सेवा (जम्मू कश्मीर : 1993), पुलिस उपमहानिरीक्षक, के.अ. ब्यूरो की
सेवाएं केन्द्र में उनकी प्रतिनियुक्ति के पूरा होने पर दिनांक 01.04.2008
अपराह्न से जम्मू और कश्मीर सरकार को सौंपी जाती हैं।

अनुराग
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स. 1/2008/0087/3/18/2008--राष्ट्रपति ने श्री ओ. पी. गल्होत्रा, भा.पु. सेवा (राजस्थान : 1985) को 07.05.2008 पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में नियुक्त किया है।

अनुराग
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स. 1/2008/0088/3/29/2005--राष्ट्रपति ने श्री आलोक कुमार पटेरिया, भा.पु. सेवा (मध्य प्रदेश : 1986) को 23 अप्रैल, 2008 अपराह्न से 15.05.2010 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में नियुक्त किया है।

अनुराग
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स. 1/2008/0089/3/19/2008--राष्ट्रपति ने श्री ऋषि राज सिंह, भा.पु. सेवा (केरल : 1985) को 07.05.2008 पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में नियुक्त किया है।

अनुराग
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 मई 2008

सं. 13/2/2007-प्रशा. --राष्ट्रपति, डा. बी. वी. त्रिवेदी, महायुक्त निदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, को 15 मई 2008 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु. 16,400-450-20,000/- में पदोन्नति आधार पर उप निदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के रूप में नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 मई 2008

सं. ओ-दो-968/74-सी.आर.सी. (चिकित्सा)--डा. भंवर लाल मीना, पुलिस उप महानिरीक्षक, (चिकित्सा) (इरला-1263) संयुक्त अस्पताल, के. रि. पु. बल, नीमच (म. प्र.) ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर दिनांक 30.04.2008 (अपराह्न) को अपने पद से कायभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 30.04.2008 (अपराह्न) से निकाला गया है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-1)

सं. ओ-दो-3770/08-सी.आर.सी. (एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डाक्टर (श्रीमती) शबाना बानो (इरला-7659) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेन्ट) के पद पर वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- में दिनांक 04.04.2008 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें संयुक्त अस्पताल, के. रि. पु. बल, इलाहाबाद में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-1)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय : महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110002, दिनांक 19 मई 2008

सं. प्रशा. 1/16-1/प्रो.-04-09/286-303--महानिदेशक लेखा-परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में अस्थायी आधार पर दिनांक 08.05.2008 (पूर्वाह्न) से सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (ग्रुप बी) के रूप में अगले आदेशों तक सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्रम सं.	कर्मचारी कोड संख्या	नाम
1.	0707	श्रीमती सीमा चौधरी
2.	0770	श्री मनोज कुमार गुप्ता

सभी पदोन्नत अधिकारी कृपया उनकी पदोन्नति की तिथि के एक माह के अंदर स्थापना अनुभाग को उनके वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करें।

अतूर्वा सिन्हा
उप निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय : महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 21 मई 2008

सं. प्रशासन का.आ. सं. 15--निवर्तन की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप इस कार्यालय के श्री मंजीत सिंह, व. ले. प. अ. दिनांक 30.06.2008 अपराह्न को भारत सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

उनकी जन्मतिथि 27.06.1948 और नियुक्ति की तिथि 04.06.1970 है।

हस्ता./- अपठनीय
व. उप-महालेखाकार (प्रशा.)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 22 अप्रैल 2008

सं. 2049-जीई-1/13-2006--मिस मंजीत कौर, वरिष्ठ (पी.पी.एस.) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2008 पूर्वाह्न को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गई हैं।

आर. नरेश

सहा. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक लेखा (डाक)

कपूरथला, दिनांक 21 मई 2008

सं. प्रशासन/ए-IV/लीख केस/देस राज क्लर्क/दिनांक 22 मई 2008-- श्री देस राज सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द इस कार्यालय में पहले क्लर्क था दिनांक 21.06.2005 से अनाधिकृत गैर हाज़िर था और इस कार्यालय के भेजे किसी भी संदेश, निर्देश व आर्डर पर कोई भी ध्यान देने में असफल रहा--सभी पत्र और ज्ञापन पत्र उस के अन्तिम जानकारी पते पर भेजे गए और वे बिना वितरित हुए पोस्टमैन की इस टिप्पणी के साथ "इस नां दा आदमी विदेश गया होईया है। वापिस भेजी जावै" (इस नाम का आदमी विदेश गया हुआ है वापस भेजी जाए) प्राप्त हुए। इस के उपरान्त विभागीय नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए यह निर्णय लिया गया था कि श्री देस राज क्लर्क को दिनांक 16.04.2008 दोपहर बाद से नौकरी से हटा दिया जाए यह आदेश उसके जानकारी पते जो इस कार्यालय में मौजूद है पर भेजा गया वही लिफाफा जिसमें उसको नौकरी से हटाए जाने के आदेश थे वो भी बिना वितरित वही टिप्पणी के साथ प्राप्त हुआ। इसलिए अधिसूचित किया जाता है कि श्री देस राज क्लर्क को दिनांक 16.04.2008 दोपहर बाद से नौकरी से हटा दिया गया है।

जसपाल सिंह

उप-निदेशक लेखा (डाक)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)

मध्य प्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 16 मई 2008

सं. प्रशासन 11/समूह 2/फा.-55/राजपत्र/डी-168--प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर ने सहर्ष निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को स्थानापन्न रूप से सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपए 7,450-225-11,500/- में उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से पदोन्नत किया है। इन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की रहेगी :-

क्रम सं.	नाम	स्थायी क्रमांक	स.ले.प.अ. के पद पर पदोन्नति की दिनांक
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	अविनाश खवसे	02/10289	01.01.2008
2.	संजय कुमार शुक्ला	02/10298	01.01.2008

1	2	3	4
3.	रंजय कुमार सिंह	02/10351	01.01.2008
4.	श्रीमती किरण फाटक	02/10065	15.04.2008
5.	सुरेन्द्र कुमार हरिनखेडे	02/10404	15.04.2008
6.	गोविन्द खण्डेलवाल	02/10408	15.04.2008
7.	योगेश तिवारी	02/10414	15.04.2008

हस्ता./- अपठनीय

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (सि.ले.प.) का कार्यालय, ओड़िशा

भुवनेश्वर, दिनांक 21 मई 2008

सं. प्रशा.- (सि.ले.)-17-2(लेपअ)/भाग-V/432--ज्ञापन सं. प्रशा.- (सि.ले.)/17-2(लेपअ)/भाग-VI/2509, 2788 एवं 276 दि. 29.02.2008, 31.03.2008 एवं 30.04.2008 द्वारा सूचित का.आ.ग. 1265, 1383 एवं 97 दिनांक 29.02.2008, 31.01.2008 एवं 30.04.2008 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
	सर्वश्री	
1.	के. वी. सत्यानारायण	03.03.2008 (अपराह्न)
2.	श्रवण कुमार प्रधान	04.03.2008 (पूर्वाह्न)
3.	सुभाष चंद्र दास-1	06.03.2008 (पूर्वाह्न)
4.	घनश्याम त्रिपाठी	06.03.2008 (पूर्वाह्न)
5.	टी. वीरभद्र राव	06.03.2008 (पूर्वाह्न)
6.	संकरसन प्रधान	01.04.2008 (पूर्वाह्न)
7.	बिजय चंद्र राऊत-2	02.04.2008 (पूर्वाह्न)
8.	जगन्नाथ साहु	03.04.2008 (पूर्वाह्न)
9.	प्रशांत कुमार पंडा	05.05.2008 (पूर्वाह्न)
10.	गोलक बिहारी जेना	02.05.2008 (पूर्वाह्न)

हस्ता./ अपठनीय

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)

महालेखाकार (वा.नि. एवं प्रा. लेप) का कार्यालय, ओड़िशा

भुवनेश्वर, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. प्रशा.- (वा.नि. एवं प्रा. लेप)-पि. एवं दि.व.ले.प.अ. एवं ले.प. अ.(वाणि)-45--मुख्यालय अनुभागीय कार्यालय आदेश सं.-सिए-1/प्रशा./

दिनांक 8.2.2008 के अनुपालन में श्री जी. रामा प्रसाद, स.ले.प.अ.(वा.) अपनी पदोन्नति पर रु. 7,500-250-12,000/- में वेतन मांग पर दिनांक 13.03.2008 लेखा परीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) के पद पर कार्यालय महालेखाकार (वा.नि. एवं प्रा.लेप) ओड़िशा, भुवनेश्वर के कार्यालय में कार्य ग्रहण किया है।

यदि कोई ट्रिब्यूनल के सब-जुडीस/कोर्ट में लिखित हो या अपने वरिष्ठ अधिकाधिकारी में कोई दावा हो तो बिना पक्षपात में लेखा परीक्षा अधिकार्यालय में पद पर पदोन्नति सीएटी/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के अधीन है।

हस्ता./ अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशा.)

दिनांक 21 मई 2008

सं. प्रशा.-(वा.नि. एवं प्रा. लेप)-पि. एवं टि./व.ले.प.अ. एवं ले.प. अ.(वाणि)--मुख्यालय अनुभागीय कार्यालय आदेश सं.-सिए-1/प्रशा. 58/दिनांक 12.05.2008 के अनुपालन में श्री दुशासन वेहेरा, स.ले.प.अ. (वाणिज्य) अपनी पदोन्नति पर रु. 7,500-250-12,000/- में वेतनमान पर दिनांक 14.05.2008 (पूर्वाह) लेखा परीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) के पद पर कार्यालय महालेखाकार (वा.नि. एवं प्रा.लेप) ओड़िशा, भुवनेश्वर के कार्यालय में कार्य ग्रहण किया है।

यदि कोई ट्रिब्यूनल के सब-जुडीस/कोर्ट में लिखित हो या अपने वरिष्ठ अधिकाधिकारी में कोई दावा हो तो बिना पक्षपात में लेखा परीक्षा अधिकार्यालय में पद पर पदोन्नति सीएटी/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के अधीन है।

हस्ता. अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशा.)

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-110605, दिनांक 19 मई 2008

सं. प्रशा.-1/1218/1/जि.-1--राष्ट्रपति, श्री एन. एल. पेरुमल, वरिष्ठ निजी सचिव (समूह "ख" राजपत्रित) (रुपए 7,500-250-12,000) को 21 अप्रैल, 2008 से तथा आगामी आदेशों पर्यंत रक्षा लेखा विभाग में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव (समूह "क") (रुपए 10,000-325-15,200) ग्रेड में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पुनीत अग्रवाल
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशासन)

खान मंत्रालय

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 23 मई 2008

सं. 142/ए/ए-32013/2/निदे (भूभौति.)/2007-08/19वीं --विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी निम्नलिखित भूभौतिकीविद् (वरिष्ठ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की नियुक्ति निदेशक (भूभौतिकी)

के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित पदोन्नति पर अनुमोदित करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	तैनाती स्थान	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री युधिष्ठिर चन्द्र कर	समुद्री स्कंध, कोलकाता	04.12.2007 (अपराह)
2.	श्री एस. आर. समद्वार	समुद्री स्कंध, कोलकाता	04.12.2007 (अपराह)

कार्तिकेय वर्मा
प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II
कृते महानिदेशक

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 मई 2008

सं. ए-32013/III/89-स्था-1--राष्ट्रपति, भारत मौसम विज्ञान विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को मौसम विज्ञानी श्रेणी-II (वेतन रु. 8,000--13,500/-) के पद पर उनके नामों के सामने दर्शायी गई तिथि से स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पुष्टि की तारीख
1	2	3
1.	श्री संजय बिष्ट	11.11.2005
2.	श्री अशीम कुमार मित्रा	11.11.2005
3.	श्रीमती बी. अमुधा	11.11.2005
4.	श्री अजय कुमार सिंह	08.09.2006
5.	श्री हबीबुर रहमान विश्वास	10.03.2006
6.	श्री आनन्द कुमार दास	10.03.2006
7.	श्री नरेश कुमार	11.11.2005
8.	श्री बी. अरुल मलारकानन	11.11.2005
9.	श्री कुलदीप श्रीवास्तव-I	11.11.2005
10.	श्री मनीष रमेश चन्द्र रनालकर	10.03.2006
11.	श्रीमती मनोरमा मोहंती	10.03.2006
12.	श्री सिद्धार्थ	11.11.2005
13.	श्री जी. एस. पाटिल	11.11.2005
14.	श्री सौरव अधिकारी	10.03.2006
15.	श्री आर. बालसुब्रामण्यम	11.11.2005
16.	श्री अजीत प्रकाश पांडे	10.03.2006

1	2	3
17.	श्री श्रीजीथ ओ. पी.	10.03.2006
18.	श्रीमती एस. ए. भूटे	11.11.2005
19.	डा. एन. पूर्वीअरासन	10.03.2006
20.	श्री सुनील पी.	10.03.2006
21.	श्री कुलदीप श्रीवास्तव-II	11.11.2005
22.	श्री अंजीत अंजन	11.11.2005
23.	श्री गणेश कुमार दास	08.09.2006
24.	श्री अनिल कुमार	11.11.2005
25.	श्रीमती कोप्पार्थी नागारत्ना	08.09.2006
26.	श्री एन. टी. नियास	11.11.2005
27.	श्री राजावल मणीकम	11.11.2005
28.	श्री जनैन्द्र कुमार सिंह यादव	11.11.2005
29.	श्री बी. रेवलदुराई	10.03.2006
30.	श्री पी. एस. बीजू	11.11.2005
31.	श्री ए. सी. लिंगदोह	11.11.2005
32.	श्री अशोक कुमार दास	10.03.2006
33.	श्री जी. एस. के. सवाएसारजे	10.03.2006
34.	श्री एम. आई. अंसारी	08.09.2006
35.	श्री राकेश कुमार	11.11.2005
36.	श्री एच. एस. मण्डल	10.03.2006
37.	श्रीमती मिनी बी. के.	10.03.2006
38.	श्री सी. एस. तोमर	11.11.2005
39.	श्रीमती एम. नागामणी	11.11.2005
40.	श्रीमती सामन्ती सरकार	08.09.2006
41.	श्री शंकर नाथ	11.11.2005
42.	श्री यू. के. शिंडे	11.11.2005
43.	श्री सुनीत दास	10.03.2006
44.	श्री सेबुल इस्लाम लस्कर	12.04.2007

देवेन्द्र कुमार निम
मौसम विभाग के उपमहानिदेशक
(प्रशासन एवं भण्डार)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 19 मई 2008

सं. पीडी/11(1)/2008-आर-III/2008/4243--नियंत्रक, भाभा
परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती श्रीकला रामचंदर, सहायक को दिनांक

07.04.2008 (पूर्वाह्न) से 07.05.2008 (अपराह्न) तक
रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ
आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई-400085, दिनांक 23 मई 2008

सं. 93/अधि./स्था. IA/54735--निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2
पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम-3 पर दर्शाए गए
पद, कॉलम-4 पद दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पर दर्शाई गई घटना
के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग दिया गया
है :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार त्यागने का पद	पदत्याग करने की तारीख	घटना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	डॉ. (श्रीमती) अंजली एस. भागवत	वै.अ./एफ	02.04.2008 (पूर्वाह्न)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
2.	श्री सुरेश कुमार	वै.अ./डी	04.04.2008 (अपराह्न)	त्यागपत्र
3.	श्री विजय कुमार	वै.अ./एफ	08.04.2008 (पूर्वाह्न)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
4.	श्री अवीक सिल	वै.अ./डी	10.04.2008 (अपराह्न)	त्यागपत्र
5.	डॉ. (श्रीमती) ए. पी. कृष्णाजा	वै.अ./एफ	11.04.2008 (पूर्वाह्न)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
6.	डॉ. सुधीर दहिया	वै.अ./डी	22.04.2008 (अपराह्न)	त्यागपत्र
7.	डॉ. देवदास जैसवाल	वै.अ./एफ	30.04.2008 (अपराह्न)	अधिवर्षिता
8.	डॉ. जयु राधाकृष्ण पाइ	वै.अ./जी	30.04.2008 (अपराह्न)	अधिवर्षिता
9.	श्री प्रमोद कृष्ण मराठे	वै.अ./इ	30.04.2008 (अपराह्न)	अधिवर्षिता
10.	श्री रोहताश कुमार	वै.अ./इ	30.04.2008 (अपराह्न)	अधिवर्षिता
11.	डॉ. (श्रीमती) सारधा रमनी	वै.अ./जी	30.04.2008 (अपराह्न)	अधिवर्षिता
12.	श्री थॉमस मथ्यू	वै.अ./एफ	30.04.2008 (अपराह्न)	अधिवर्षिता
13.	डॉ. कोटक्कल नारायणन सुशीलन	वै.अ./इ	30.04.2008 (अपराह्न)	अधिवर्षिता

एन. डी. शर्मा
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

कल्पावकम-603102, दिनांक 22 मई 2008

सं. सासेसं./28(16)/2008-भ/301--निदेशक, सामान्य सेवा संगठन श्री जी. सेल्वकुमार, आशुलिपिक ग्रेड-III, सामान्य सेवा संगठन, कल्पावकम को दिनांक 15.04.2008 से 31.05.2008 की प्रभावी तारीख तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर उसी इकाई में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. दयालन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 21 मई 2008

सं. निसेसंप्रति/प्र/3(2045)/08-भर्ती/332--निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री वी. के. जानकीरामन, प्रवर श्रेणी लिपिक को दिनांक 14.05.2008 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में इस निदेशालय में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. मुरलीधरन
प्रशासन अधिकारी-III

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 14 मई 2008

संदर्भ : भापाबो/भर्ती/4(15)/2008/493--राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केंद्रीय कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (कोटा/तूतीकोरिन) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता को नीचे कॉलम सं. 4 में दर्शाये गए पद पर उनके सामने दर्शाये गये दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय संयंत्र में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। पदों के वेतनमान भी नीचे दर्शाये गये हैं :-

क्रम सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	इकाई भापाबो/भापासं.	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सर्वश्रेष्ठ					
1.	रंजित दास	वैज्ञानिक सहायक/एफ	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	केंद्रीय कार्यालय	01.08.2007
2.	गिरीश चन्द जोशी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	केंद्रीय कार्यालय	01.08.2007
3.	विक्रमो गौतम	वैज्ञानिक अधिकारी-सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	केंद्रीय कार्यालय	01.08.2007
4.	विभाग प्रसाद	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	केंद्रीय कार्यालय	01.08.2007
5.	सुरेश सिंह महता	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	कोटा	01.08.2007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	राजेन्द्र कुमार शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	कोटा	01.08.2007
7.	राम सिंह	वैज्ञानिक सहायक/एफ	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	कोटा	01.08.2007
8.	रामानन्द प्रसाद	वैज्ञानिक सहायक/एफ	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	कोटा	01.08.2007
9.	सुबोध प्रकाश सिंह	वैज्ञानिक सहायक/ई	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	कोटा	01.08.2007
10.	सुपैया रामकृष्ण	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	तूतीकोरिन	01.08.2007
11.	ईसकिमुलु सेल्वनाययणन	वैज्ञानिक सहायक/एफ	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	तूतीकोरिन	01.08.2007
12.	श्रीमती विजयराघवन इन्दुमति	वैज्ञानिक सहायक/एफ	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	तूतीकोरिन	01.08.2007
13.	अन्नामलै मेय्यलगन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	तूतीकोरिन	01.08.2007
14.	पलनी खलमुरगन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	तूतीकोरिन	01.08.2007

उपरोक्त अधिकारियों ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित दिनांक के पूर्वाह्न से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

वेतनमान : 1. वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड ई--12,000-375-16,500/-

2. वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड डी--10,000-325-15,200/-

आर. के. सैनी
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र

कल्पावकम-603 102, दिनांक 6 मई 2008

सं. इगाके/ए-11013/2008-भर्ती/533--राष्ट्रपति महोदय, इस विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने उल्लिखित तारीख से अस्थायी क्षमता पर अगले आदेश तक इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कल्पावकम में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'सी' के पद पर 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में प्रारंभिक वेतन 8,000/- रुपये पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	प.प.सं./प्रभाग	नाम	नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	6698/पीपीसीडी/आरईजी	आर. वरुणा	02.04.2008 (पूर्वाह्न)
2.	6699/ईएसजी	बी. शक्ति	02.04.2008 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
3.	6700/एफआरटीजी	एम. मैथिलि	02.04.2008 (पूर्वाह्न)
4.	6701/सीजी	ई. मोहनराज	02.04.2008 (पूर्वाह्न)
5.	6702/ईएसजी	टी. मणिकन्डन	02.04.2008 (पूर्वाह्न)
6.	6704/एफआरएफसीएफ	अमित कुमार चम्पतिराय	11.04.2008 (पूर्वाह्न)
7.	6705/एमएमडी	वी. डेविड विजयानंद	11.04.2008 (पूर्वाह्न)
8.	6706/एफआरएफसीएफ	एम. स्वपना	11.04.2008 (पूर्वाह्न)
9.	6237/ईएसजी	एस. किशन	11.04.2008 (पूर्वाह्न)
10.	6708/एमटीडी/एमएमजी	बी. शशांक दत्त	17.04.2008 (पूर्वाह्न)
11.	6709/आरओएमजी	वी. जयचित्रा	21.04.2008 (पूर्वाह्न)

एस. मणि
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

अंतरिक्ष विभाग

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र

तिरुवनंतपुरम-695 022, दिनांक 08 मई 2008

सं. वीएसएससी/स्था/एफ/1(17)--नियंत्रक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) एतद्वारा निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को पदोन्नति पर रुपए 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में वैयक्तिक सचिव के पद पर वीएसएससी में उनके नाम के आगे दी गई तारीख से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	प्रभाग	प्रभावी तिथि
1.	श्री रजिमोन सी. अब्रहाम	पीजीए	12.12.2007
2.	श्रीमती के. आर. मिनी	निदेशक (प) का कार्यालय	01.04.2008
3.	श्रीमती आर. राजलक्ष्मी	क्यू आर एम जी	21.04.2008

ए. स्टीफनसन्
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

सं. वीएसएससी/स्था/एफ/1(17)--नियंत्रक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) तिरुवनंतपुरम एतद्वारा श्री ताणुमूर्ति एस. को पदोन्नति पर रुपए 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में वरिष्ठ वैयक्तिक सचिव के पद पर वीएसएससी में दिनांक 21.04.2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

ए. स्टीफनसन्
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

कम्पनी कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में

कानपुर, दिनांक 27 मई 2008

सं. एल.सी./560(5)/75--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :-

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	20-027456	मैसर्स युग एसोसिएट प्राईवेट लिमिटेड
2.	20-012316	मैसर्स अलीका डायल लिमिटेड
3.	20-026956	मैसर्स क्लैरबोयन्स एसोसिएट प्राईवेट लिमिटेड
4.	20-012876	मैसर्स अलबी पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
5.	20-019580	मैसर्स किशोर सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
6.	20-023056	मैसर्स राधे आरचर्ड लिमिटेड
7.	20-007501	मैसर्स डी. पी. पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	20-027105	मैसर्स उदय ट्रेड लिंक प्राईवेट लिमिटेड
9.	20-028829	मैसर्स साइनिंग फ्युचर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
10.	20-027555	मैसर्स एलाइड कन्जुमर प्रोडक्ट लिमिटेड

1	2	3
11.	20-023876	मैसर्स क्रिएटिव कम्प्यूटर स्ट्रेटिजीस प्राईवेट लिमिटेड
12.	20-028177	मैसर्स मोहन इक्युटी प्राईवेट लिमिटेड
13.	20-008434	मैसर्स बटरफ्लाई सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	20-027700	मैसर्स जुन एग्रोटैक प्राईवेट लिमिटेड
15.	20-027189	मैसर्स एकता फिल्मस एण्ड कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	20-009103	मैसर्स मलिक ट्रेनिंग्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
17.	20-028550	मैसर्स सापिन्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
18.	20-027428	मैसर्स अरडेन्ट मार्केटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	20-030856	मैसर्स अस्विन हेल्थकेअर प्राईवेट लिमिटेड
20.	20-015012	मैसर्स आर. एच. कृषि फाईनेन्स एण्ड कामर्शियल कम्पनी लिमिटेड
21.	20-015581	मैसर्स पातेस्वरी लीजिंग एण्ड जनरल फाईनेन्स लिमिटेड
22.	20-018345	मैसर्स जोशी रीलैक्स होम प्राईवेट लिमिटेड
23.	20-000433	मैसर्स अनवरी कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
24.	20-026108	मैसर्स ए. आई. टी. सी. कम्प्यूटर एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में

आवधिकार-144003, दिनांक 23 मई 2007

सं. एसईएस-2005/560/356 --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और ये कम्पनियाँ विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	6150	मैसर्स सोसर टैनरीज लिमिटेड
2.	4661	मैसर्स कोना इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
3.	23052	मैसर्स एच. पी. हैल्थ सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड
4.	2811	मैसर्स पंजाब साल्ट पीटर रिफाईनरी प्राईवेट लिमिटेड
5.	23080	मैसर्स इन्दुस स्नैक्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	31273	मैसर्स देब क्लिकसन्ज प्रीफेब्रिज (आई) प्राईवेट लिमिटेड
7.	30080	मैसर्स प्रताप नेटवर्क कन्सैप्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	20342	मैसर्स जगसन बोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड

के. सी. मीना
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब हिमाचल एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जर्नीआर/560/3--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और ये कम्पनियाँ विघटित कर दी जाएंगी :--

S.NO.	COMPANY CIN	कम्पनी नाम
1	U25191RJ1984PTC003171	काल्सी रबड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2	U17111RJ1984PTC003174	के टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3	U92112RJ1985PTC003183	राजस्थान फिल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
4	U15142RJ1985PTC003186	श्री वैष्णोदेवी ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
5	U25209RJ1985PTC003187	सिरोही प्लास्टिक इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
6	U26943RJ1985PTC003188	उत्तम भारत सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7	U24236RJ1985PTC003189	जानूस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
8	U99999RJ1985PTC003192	वैभव इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
9	U28992RJ1985PTC003197	रिलाइन्स पोलिटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
10	U29309RJ1985PTC003199	मनफलो ऑटोमोटिव्स प्राईवेट लिमिटेड
11	U26943RJ1985PLC003200	काइमल व्हाइट सीमेन्ट्स एण्ड इण्डस्ट्रिज लिमिटेड
12	U24124RJ1985PLC003207	हिन्दुस्तान फार्मस एण्ड फर्टिलाइजर्स क० लिमिटेड
13	U14101RJ1985PTC003208	कृष्णा हाईड्रेड लाइम्स प्राईवेट लिमिटेड
14	U14101RJ1985PLC003215	सुमित मार्बल्स एण्ड ग्रेनाईट्स लिमिटेड
15	U14102RJ1985PTC003223	केशरी ग्रनाईट एण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
16	U14101RJ1985PLC003238	आरमर लिमिटेड
17	U27107RJ1985PTC003249	हाई-टेक स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
18	U25201RJ1985PTC003257	शिवम प्राईवेट लिमिटेड
19	U36991RJ1985PTC003261	सुप्रीम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
20	U14101RJ1985PTC003264	राजस्थान लाइम प्राईवेट लिमिटेड
21	U26943RJ1985PTC003265	भैरव सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
22	U15142RJ1985PTC003268	भवानी वनस्वती उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
23	U14101RJ1985PTC003270	रावत मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
24	U24111RJ1985PTC003271	राजावासक गैसज प्राईवेट लिमिटेड
25	U17111RJ1985PTC003273	श्री स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड
26	U14101RJ1985PTC003287	ग्लाज स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड
27	U29299RJ1985PTC003299	इन्टेलिजेन्ट कन्टोल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
28	U17222RJ1985PTC003301	डसफाहन कारपेट मन्युफेचरर्स प्राईवेट लिमिटेड
29	U51101RJ1985PTC003304	इनपार ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
30	U74950RJ1985PTC003311	गैलेक्सी पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
31	U45201RJ1985PLC003312	एलेगन्ती इन्टरलेशनल बिल्डर्स लिमिटेड
32	U70101RJ1985PTC003318	नाकोडाजी रियल एस्टेट एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
33	U55101RJ1985PTC003319	राजस्थान मिडवेज एण्ड मोटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
34	U25209RJ1985PLC003321	अक्रो प्लास्ट लिमिटेड
35	U15499RJ1985PTC003328	ओविक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
36	U24117RJ1985PTC003329	विक्रम पोलिप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
37	U24117RJ1985PTC003332	गुडवरी पोलिकेम प्राईवेट लिमिटेड
38	U17117RJ1985PTC003335	श्री पोलिटेक प्राईवेट लिमिटेड
39	U72100RJ1985PTC003339	कम्प्यूटर मैनेजमेन्ट ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड
40	U99999RJ1985PTC003351	एसोसिएटेड इण्डस्ट्रियल इनवेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
41	U25201RJ1985PTC003352	इण्डियन पोलिटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
42	U14219RJ1985PTC003354	मार्मो ग्रिलेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
43	U27203RJ1985PTC003356	कल्याण मुन्दरम व्हील्स लिमिटेड
44	U26943RJ1985PLC003358	पोटाडिया सीमेन्ट लिमिटेड

45	U26943RJ1985PTC003364	महेंद्रा सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
46	U25201RJ1985PTC003368	मरुधर सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
47	U27107RJ1985PTC003381	जेवसन्स प्राईवेट लिमिटेड
48	U72100RJ1985PLC003385	डिगी-कॉम सिस्टम्स लिमिटेड
49	U31300RJ1985PTC003391	मिश्रा मेटल्स एण्ड मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
50	U24304RJ1985PTC003392	मंजूश्री सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
51	U17124RJ1985PTC003403	वियरवेल मेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
52	U24304RJ1985PTC003404	खेम्का सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
53	U51395RJ1985PTC003409	संण्ड इलेक्ट्रोडैस प्राईवेट लिमिटेड
54	U74210RJ1985PTC003416	तारामनिक इंजिनियरिंग इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
55	U31300RJ1985PTC003423	इण्डस्ट्रियल लिक्स प्राईवेट लिमिटेड
56	U26932RJ1985PTC003428	राजस्थान प्रे-स्टेस्ड कॉन्क्रेट स्लीपर प्राईवेट लिमिटेड
57	U24232RJ1985PTC003431	जेनेटिक कमिकल इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
58	U14101RJ1985PTC003435	कल्पतरु मार्बल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
59	U15544RJ1985PTC003443	श्री श्याम आईस फेक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
60	U74940RJ1985PTC003446	अनीश कलर लेब प्राईवेट लिमिटेड
61	U67120RJ1985PLC003454	एशिया फार्मिन्स एण्ड सिजिंग लिमिटेड
62	U99999RJ1985PTC003458	रोमेट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
63	U26933RJ1985PLC003461	फाल्कोन गुल्फ श्रमिक्स लिमिटेड
64	U85195RJ1985PTC003467	महालक्ष्मी लेब्स प्राईवेट लिमिटेड
65	U24114RJ1985PLC003468	आदर्श ड्राइंग कमिकल्स लिमिटेड
66	U27106RJ1985PTC003472	श्रोपटिंगा एप्रोनास प्राईवेट लिमिटेड
67	U51501RJ1985PTC003477	श्री नाकोडा मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
68	U24232RJ1985PTC003489	अरिना फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
69	U14219RJ1985PTC003494	मेटेरियल मूवमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
70	U24111RJ1985PLC003495	वेगट इण्डिया गैस प्रोड्युक्ट्स लिमिटेड
71	U14101RJ1985PTC003499	कमल स्थान इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
72	U51101RJ1986PTC003501	प्रियाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
73	U25111RJ1986PTC003508	भौंडन स्वदेशी टायर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
74	U14101RJ1986PTC003515	स्वापनिका प्राईवेट लिमिटेड
75	U14101RJ1986PTC003518	कल्पा मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
76	U51395RJ1986PTC003529	जगदम्प्रे इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
77	U27107RJ1986PTC003531	जगदम्बा रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
78	U26943RJ1986PTC003533	दुर्गा सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
79	U14101RJ1986PTC003534	अल्फा मार्बल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
80	U22121RJ1986PTC003541	कामधेनु न्यूज पेपर प्राईवेट लिमिटेड
81	U15141RJ1986PTC003543	महावीर ऑयल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
82	U26943RJ1986PTC003549	कोटा सीमेन्ट उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
83	U26943RJ1986PTC003552	श्री शिवानी सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
84	U70101RJ1986PTC003553	चन्दानी प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
85	U25191RJ1986PTC003555	मनराईज रबड इण्डस्ट्रिज लिमिटेड
86	U27101RJ1986PTC003564	मृनिका एलोज प्राईवेट लिमिटेड
87	U51109RJ1986PTC003568	भुयाँ ऑटोमोटीव ग्रुप्स प्राईवेट लिमिटेड
88	U27107RJ1986PTC003576	काब कायल प्राईवेट लिमिटेड
89	U24119RJ1986PTC003580	एन शाभा कमोकेल्स प्राईवेट लिमिटेड

90	U17124RJ1986PTC003583	श्री बामनवाडा एण्ड फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
91	U51101RJ1986PLC003585	कयूरेश इन्टरप्राईसीज लिमिटेड
92	U15311RJ1986PTC003586	हाडीती प्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
93	U28129RJ1986PTC003593	कामूनिक्शन एड्स एण्ड मिस्यूरींग इन्स्यूटमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
94	U27310RJ1986PTC003598	अशोकास आदर कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
95	U27107RJ1986PTC003599	अशोकास आदर रि-रिलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
96	U45201RJ1986PTC003603	उमा शंकर कन्सल्टेशन एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
97	U24304RJ1986PTC003605	सुभाष सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
98	U18108RJ1986PTC003606	सुप्रीम सृटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
99	U15141RJ1986PTC003612	श्री रावत ऑयल इण्डस्ट्रिज लिमिटेड
100	U51101RJ1986PLC003617	जय इन्टरप्राईजेज लिमिटेड
101	U55101RJ1986PTC003624	जयपुर पिंक होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
102	U17124RJ1986PTC003626	गंगा फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
103	U19129RJ1986PTC003627	जी बी एस लेथर इन्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड
104	U74140RJ1986PTC003628	ट्रान्सकॉन्टीनेन्टल कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
105	U80302RJ1986PTC003632	माइक्रो पॉइन्ट इन्सटीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर ट्रेनिंग प्राईवेट लिमिटेड
106	U24233RJ1986PTC003634	कोठारी आयुर्वेद मसाला उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
107	U24232RJ1986PTC003635	पन्सी फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
108	U45201RJ1986PTC003639	एस एन के कन्सल्टेशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
109	U17116RJ1986PTC003642	वर्धमान सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
110	U51395RJ1986PTC003650	मालसन्स इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
111	U22212RJ1986PTC003652	अमरा मृदण उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
112	U29112RJ1986PTC003664	डीस पिस्टन्स प्राईवेट लिमिटेड
113	U74993RJ1986PTC003672	राजस्थान पोलिपैक लेमिनेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
114	U29299RJ1986PTC003673	साल्बो इंजिनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
115	U99999RJ1986PTC003678	रक्षक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
116	U17124RJ1986PTC003679	नवरतन फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
117	U14101RJ1986PTC003680	अपेक्स मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
118	U29212RJ1986PTC003683	आनन्द इंरिगेशन इक्विपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
119	U19129RJ1986PTCOO3686	कनसन्स लेथरीटेज प्राईवेट लिमिटेड
120	U24304RJ1988PTC004264	श्री वल्लभ सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
121	U25112RJ1988PTC004269	घूमर टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
122	U15142RJ1988PTC004276	विटा रिफाइनरी प्राईवेट लिमिटेड
123	U25191RJ1988PTC004278	गुडविल रबड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
124	U15141RJ1988PTC004285	चौधरी ऑयल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
125	U29299RJ1988PTC004286	मरूधर इंजिनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
126	U15499RJ1988PTC004287	पिरल फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
127	U22211RJ1988PTC004297	अजमेर प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
128	U30004RJ1988PTC004300	जोधपुर पेजसेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
129	U14219RJ1988PTC004302	गेम मिनिंग इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
130	U26943RJ1988PTC004303	दूजोदवाला सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
131	U18108RJ1988PTC004305	जयपुर सृटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
132	U27107RJ1988PTC004311	बका एलोएजे एण्ड स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
133	U64202RJ1988PTC004314	फेक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
134	U14219RJ1988PTC004315	सचेतन मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड

135	U24232RJ1988PTC004322	गजराज मूल्टीडिग प्राईवेट लिमिटेड
136	U24139RJ1988PTC004323	डायमण्ड गेम्स प्राईवेट लिमिटेड
137	U15499RJ1988PTC004329	भारतीय फुड्स प्राईवेट लिमिटेड
138	U45201RJ1988PTC004335	सनगडज कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
139	U45201RJ1988PTC004336	हाडोटो कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
140	U29299RJ1988PLC004339	गान्धि इण्डस्ट्रियल रिसोर्स इण्डिया लिमिटेड
141	U01122RJ1988PTC004340	अश्वली बीज विनिमय क० प्राईवेट लिमिटेड
142	U51101RJ1988PLC004347	पनसूमी इंजिनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
143	U15412RJ1988PTC004359	क्रिस्प बेकरीज प्राईवेट लिमिटेड
144	U85195RJ1988PTC004372	ब्रदर्स लबोराट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
145	U24244RJ1988PTC004382	अय भवानी पण्युमेर्स प्राईवेट लिमिटेड
146	U14219RJ1988PTC004387	गोडोड कमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
147	U24304RJ1988PLC004397	इण्डिया सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
148	U27101RJ1988PTC004398	कन्याणी मेटल एण्ड एल्योयस प्राईवेट लिमिटेड
149	U14101RJ1988PTC004407	भाटी शाह मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
150	U15141RJ1988PTC004411	श्रीनाथजी ऑयल रिफायनरी प्राईवेट लिमिटेड
151	U15141RJ1988PTC004412	गायत्री ऑयल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
152	U27203RJ1988PTC004419	श्री टॉन्सलाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
153	U14102RJ1988PTC004433	एम मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
154	U24304RJ1988PTC004437	गोताजली सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
155	U28994RJ1988PTC004440	श्री राम पाइप प्राईवेट लिमिटेड
156	U51432RJ1988PLC004444	के टी बिल्डिंग मेटरिअल्स लिमिटेड
157	U14101RJ1988PTC004445	उमरीय मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
158	U25112RJ1988PTC004447	गुरुधर टायर्स एण्ड श्रेंड्स प्राईवेट लिमिटेड
159	U24304RJ1988PTC004448	श्री गौरव सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
160	U24117RJ1988PTC004452	पलफाइट एण्ड एलाईड कमिकल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
161	U27101RJ1988PTC004455	एम मिरक मेटल प्राईवेट लिमिटेड प्राईवेट लिमिटेड
162	U14101RJ1988PTC004463	नीलकान्त मिनरल्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
163	U14101RJ1988PTC004465	नीलकान्त मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
164	U18108RJ1988PTC004466	गजोब सूरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
165	U55101RJ1988PTC004467	कशन सागर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
166	U74940RJ1988PTC004468	स्नेप सूट फोरो लेब कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
167	U26933RJ1988PTC004486	प्रीमियर श्रमिक इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
168	U15321RJ1988PTC004487	मनसूख स्टार्च प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
169	U67120RJ1988PTC004494	गौरव धरा बिट क० प्राईवेट लिमिटेड
170	U17116RJ1988PTC004501	गोपाल मिल्क मिक्स प्राईवेट लिमिटेड
171	U17115RJ1988PTC004502	गजर्स सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
172	U74920RJ1988PTC004514	राजपूताना एक्स एम एम सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
173	U14101RJ1988PTC004515	एच पी मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
174	U24304RJ1988PTC004524	योगेश सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
175	U24304RJ1988PTC004525	पंचम सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
176	U70101RJ1988PLC004526	जयपुर स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्राईवेट लिमिटेड
177	U74210RJ1988PTC004531	सुनभिमरी इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
178	U22211RJ1988PTC004542	सुभाष प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
179	U45201RJ1988PTC004557	आई जॉ कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड

		अभिनव इण्डस्ट्रिज केमिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
180	U24246RJ1988PTC004560	बी एल कॉस्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
181	U27310RJ1988PTC004564	महेश रबड इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
182	U25191RJ1988PTC004565	खम्का टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
183	U17124RJ1988PTC004589	मॉडर्न मेटल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
184	U27101RJ1988PTC004599	भीलवाडा फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
185	U15499RJ1988PTC004600	विश्वकर्मा इलेक्ट्रोड प्राईवेट लिमिटेड
186	U29292RJ1988PTC004603	शर्मा पी वं इंजिनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
187	U45203RJ1988PTC004609	हिमालय सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
188	U24304RJ1988PTC004618	रिषीकुल फार्मासी प्राईवेट लिमिटेड
189	U24232RJ1988PTC004620	मार्मो मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
190	U28939RJ1988PTC004635	जाम्बो ऑटो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
191	U31402RJ1988PTC004638	डॉ पी स्टील इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
192	U27107RJ1988PTC004639	यूनिक ऑटोकिंग टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
193	U25112RJ1988PTC004646	सनराईज टी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
194	U51226RJ1988PTC004647	धनजय केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
195	U14220RJ1988PTC004654	के के डिस्ट्रीलेराइज प्राईवेट लिमिटेड
196	U15511RJ1988PTC004659	शालीमार मिन्टरल्स प्राईवेट लिमिटेड
197	U14219RJ1988PTC004660	शक्ति मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
198	U51101RJ1988PTC004663	गुप्ता प्रोसेजर्स प्राईवेट लिमिटेड
199	U27101RJ1988PTC004664	सम्पान फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
200	U15499RJ1988PTC004668	अरावली ओरो रोप टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
201	U92412RJ1988PTC004679	सी वी रोलर प्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
202	U15311RJ1988PTC004681	जयदे एगो इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
203	U27105RJ1988PTC004682	स्टार ऑयल प्रोसेजर्स प्राईवेट लिमिटेड
204	U15141RJ1988PTC004695	महाराजा बोटलिंग प्राईवेट लिमिटेड
205	U74999RJ1988PTC004708	अग्रवाल ग्रैन्डिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
206	U15311RJ1988PTC004727	कोणार्क स्यूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
207	U18108RJ1988PTC004733	कालीवन ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
208	U15141RJ1988PTC004744	मालू रेटरिडिंग क० प्राईवेट लिमिटेड
209	U25114RJ1988PTC004750	अनुभव फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
210	U70109RJ1988PTC004752	डेल्टा ऑटो मैन्यूफ. प्राईवेट लिमिटेड
211	U34300RJ1989PTC004771	श्री हरगोविन्द मार्केटर्स प्राईवेट लिमिटेड
212	U31909RJ1989PTC004777	लीला फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
213	U24232RJ1989PTC004780	वेद प्रकाश संजय कुमार कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
214	U45201RJ1989PTC004782	गोन्का मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
215	U14101RJ1989PTC004792	शेखावाती स्टेट डवलपमेंट क० प्राईवेट लिमिटेड
216	U70109RJ1989PTC004793	अग्रवाल ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
217	U28994RJ1989PTC004808	जाल गंगा ड्रिलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
218	U29222RJ1989PTC004814	सतदर्भ एगो एण्ड पोल्टरी फार्म प्राईवेट लिमिटेड
219	U01222RJ1989PTC004822	नटराज विविंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
220	U17115RJ1989PTC004825	अजमेर कोल्ड रिट्रिड्स प्राईवेट लिमिटेड
221	U25114RJ1989PTC004831	डेको बिल्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
222	U36101RJ1989PTC004832	फिक्मवेल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इण्डस्ट्रिज लिमिटेड
223	U31909RJ1989PLC004837	

224	U01409RJ1989PTC004840	कलकत्ता फार्मस प्राइवेट लिमिटेड
225	U14102RJ1989PTC004842	विनायक ग्रेनाईट्स प्राइवेट लिमिटेड
226	U01111RJ1989PTC004848	श्री वरीशाल्या प्राइवेट लिमिटेड
227	U01222RJ1989PTC004850	बसंत पोल्टरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड
228	U36741RJ1989PTC004851	फरीलैंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
229	U14102RJ1989PTC004853	गंधु ग्रेनाईट्स प्राइवेट लिमिटेड
230	U26933RJ1989PTC004858	क्लासिक श्रमिकस प्राइवेट लिमिटेड
231	U14101RJ1989PTC004861	सिद्धि मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
232	U14101RJ1989PTC004868	राज लक्ष्मी टाइल्स एण्ड ग्रेनाईट्स प्राइवेट लिमिटेड
233	U74950RJ1989PTC004870	इनटेक्स एसपटिक बैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड
234	U26943RJ1989PTC004879	राज सीमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
235	U25209RJ1989PTC004881	मारवाड प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
236	U74300RJ1989PTC004886	परमाउन्ट एडवर्टाईजिंग राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड
237	U14101RJ1989PTC004887	श्री गोवरधन संगमरमर प्राइवेट लिमिटेड
238	U67120RJ1989PTC004889	अक्स एक्जिम्प प्राइवेट लिमिटेड
239	U45201RJ1989PTC004907	बगरू इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
240	U14101RJ1989PTC004916	सुविगा मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
241	U29299RJ1989PTC004919	पिरल ऑटो इन्सूलेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
242	U17114RJ1989PTC004920	के आर स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड
243	U29299RJ1989PTC004923	अल्फा इलेक्ट्रीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
244	U24304RJ1989PTC004925	गोविन्द सिन्थेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
245	U31300RJ1989PTC004926	करण कान्दकटर्स प्राइवेट लिमिटेड
246	U51101RJ1989PTC004930	गुलशन मेल्ल प्राइवेट लिमिटेड
247	U27310RJ1989PTC004932	एस बी कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
248	U14101RJ1989PTC004951	फनसीनेटिंग स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड
249	U60221RJ1989PTC004953	भुपरपस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
250	U24232RJ1989PTC004954	पिलादेलफिया फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
251	U27310RJ1989PTC004955	गैक कास्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
252	U24117RJ1989PTC004957	कापरी पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
253	U51224RJ1989PTC004963	रियल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
254	U67120RJ1989PLC004965	सिरीहेश लैंड एण्ड फाइन्स लिमिटेड
255	U14101RJ1989PTC004972	रामगंजमण्डी माइनिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
256	U15312RJ1989PTC005008	इडेन एग्री मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
257	U31300RJ1989PTC005019	टेलीकोर्ड्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
258	U34300RJ1989PTC005021	कांगार्क पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
259	U45201RJ1989PTC005024	क्रिशन बिन्डो एण्ड स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड
260	U24303RJ1989PTC005025	लेसमेन्ट पालीस्टर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
261	U19201RJ1989PTC005026	देण्ड शूज प्राइवेट लिमिटेड
262	U15499RJ1989PTC005034	प्रसानीया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स काल्सी रबड़ प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-27310/आरजे/1984-पीटीसी/003169/11002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स काल्सी रबड़ प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के. टेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-25191/आरजे/1984-पीटीसी/003171/11003--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स के. टेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजस्थान फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-15491/आरजे/1984-पीटीसी/003177/11005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राजस्थान फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री वैष्णोदेवी ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-92112/आरजे/1985-पीटीसी/003183/11006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री वैष्णोदेवी ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिरौही प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-15142/आरजे/1985-पीटीसी/003186/11007--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिरौही प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उत्तम भारत सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-25209/आरजे/1985-पीटीसी/003187/11008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स उत्तम भारत सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जानूस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26943/आरजे/1985-पीटीसी/003188/11009--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जानूस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वैभव इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24236/आरजे/1985-पीटीसी/003189/11010--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान
पर मैसर्स वैभव इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण
दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी
विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिलाइन्स पोलिटेक्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-99999/आरजे/1985-पीटीसी/003192/11011--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान
पर मैसर्स रिलाइन्स पोलिटेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनफलो ऑटोमोटिव्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-28992/आरजे/1985-पीटीसी/003197/11012--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स
सनफलो ऑटोमोटिव्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण
दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी
विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्राइस्टल व्हाइट सीमेन्ट्स एण्ड
इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-29309/आरजे/1985-पीटीसी/003199/11013--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर

मैसर्स क्राइस्टल व्हाइट सीमेन्ट्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम
इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हिन्दुस्तान फार्म्स एण्ड
फर्टिलाइजर्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26943/आरजे/1985-पीएलसी/003200/11014--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर
मैसर्स हिन्दुस्तान फार्म्स एण्ड फर्टिलाइजर्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का
नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कृष्णा हाईड्रेड लाइम्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24124/आरजे/1985-पीएलसी/003207/11015--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर
मैसर्स कृष्णा हाईड्रेड लाइम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुमित मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1985-पीटीसी/003208/11016--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर
मैसर्स सुमित मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स केशरी ग्रनाईट एण्ड मार्बल्स
प्र'ईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1985-पीएलसी/003215/11017--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स केशरी ग्रनाईट एण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

का.प.नि. अधिनियम, 1956 और मैसर्स आरमर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14102/आरजे/1985-पीटीसी/003223/11018--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स आरमर प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हाई-टेक स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1985-पीएलसी/003238/1019--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स हाई-टेक स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवम प्राइवेट लिमिटेड के विषय
में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26943/आरजे/1985-पीएलसी/003254/11020--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर

मैसर्स शिवम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुप्रीम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-25201/आरजे/1985-पीटीसी/003257/11021--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सुप्रीम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजस्थान लाइम प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपूर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-36991/आरजे/1985-पीटीसी/003261/11022--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स राजस्थान लाइम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भैरव सीमेंट इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपूर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1985-पीटीसी/003264/11023--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स भैरव सीमेंट इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भवानी वनस्पती उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26943/आरजे/1985-पीटीसी/003265/11024--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स भवानी वनस्पती उद्योग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधत्त कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रावत मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-15142/आरजे/1985-पीटीसी/003268/11025--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स रावत मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजावासक गैसेज प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1985-पीटीसी/003270/11026--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स राजावासक; गैसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24111/आरजे/1985-पीटीसी/003271/11027--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर

मैसर्स श्री स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्लाजे स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपूर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-17111/आरजे/1985-पीटीसी/003273/11028--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स ग्लाजे स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्टेलिजेन्ट कन्ट्रोल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1985-पीटीसी/003287/11029--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स इन्टेलिजेन्ट कन्ट्रोल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इसफाहन कारपेट मैन्युफेक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-29299/आरजे/1985-पीटीसी/003299/11030--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स इसफाहन कारपेट मैयूफेक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इनपार ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-17222/आरजे/1985-पीटीसी/003301/11031--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स इनपार ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गैलेक्सी पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26943/आरजे/1985-पीएलसी/003306/11032--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स गैलेक्सी पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एलेघेनी इन्टरनेशनल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-74950/आरजे/1985-पीटीसी/003311/11033--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स एलेघेनी इन्टरनेशनल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नेकोडाजी रियल एस्टेट एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-45201/आरजे/1985-पीएलसी/003312/11034--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर

मैसर्स नेकोडाजी रियल एस्टेट एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजस्थान मिडवेज एण्ड मोटेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-70101/आरजे/1985-पीटीसी/003318/11035--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स राजस्थान मिडवेज एण्ड मोटेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एक्रो प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-55101/आरजे/1985-पीटीसी/003319/11036--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स एक्रो प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओविक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-25209/आरजे/1985-पीएलसी/003321/11037--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स ओविक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विक्रम पोलिप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-15499/आरजे/1985-पीटीसी/003328/11038--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स विक्रम पोलीप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोदवरी पोलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24117/आरजे/1985-पीटीसी/003329/11039--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स गोदवरी पोलीकेम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री पोलीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24117/आरजे/1985-पीटीसी/003332/11040--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स श्री पोलीटेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कम्प्यूटर मैनेजमेन्ट ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

मं. यू. 17117/आरजे/1985-पीटीसी/003335/11041--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर

मैसर्स कम्प्यूटर मेनेजमेन्ट ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एसोसिएटेड इण्डस्ट्रियल इनवेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपूर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-72100/आरजे/1985-पीटीसी/003339/11042--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में ऐतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स एसोसिएटेड इण्डस्ट्रियल इनवेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इण्डियन पोलीटेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-99999/आरजे/1985-पीटीसी/003351/11043--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स इण्डियन पोर्लाटेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मामों ग्रिलेस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-25201/आरजे/1985-पीटीसी/003352/11044--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स भार्मो प्रिलेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कल्याण सुन्दरम व्हील्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14219/आरजे/1985-पीटीसी/003354/11045--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स कल्याण सुन्दरम व्हील्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पोटाडिया सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-27203/आरजे/1985-पीटीसी/003356/11046--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स पोटाडिया सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महेन्द्रा सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26943/आरजे/1985-पीएलसी/003358/11047--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स महेन्द्रा सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मरूधर सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26943/आरजे/1985-पीटीसी/003364/11048--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर

मैसर्स मरूधर सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेवसन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-25201/आरजे/1985-पीटीसी/003368/11049--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स जेवसन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डिगी-कॉम सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-27107/आरजे/1985-पीटीसी/003381/11050--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स डिगी-कॉम सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मिश्रा मेटल्स एण्ड मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-72100/आरजे/1985-पीएलसी/003385/11051--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मिश्रा मेटल्स एण्ड मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेनेटिक केमिकल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26932/आरजे/1985-पीटीसी/003428/11060--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स जेनेटिक केमिकल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कल्पतरू मार्बल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24232/आरजे/1985-पीटीसी/003431/11061--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स कल्पतरू मार्बल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री श्याम आईस फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1985-पीटीसी/003435/11062--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स श्री श्याम आईस फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनीश कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-15544/आरजे/1985-पीटीसी/003443/11063--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान

पर मैसर्स अनीश कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रश्मि फाईनेन्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-74940/आरजे/1985-पीटीसी/003446/11064--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रश्मि फाईनेन्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोमेट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-67120/आरजे/1985-पीएलसी/003454/11065--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रोमेट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फाल्कोन गुल्फ श्रमिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-99999/आरजे/1985-पीटीसी/003458/11066--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फाल्कोन गुल्फ श्रमिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महालक्ष्मी लेब्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26933/आरजे/1985-पीटीसी/003461/11067--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स महालक्ष्मी लेब्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आदर्श डाईज केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-85195/आरजे/1985-पीटीसी/003467/11068--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आदर्श डाईज केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओपटिमा स्प्रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24114/आरजे/1985-पीएलसी/003468/11069--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओपटिमा स्प्रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री नाकोडा मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-27106/आरजे/1985-पीटीसी/003472/11070--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान

पर मैसर्स श्री नाकोडा मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरिना फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-51501/आरजे/1985-पीटीसी/003477/11071--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अरिना फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेटेरियल मूवमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24232/आरजे/1985-पीटीसी/003489/11072--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेटेरियल मूवमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेस्ट इण्डिया गैस प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14219/आरजे/1985-पीटीसी/003494/11073--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वेस्ट इण्डिया गैस प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनराईज रबड़ इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-70101/आरजे/1986-पीटीसी/003553/11088--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सनराईज रबड़ इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सूनिका एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-25191/आरजे/1986-पीटीसी/003555/11089--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सूनिका एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सूर्या ऑटोमेटिव ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-27101/आरजे/1986-पीटीसी/003564/11090--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सूर्या ऑटोमेटिव ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्राब कायल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-51109/आरजे/1986-पीटीसी/003568/11091--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान

पर मैसर्स क्राब कायल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शार शोभा केमोकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-27107/आरजे/1986-पीटीसी/003576/11092--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शार शोभा केमोकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री बामनवाडा फाईबर एण्ड फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24119/आरजे/1986-पीटीसी/003580/11093--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री बामनवाडा फाईबर एण्ड फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्यूरोश इण्टरप्राईसीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-17124/आरजे/1986-पीटीसी/003583/11094--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्यूरोश इण्टरप्राईसीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हाडौती फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. चू. 51101/आरजे/1986-पीएलसी/003585/11095--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हाइड्रोती फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कम्प्यूनिक्शन एंड्स एण्ड
मिस्त्यूरिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-15311/आरजे/1986-पीटीसी/003586/11096--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कम्प्यूनिकेशन एंड्स एण्ड मिस्यूरिंग इंस्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अशोकस् आदर कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-28129/आरजे/1986-पीटीसी/003593/11097--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अशोकान्स आदर कार्स्टिंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अशोकासू आदर री-रिलिंग
मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू. 27310/आरजे/1986-पीटीसी/003598/11098- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान

पर मैसर्स अशोकान्स आदर री-रिलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उमा शंकर कंस्ट्रक्शन एण्ड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-27107/आरजे/1986-पीटीसी/003599/11099--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स उमा शंकर कंस्ट्रक्शन एण्ड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुभाष सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-45201/आरजे/1986-पीटीसी/003603/11100--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुभाष सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुप्रीम सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24304/आरजे/1986-पीटीसी/003605/11101-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुप्रीम सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री रावत ऑयल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-18108/आरजे/1986-पीटीसी/003606/11102--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री रावत ऑयल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जय इण्टरप्राइसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-15141/आरजे/1986-पीटीसी/003612/11103--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जय इण्टरप्राइसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जयपुर पिंग होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-51101/आरजे/1986-पीएलसी/003617/11104--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जयपुर पिंग होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गंगा फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-55101/आरजे/1986-पीटीसी/003624/11105--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान

पर मैसर्स गंगा फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. बी. एस. लेथर इण्टरप्राइसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-17124/आरजे/1986-पीटीसी/003626/11106--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जी. बी. एस. लेथर इण्टरप्राइसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्रांसकॉन्टीनेंटल कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-19129/आरजे/1986-पीटीसी/003627/11107--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ट्रांसकॉन्टीनेंटल कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स माइक्रो पॉइन्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर ट्रेनिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-74140/आरजे/1986-पीटीसी/003628/11108--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स माइक्रो पॉइन्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर ट्रेनिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजस्थान पोलीपैक लेमिनेटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-29112/आरजे/1986-पीटीसी/003664/11116--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राजस्थान पोलीपैक लेमिनेटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साल्बो इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-74993/आरजे/1986-पीटीसी/003672/11117--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साल्बो इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रक्षक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-29299/आरजे/1986-पीटीसी/003673/11118--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रक्षक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नवरतन फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-99999/आरजे/1986-पीटीसी/003678/11119--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान

पर मैसर्स नवरतन फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अपेक्स मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-17124/आरजे/1986-पीटीसी/003679/11120--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अपेक्स मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आनन्द इरिगेशन इक्व्यूपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1986-पीटीसी/003680/11121--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आनन्द इरिगेशन इक्व्यूपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कनसन्स लेथराईट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-29212/आरजे/1986-पीटीसी/003683/11122--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कनसन्स लेथराईट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोटा स्टोन एण्ड मार्बल्स
इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-63040/आरजे/1984-पीटीसी/003052/11130--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान
पर मैसर्स कोटा स्टोन एण्ड मार्बल्स इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम
इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जयपुर कारपेट्स एमएफजी
इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1984-पीटीसी/003057/11131--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान
पर मैसर्स जयपुर कारपेट्स एमएफजी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम
इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सब्को इमेरीस्टोन कम्पनी प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-17222/आरजे/1984-पीटीसी/003059/11132--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान
पर मैसर्स सब्को इमेरीस्टोन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके
प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स खैतान केमिकल्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1984-पीटीसी/003061/11133--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान

पर मैसर्स खैतान केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स माधव हाईटेची-टागा
इलैक्ट्रानिक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24232/आरजे/1984-पीएलसी/003065/11134--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान
पर मैसर्स माधव हाईटेची-टागा इलैक्ट्रानिक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का
नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एवरेस्ट स्टोनवेयर पाईप्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-31103/आरजे/1984-पीटीसी/003072/11135--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान
पर मैसर्स एवरेस्ट स्टोनवेयर पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके
प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्यो इन्टरनेशनल प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26956/आरजे/1984-पीटीसी/003074/11136--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान
पर मैसर्स ग्यो इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुप्ता लेबोरेट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24232/आरजे/1984-पीटीसी/003078/11137--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गुप्ता लेबोरेट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोटपुतली सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-85195/आरजे/1984-पीटीसी/003081/11138--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कोटपुतली सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एनर्जी एण्ड कॉम्युनिकेशन्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26943/आरजे/1984-पीटीसी/003082/11139--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एनर्जी एण्ड कॉम्युनिकेशन्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवा इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-64201/आरजे/1984-पीटीसी/003090/11140--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान

पर मैसर्स शिवा इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मनार्च फिल्मस कम्बाइन्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-36911/आरजे/1984-पीटीसी/003092/11141--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मनार्च फिल्मस कम्बाइन्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आकाश दीप ऑयल इन्डस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-92111/आरजे/1984-पीटीसी/003099/11142--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आकाश दीप ऑयल इन्डस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेस्ट इण्डिया इलैक्ट्रॉनिक्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-15143/आरजे/1984-पीटीसी/003100/11143--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वेस्ट इण्डिया इलैक्ट्रॉनिक्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेन्ट्रल सब्सक्रिप्शन एजेन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-51505/आरजे/1984-पीटीसी/003110/11144--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेन्ट्रल सब्सक्रिप्शन एजेन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री भगवती सिन्टैक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-22122/आरजे/1984-पीटीसी/003113/11145--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री भगवती सिन्टैक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ख्याति मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24304/आरजे/1984-पीटीसी/003115/11146--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ख्याति मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विनर्स इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1984-पीटीसी/003119/11147--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान

पर मैसर्स विनर्स इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिन्थिको एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-45201/आरजे/1984-पीटीसी/003127/11148--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिन्थिको एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. आर. एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-99999/आरजे/1984-पीटीसी/003128/11149--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस. आर. एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जवाई सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-70101/आरजे/1984-पीटीसी/003130/11150--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जवाई सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजस्थान एक्टोवेटिड अर्थ्स
कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26943/आरजे/1984-पीटीसी/003131/11151--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राजस्थान एक्ट्रोवेटीड अर्थ्स केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रेकम्ब्रेन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

मं. यू-24119/आरजे/1984-पीटीसी/003135/11152 -- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रेकम्ब्रेन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनो अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री शक्ति सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24119/आरजे/1984-पीटीसी/003137/11153--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री शक्ति सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस्. पी. कुमार
कम्पनर रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मरुधर ग्रेनाईट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26943/आरजे.1984-पीटीसी/003155/11/54 - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन भाग के अवसान

पर मैसर्स मरुधर ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नार्दन कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14102/आरजे/1984-पीटीसी/003168/11155--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नार्दन कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोक्सी इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी/560/12055/यू-24107/आरजे/1980-पीटीसी/002106/11156--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रोक्सी इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वीनस मार्बल्स इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी/560/12055/यू. 99999/आरजे/1980-पीटीसी/002107/11157--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वीनस मार्बल्स इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिभूत कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पावडरेक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-17124/आरजे/1981-पीटीसी/002226/11191--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स पावडरेक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्टरनेशनल स्प्रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-28910/आरजे/1981-पीएलसी/002236/11192--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स इन्टरनेशनल स्प्रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रीती आर्गेनिक एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-70101/आरजे/1981-पीटीसी/002242/11193--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स प्रीती आर्गेनिक एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सूमित टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-24119/आरजे/1981-पीटीसी/002246/11194--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन

माह के अवसान पर मैसर्स सूमित टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अलवर रबड़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-17124/आरजे/1981-पीटीसी/002248/11195--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स अलवर रबड़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मारवाड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-25191/आरजे/1981-पीटीसी/002250/11196--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मारवाड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वर्मा बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-24232/आरजे/1981-पीटीसी/002254/11197--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स वर्मा बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उदयपुर सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-27107/आरजे/1981-पीटीसी/002356/11227--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स उदयपुर सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जन कल्याण फाइनेंस एण्ड इनवेस्टमेन्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-24304/आरजे/1981-पीटीसी/002360/11228--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स जन कल्याण फाइनेंस एण्ड इनवेस्टमेन्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जैनगो इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-67120/आरजे/1981-पीएलसी/002364/11229--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स जैनगो इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यूनाइटेड स्ट्रक्चरर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-27107/आरजे/1981-पीटीसी/002365/11230--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन

माह के अवसान पर मैसर्स यूनाइटेड स्ट्रक्चरर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजनगर मार्बल्स एण्ड मिनरल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-28999/आरजे/1981-पीटीसी/002369/11231--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स राजनगर मार्बल्स एण्ड मिनरल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मयंक टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-14101/आरजे/1981-पीटीसी/002371/11232--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मयंक टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हमीर इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-17124/आरजे/1981-पीटीसी/002380/11233--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स हमीर इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजस्थान एक्सलो सनवा मिडलैण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-51101/आरजे/1982-पीटीसी/002431/11248--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स राजस्थान एक्सलो सनवा मिडलैण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स माधोगरिया इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-34300/आरजे/1982-पीएलसी/002434/11249--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स माधोगरिया इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सी के इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-65990/आरजे/1982-पीटीसी/002436/11250--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सी के इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्वास्तिका इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-51101/आरजे/1982-पीटीसी/002437/11251--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन

माह के अवसान पर मैसर्स स्वास्तिका इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रीमियर सिलेन्डर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-34300/आरजे/1982-पीटीसी/002444/11252--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स प्रीमियर सिलेन्डर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डोमोप्लास्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-28121/आरजे/1982-पीएलसी/002446/11253--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स डोमोप्लास्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मधु सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-25201/आरजे/1982-पीटीसी/002449/11254--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मधु सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रामा इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-26943/आरजे/1982-पीटीसी/002483/11263--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स रामा इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुपर पोटैरिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-51101/आरजे/1982-पीटीसी/002485/-11265-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सुपर पोटैरिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ज्वाला सीमेन्ट एण्ड एलाईड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-26911/आरजे/1982-पीटीसी/002486/11266--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स ज्वाला सीमेन्ट एण्ड एलाईड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स माहेश्वरी प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-26943/आरजे/1982-पीटीसी/002489/11266--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से

तीन मास के अवसान पर मैसर्स माहेश्वरी प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राज अम्बर फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-25209/आरजे/1982-पीटीसी/002496/11267--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अम्बर फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोयल ऑयल फ्लोर एण्ड दाल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-92112/आरजे/1982-पीटीसी/002498/11268--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गोयल ऑयल फ्लोर एण्ड दाल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तराई सीड सिन्ध्या प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12055/यू-99999/आरजे/1982-पीटीसी/002507/11270---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एग्लोमार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सो/560/12055/यू-51214/आरजे/1982-पीटीसी/002514/11271--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एग्लोमार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दिव्या फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी/560/12055/यू-14101/आरजे/1982-पीटीसी/002516/11272--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दिव्या फर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भीलवाडा इन्सुलेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-24124/आरजे/1982-पीटीसी/002520/11272--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन नास के अवसान पर मैसर्स भीलवाड़ा इन्सुलेशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शेखावटी ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपूर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

स.आर.ओ.सी/560/12055/यू-31300/आरजे/1982-पीटीसी/002521/11273--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से

तीन मास के अवसान पर मैसर्स शेखावटी ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीनगर ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-60231/आरजे/1982-पीटीसी/002524/11274--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्रीनगर ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फेबटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-51101/आरजे/1982-पीटीसी/002525/11276--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फेबटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिद्धार्थ कॉइन्स प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-26943/आरजे/1982-पीटीसी/002529/11277--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिद्धार्थ कॉइन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेरातवाल इन्सुलेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सो/560/12055/यू-21091/आरजे/1982-पीटीसी/002531/11278--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेरातवाला इन्सुलेशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुमन सिल्क मिल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स परीमाडो मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर. ओ. सां/560/12055/यू-17116/आरजे/1982-पीटीसी/002549/11282--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स परीमाडो मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेवेरा सेविंग्स एण्ड फायनांस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सो/560/12055/यू-31300/आरजे/1982-पीटीसी/002534/11279--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेवेरा सेविंग्स एण्ड फायनांस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरुन मिका इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सां/560/12055/यू-14101/आरजे/1982-पीटीसी/002553/11283--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अरुन मिका इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोडिज प्रेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सो/560/12055/यू-67120/आरजे/1982-पीटीसी/002542/11281--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मोडिज प्रेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर्य एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के
विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-14293/आरजे/1982-पीटीसी/002555/11284--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आर्य एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुमन सिल्क मिल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-29212/आरजे/1982-पीटीसी/002548/11281---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स धान केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सो/560/12055/यू-51214/आरजे/1982-पीटीसी/002558/11285--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स धान केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फेस्को डुप्लिकेट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-24117/आरजे/1982-पीटीसी/002561/11286--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फेस्को डुप्लिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोयल्स कंस्ट्रक्शंस इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-36991/आरजे/1982-पीटीसी/002562/11287---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गोयल्लस कंस्ट्रक्शंस इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हेमकुण्ड मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-45201/आरजे/1982-पीटीसी/
002566/11288--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा
(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से

तीन मास के अवसान पर मैसर्स हेमकुण्ड मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओरिएण्टल सिनीन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-14219/आरजे/1982-पीटीसी/002570/11289--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओरिएण्टल सिनीन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मार्बल्स मन्दिर प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सो/560/12055/यू-28121/आरजे/1982-पीटीसी/002576/11290--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मार्बल्स मन्दिर प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. टी. इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-14101/आरजे/1982-पीटीसी/002579/11291--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जी. टी. इण्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोनार्क कम्स एण्ड एलाईड
प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सो/560/12055/यू-45201/आरजे/1982-पीटीसी/002582/11292--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मोनार्क कम्स एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डिटेक्स प्रोसेस्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपूर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी/560/12055/यू-24117/आरजे/1982-पीटीसी/002590/11293-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डिटैक्स प्रोसेस्सर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-17214/आरजे/1982-पीटीसी/002594/11294--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेस्टर्न मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-99999/आरजे/1982-पीटीसी/002596/1295-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्वय में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से

तीन मास के अवसान पर मैसर्स वेस्टर्न मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनिल गिनिंग एण्ड प्रेसिंग
फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-14219/आरजे/1982-पीटीसी/002598/11296---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अनिल गिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जागी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सूचिता ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-01405/आरजे/1982-पीटीसी/002599/11297--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सूचिता ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री बलवंत फूड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-51101/आरजे/1982-पीटीसी/002600/11298---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मेसर्स श्री बलवंत फूड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स होटल विजय प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर. ओ. सी/560/12055/यू-26932/आरजे/1982-पीटीसी/002605/11299--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स होटल विजय प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जिप्सम फाइबर इंडिया लिमिटेड
के विषय में

जयपर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-55101/आरजे/1982-पीटीसी/002612/11300--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जिप्सम फाइबर इंडिया लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रश्मि सोप्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-24302/आरजे/1982-पीटीसी/002622/11301--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रश्मि सोप्स केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शर्मा मेटल्स मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-24302/आरजे/1982-पीटीसी/
002623/11302---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा
(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से

तीन मास के अवसान पर मैसर्स शर्मा मेटल्स मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फ्रैण्ड्स ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-29299/आरजे/1982-पीटीसी/002629/11303--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फ्रैण्ड्स ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अलंकार एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-51101/आरजे/1983-पीटीसी/002635/11304--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अलंकार एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स याम ऑयल कोक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपूर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सो/560/12055/यू-31909/आरजे/1983-पीटीसी/002636/11305---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स याम ऑयल केके प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एल. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

सं.आर.आ.सं.560/12055/सू. 29299/आर.सं. 1983-पीटीसी/00269/111323। सम्पत्ती अधिनियम, 1956 की धारा 260 की उपधारा (3) की अनुरूपता में पालनद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजस्थान स्टीप्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-28201/आरजे/1983-पीटीसी/002703/11327--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राजस्थान स्टिप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आईसलैण्ड प्राइवेट लिमिटेड के
विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-27107/आरजे/1983-पीटीसी/002704/11328--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आईसलैण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इवरलास्ट फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सो/560/12055/यू-29191/आरजे/1983-पीटीसी/002713/11329--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इवरलास्ट फिल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विषटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निर्माण सोलवैन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर. ओ. सी/560/12055/यू-34300/आरजे/1983-पीटीसी/
002716/11330--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा
(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से

तीन मास के अवसान पर मैसर्स निर्माण सोलवैन्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सी-फैल्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-15142/आरजे/1988-पीएलसी/002719/11331--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सी-फैल्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी. आर. एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सो/560/12055/यू-18101/आरजे/1983-पीटीसी/002723/11332--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बी. आर. एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्कोन्स राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-26943/आरजे/1983-पीटीसी/002724/11333--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इन्कोन्स राजस्थान प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मदन सन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सा/560/12055/यू-29308/आरजे/1983-पीटीसी/002732/11334-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मदन सन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विमल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-29308/आरजे/1983-पीटीसी/002735/11335--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बिमल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस्. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स केमकेपस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपूर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-15203/आरजे/1983-पीटीसी/002738/11336--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स केमकेपेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भोलवाड़ा स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपूर, दिनांक २८ सितम्बर २००७

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-24232/आरजे/1983-पोएलसी/002739/11337---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त तारीख से

तीन मास के अवसान पर मैसर्स भीलवाड़ा स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अमरनाथ चिरंजीलाल बिहडर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-17115/आरजे/1983-पीटीसी/002740/11338--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अमरनाथ चिंरंजीलाल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बीकानेर पल्प एण्ड पेपर इण्डस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-45201/आरजे/1983-पीटीसी/002747/11339--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बीकानेर पल्प एण्ड पेपर इण्डस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दीपाली डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपूर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं.आर.ओ.सी/560/12055/यू-21012/आरजे/1983-पीटीसी/002748/11340--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दीपाली डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राठी मार्बल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-15141/आरजे/1983-पीटीसी/002796/11355--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राठी मार्बल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर. एम. मार्बल्स इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1983-पीटीसी/002797/11356--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आर. एम. मार्बल्स इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नवरंग स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1983-पीटीसी/002804/11357--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नवरंग स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी. जी. मोहनोत एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-17112/आरजे/1983-पीटीसी/ 002806/11358--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स बी.

जी. मोहनोत एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यू लक्की मार्बल ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-31200/आरजे/1983-पीटीसी/ 002810/11359--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स न्यू लक्की मार्बल ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री भागवत प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14102/आरजे/1983-पीटीसी/ 002811/11360--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स श्री भागवत प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कृष्णा फोग्रे एण्ड स्ट्यापिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-18101/आरजे/1983-पीटीसी/002819/11361--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स कृष्णा फोग्रे एण्ड स्ट्यापिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. सी.एम. प्राईवेट लिमिटेड के
विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-51311/आरजे/1983-पीटीसी/002850/11369--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स ए.
सी. एम. प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया
गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी
जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पिंग सिटी सर्विस ऑन काल
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-92111/आरजे/1983-पीटीसी/002852/11370--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर
मैसर्स पिंग सिटी सर्विस ऑन काल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अमृत शिले प्राईवेट लिमिटेड के
विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-64201/आरजे/1983-पीटीसी/002856/11371--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर
मैसर्स अमृत शिले प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न
किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर
दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एसे इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1983-पीटीसी/002860/11372--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स एसे

इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न
किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर
दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री गणपति सीमेन्ट प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-51101/आरजे/1983-पीटीसी/002863/11373--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर
मैसर्स गणपति सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण
दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी
विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पंजाब पाइप्स प्राईवेट लिमिटेड के
विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26943/आरजे/1984-पीटीसी/002867/11374--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर
मैसर्स पंजाब पाइप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित
न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित
कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लक्ष्मी सिनफेब मिल्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26932/आरजे/1984-पीटीसी/002871/11375--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर
मैसर्स लक्ष्मी सिनफेब मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26993/आरजे/1984-पीटीसी/002889/11380--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स हिन्दुस्तान सर्किट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

सं. यू-24232/आरजे/1984-पीएलसी/002880/11377--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स प्रशान्त एल्यूम एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसकी प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शंकर इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सरस्वती मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

सं. यू-31200/आरजे/1984-पीएलसी/002892/11381--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स शंकर इलैक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

सं. यू-27203/आरजे/1984-पीटीसी/002882/11378--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सरस्वती मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोडिया फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपूर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

एस. पो. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिग्मा प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

सं. यू-51395/आरजे/1984-पीएलसी/002893/11382--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स केडिया फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

यं यू. 51420/आरजे/1984-पीटीसी/002883/11379- कम्पनी
 अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में ऐतद्वारा
 यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोदानी सीमेन्ट एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-17124/आरजे/1984-पीटीसी/002894/11383--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सोदानी सीमेन्ट एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्वास्तिक सीमेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-26943/आरजे/1984-पीटीसी/002899/11384--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स स्वास्तिक सीमेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दुर्गा मिनकेम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-51432/आरजे/1984-पीटीसी/002903/11385--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स दुर्गा मिनकेम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फ्रेण्ड्स लाइम इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24117/आरजे/1984-पीटीसी/002905/11386--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स

फ्रेण्ड्स लाइम इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी एस प्रोसेजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14107/आरजे/1984-पीटीसी/002906/11387--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स जी एस प्रोसेजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजस्थान पेरिओडिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24302/आरजे/1984-पीटीसी/002907/11388--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स राजस्थान पेरिओडिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोपी राइट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-22122/आरजे/1984-पीएलसी/002913/11389--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स कोपी राइट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गैसवत टाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-51101/आरजे/1984-पीटीसी/002949/11397--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स गैसवत टाइल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मुन्दरा मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

જયપર, દિનાંક 28 સિતમ્બર 2007

सं. यू-14101/आरजे/1984-पीटीसी/002952/11398--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मुन्दरा मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनुपमा बिल्डर्स एण्ड कॉन्स्ट्रक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1984-पीटीसी/002974/11399--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में ऐतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स अनुपमा बिल्डर्स एण्ड कॉन्स्ट्रक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पोलीसेट सिल्क एण्ड सिन्थेटिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यु. 45201/आरजे/1984-पीटीसी/002980/11400--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर

मैसर्स पोलीसेट सिल्क एण्ड सिन्थेटिक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजगरिया वूडन इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-17116/आरजे/1984-पीटीसी/002986/11401--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स राजगरिया वूडन इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोचर इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपूर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-20291/आरजे/1984-पीटीसी/002987/11402--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स कोचर इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अजन्ता केमिकल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-51101/आरजे/1984-पीटीसी/002992/11403--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स अजन्ता केमिकल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जे. के. एण्ड सन्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24211/आरजे/1984-पीएलसी/002994/11404--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स जे. के. एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मनरच मार्बल इण्डस्ट्रिज प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-24222/आरजे/1984-पीटीसी/003008/11405--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मनरच मार्बल इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्टेन्डर्ड ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-14101/आरजे/1984-पीटीसी/003010/11406--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स स्टेन्डर्ड ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उत्तम फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के
विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-51109/आरजे/1984-पीटीसी/003012/11407--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा

यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स उत्तम फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मंगलम एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-15497/आरजे/1984-पीटीसी/003017/11408--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मंगलम एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सत्यन पैकैजिंग इण्डस्ट्रिज प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-17114/आरजे/1984-पीटीसी/003034/11409--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स सत्यन पैकैजिंग इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री विशाल प्रिन्टर्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-74950/आरजे/1984-पीटीसी/003036/11410--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स श्री विशाल प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मजिद एण्ड ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. यू-22190/आरजे/1984-पीएलसी/003038/11411--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स मजिद एण्ड ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इंडो लिक्विड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00025/134749/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इंडो लिक्विड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एवर आईस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00022/019416/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एवर आईस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वरुण एक्वा फोडपैक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00028/134043/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वरुण एक्वा फोडपैक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिल्वर स्प्रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00031/130860/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिल्वर स्प्रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स संत निलोबाय मिनरल वाटर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00034/120304/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स संत निलोबाय मिनरल वाटर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अमित आईस फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00019/042528/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अमित आईस फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

Devinder Singh

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिन्नर आईस फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00108/094940/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिन्नर आईस फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अमन आईस फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00114/115748/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अमन आईस फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वैकटेश्वर कन्स्ट्रक्ट-वेल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 01134/105786/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वैकटेश्वर कन्स्ट्रक्ट-वेल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेस्टर्न मिलेनियम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जून 2008

सं. 560/2007/00384--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वेस्टर्न मिलेनियम इन्फोटेक

प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पंचम स्टील प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00082/115269/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पंचम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रेरणा सेक्युरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00457/113794/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रेरणा सेक्युरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कल्पवृक्ष मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00074/113561/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कल्पवृक्ष मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गतिशील फायनांस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00381/107082/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गतिशील फायरान्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेन्ट्रल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00780/125445:560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेंट्रल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मैक्स एग्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00144/103741/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मैक्स एग्रोटैक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मूंबई 400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

मं. 00772/111244/560(3)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसर्ण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैमर्स सन एडमिनिस्ट्रेशन

सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विजन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मंडई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00803/111340/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विजय सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्टच मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00823/111398/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इनटच मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेडीजोन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00468/113770/560(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेडीजोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विक्रम प्लास्टो इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00273/102069/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विक्रम प्लास्टो इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कश्मीरा हायरपरचेस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00186/103815/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कश्मीरा हायरपरचेस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुमी कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00339/123370/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुमी कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ताट्वा सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00319/123335/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ताट्वा सोल्यूशंस

प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्काई-हाई मोटेल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00297/123317/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्काई-हाई मोटेल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स व्हेक्यू एडवांस्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00289/123309/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स व्हेक्यू एडवांस्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विनर्स इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00267/123287/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विनर्स इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनमैक इण्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00257/123238/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सनमैक इण्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनुपम वायर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00309/123332/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अनुपम वायर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उत्कर्ष मशरूम कल्टीवेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00325/123355/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स उत्कर्ष मशरूम कल्टीवेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हरशील टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00355/123391/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हरशील टेक्सटाईल

प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डेकॉस सोफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00375/123411/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डेकॉस सोफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्लासिक फ्रैन्चिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00046/036948/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्लासिक फ्रैन्चिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आरव्हीलोन सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00053/036835/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आरव्हीलोन सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. आर. निटफैब प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00396/133293/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस. आर. निटफैब प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

मीना राजेन्द्र सिंह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मिडटाऊन सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00202/109956/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मिडटाऊन सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

मीना राजेन्द्र सिंह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स देवेश एनवाइरो एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00014/126783/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स देवेश एनवाइरो एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महानकल प्रिन्टर रिबन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00500/104248/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स महानकल प्रिन्टर रिबन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री संत गाडगे महाराज फूड प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00186/122043/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री संत गाडगे महाराज फूड प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नेशनल फूड प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00182/121420/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नेशनल फूड प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कावंडस् होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00166/103791/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कावंडस् होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एकवीरा ऐडहसिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00559/115693/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एकवीरा ऐडहसिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री हनुमान मिनरल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 01213/108680/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री हनुमान मिनरल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिव-महिमा एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00490/108453/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिव-महिमा एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ईगल मेलकेम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00342/108135/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ईगल मेलकेम प्राईवेट

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बोनेस इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00672/107883/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बोनेस इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नूरसन्स फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00137/078646/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नूरसन्स फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोल्डन ग्रेप्स एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00095/071841/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गोल्डन ग्रेप्स एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मूनरिच फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00074/064502/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मूनरिच फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निफाड ग्रेप्स एण्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00068/062924/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स निफाड ग्रेप्स एण्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोनी एग्रो मेट इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00059/057476/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सोनी एग्रो मेट इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मधुरा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00973/103525/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मधुरा केमिकल्स

प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भुसावल स्टील प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00498/103509/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स भुसावल स्टील प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बन्सल सिन्थेटिक्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00107/026189/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बन्सल सिन्थेटिक्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सेंदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रोग्रेसिव सिन्थेटिक्स एण्ड इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00110/024486/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रोग्रेसिव सिन्थेटिक्स एण्ड इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सेंदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

Devinder Singh

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रमणभाई छोटाभाई पटेल टोबेको प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00028/064808/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रमणभाई छोट्यभाई पटेल टोबेको प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

श्रीराम भोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वी. एच. पटेल टोबेको प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00025/076068/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वी. एच. पटेल टोबेको प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए-वन स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

मंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00021/114505/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ए-वन स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नीलकांत टोबेको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मंडई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00018/119963/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नीलकांत ट्रेडिंग

कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कैलाश टोबेको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00056/019167/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कैलाश टोबेको प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रेरणा कोल्ड स्टोरेज एण्ड
आइस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00106/132608/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रेरणा कोलड स्टोरेज एण्ड आईस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजपाल लिक्वर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मंंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00100/051003/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राजपाल लिक्वर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सेंदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रॉयल मसाला एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मंन्बई 400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00095/084907/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रॉयल मसाला एण्ड फ़ूडप्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एक्सप्रेस लिक्वर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00092/097959/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 का उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एक्सप्रेस लिक्वर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाणी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्यनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निपुरा इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00052/027933/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स निपुरा इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कमल कथा फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00049/032150/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कमल कथा फ़ैक्टरी

प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बॉम्बे टोबैको प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

मं.बई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00045/041079/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बॉम्बे टोबेको प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सेंदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कैम्टी टोबेको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00038/049799/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स केम्प्टी ओबेको कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रियाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00035/057591/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रियाजी डस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सेंदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मैग्नम प्रोसेस्ड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00031/058253/560(3)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मैग्म प्रोसेस्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुपर कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

मंंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00081/053312/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुपर कंटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता

कम्पनी रजिस्टार

महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बागा दीया पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00084/048673/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बागा दीया पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता

कम्पनी रजिस्ट्रार

महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिद्धि विनायक पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00087/047836/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिद्धि विनायक

पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता

कम्पनी रजिस्ट्रार

महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नंदेश मेटल टीन कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00090/047628/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नंदेश मेटल टीन कंटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता

कम्पनी रजिस्टार

महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डीलक्स कंटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

मंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00093/047455/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डीलक्स कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता

कम्पनी रजिस्ट्रार

महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्कोप पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00096/046710/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्वीप पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता

कम्पनी रजिस्ट्रार

महाराष्ट्र

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विंघा पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00114/036379/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विंघा पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टॉप क्लोजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00108/040313/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टॉप क्लोजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेष्को ड्रम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00111/036486/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वेष्को ड्रम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनशार्इन पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 00117/035305/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सनशार्इन पैकेजिंग

प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वृद्धि होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 22 मई 2008

सं. यू-00069/जीए 2000/पीटीसी 002918--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के अवसान पर मैसर्स वृद्धि होटल्स प्राईवेट लिमिटेड इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गये तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्मृति स्टोन क्रशिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 22 मई 2008

सं. यू-14103/जीए 2000/पीटीसी 002920--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के अवसान पर मैसर्स स्मृति स्टोन क्रशिंग प्राईवेट लिमिटेड इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गये तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मुस्कान फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 22 मई 2008

सं. यू-05001/जीए 2000/पीटीसी 002925--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के अवसान पर मैसर्स मुस्कान फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गये तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोविंदा पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 22 मई 2008

सं. यू-25209/जीए 2000/पीटीसी 002926--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के अवसान पर मैसर्स गोविंदा पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रीझम इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 22 मई 2008

सं. यू-72900/जीए 2000/पीटीसी 002930--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के अवसान पर मैसर्स प्रीझम इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोनेदेव टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 21 मई 2008

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-हैदराबाद/धारा 560/2008/00033--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के अवसान पर मैसर्स सोनेदेव टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

हेनरी रिचर्ड
कम्पनी रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नगीनीमरा फारेस्ट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 मई 2008

सं. 2007 का नागालैंड की 14-1959/100--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नगीनीमरा फारेस्ट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरुणाचल केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 मई 2008

सं. 2007 का अरुणाचल की 23-001982/101--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अरुणाचल केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भीष्मक विनीर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 मई 2008

सं. 2007 का अरुणाचल की 23-004265/104--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भीष्मक विनीर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पोनाकोना टिम्बर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 मई 2008

सं. 2007 का नागालैंड की 14-002113/107--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पोनाकोना टिम्बर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विनायका टिम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 मई 2008

सं. 2007 का अरुणाचल की 23-004095/108--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विनायका टिम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कमेन मेयर केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 मई 2008

सं. 2007 का अरुणाचल की 23-005529/111--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कमेन मेयर केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दी जाती है कि मैसर्स कमैन मेयर केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स व्होलाना केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 मई 2008

सं. 2007 का अरुणाचल की 23-005952/114--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स व्होलाना केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी. व एस. हाऊसिंग फॉयनांस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 मई 2008

सं. 560(5) एम सी ए/कै.र-शिलांग/धारा 560/2008/ 00003/117--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बी. व एस. हाऊसिंग फॉयनांस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनान्स एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 मई 2008

सं. 2007 का असम की 02-006022/120--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अनान्स एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एड्यु-वैयर इनफोर्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 मई 2008

सं. 2007 का असम की 02-006507/124--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एड्यु-वैयर इनफोर्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लोहित केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 मई 2008

सं. 2007 का अरुणाचल की 23-002225/127--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लोहित केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पटकाई केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 मई 2008

सं. 2007 का असम की 02-003787/130--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पटकाई केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एन. सी. टिम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 मई 2008

सं. 2007 का असम की 02-002051/133--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एन. सी. टिम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में चेन्नई, दिनांक 05 मई 2008

सं. 16329 से 58783 तक / 560(3)/-2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर नीचे दिये गए कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे, और उक्त कम्पनियाँ विघटित की जाएगी:--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	16329	मैसर्स मिण् मीनी लिसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2.	27361	मैसर्स अमृतालक्ष्मी बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
3.	33928	मैसर्स मानसरोवर मिनरल वाटर प्राईवेट लिमिटेड
4.	44227	मैसर्स विल्सन ओवरसिस ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
5.	50089	मैसर्स जननी इम्पोर्ट्स एवं एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	51676	मैसर्स ए 2जैड आई डील प्राईवेट लिमिटेड
7.	52486	मैसर्स स्पेरोट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	58783	मैसर्स अड्यार इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम प्राईवेट लिमिटेड

बी. एन. हरीश
कम्पनी पंजीयक

तमिलनाडु, अन्दमाण और निकोबार द्विपसंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चेन्नई, दिनांक 19 मई 2008

सं. 10886 से 62517 तक / 560(3)/-2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर नीचे दिए गए कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे, और उक्त कम्पनियाँ विघटित की जाएंगी:--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	10886	मैसर्स सिल्वर साक्स लिमिटेड
2.	13638	मैसर्स मेरिडियन फिशरीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3.	20017	मैसर्स के. पी. अग्रिकेम लिमिटेड
4.	25184	मैसर्स एल्लेस फॉइनान्स लिमिटेड
5.	26869	मैसर्स ट्वेन्टि फ़स्ट सैचुरी पेस्ट कंट्रोल सर्विसेस लिमिटेड
6.	29854	मैसर्स स्पेक्ट्रम पेट्रो प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	34103	मैसर्स स्वर्णकमल फिन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
8.	37218	मैसर्स जकदश्री कम्प्यूटर्स एण्ड कम्प्यूनिक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	37513	मैसर्स सेन्दिल प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
10.	38262	मैसर्स एन. पी. एस. वीयर ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	39180	मैसर्स कार पोरजिगस (चेन्नै) प्राईवेट लिमिटेड
12.	42544	मैसर्स वोइट आरो इन्फरमेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
13.	47952	मैसर्स एलिफेन्ट पास आरचिड्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	57490	मैसर्स इफ्फोन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
15.	57580	मैसर्स वोल्डवैड एन्टरप्राइस सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	58016	मैसर्स विश्वास इन्फोमैटिक्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
17.	59452	मैसर्स सुराग ट्रेड लिग्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	60051	मैसर्स एमएसए इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	60108	मैसर्स एमके कार्स्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	62517	मैसर्स त्रिप्लेक्स क्लारिटी एण्ड एक्सिकुशन सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड

बी. एन. हरीश
कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु, अन्दमाण और निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रनाड्स ट्रेवल एण्ड टूरस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई, दिनांक 19 मई 2008

सं. 38199/560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स रनाड्स ट्रेवल एण्ड टूरस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा, और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. एन. हरीश
कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु, चेन्नै, अन्दमाण और निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 21 मई 2008

सं. कं.सं./कर.ब/तस/ 560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर नीचे दिये गये कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे, और उक्त कम्पनियाँ विघटित की जाएगी:--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	17497	मैसर्स शेरोन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड
2.	17514	मैसर्स अंबिका इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड
3.	17619	मैसर्स अमृत हाऊसिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
4.	17670	मैसर्स ओडमे इण्डिया लिमिटेड
5.	17671	मैसर्स एक्सकर्टन इण्डिया लिमिटेड
6.	17673	मैसर्स ट्रिजेम इण्डिया लिमिटेड
7.	17704	मैसर्स टिआरबि इन्वेस्टमेंट एण्ड फॉयनांस लिमिटेड
8.	17780	मैसर्स श्री शाम भोर सिल्कस लिमिटेड
9.	17863	मैसर्स श्री आर्यदुर्गा अक्वा प्रोडक्ट्स लिमिटेड
10.	18097	मैसर्स ईकान फॉयनांस लिमिटेड
11.	19397	मैसर्स करम आटोफिन लिमिटेड

ए. एम. श्रीधरन
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 19 मई 2005

सं. 560(5)/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	3656	मैसर्स कम्प्यूटर प्रोडक्ट्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
2.	3929	मैसर्स जेनिथ बॉडी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	3940	मैसर्स लालस्टोन फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	3942	मैसर्स फाइबर मौल्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	3955	मैसर्स एड्टामार्क्स इनोवेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	3964	मैसर्स कल्पना ईस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
7.	3765	मैसर्स चोटास होटल्स इंटरनेशनल लिमिटेड
8.	3767	मैसर्स टरिहंत कंडक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	3774	मैसर्स सफायर ग्रास प्राईवेट लिमिटेड
10.	3776	मैसर्स गुड लाईफ फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	3780	मैसर्स रेवती इंजिनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
12.	3790	मैसर्स ईसार इंजिनियर्स कांटेक्टर्स एण्ड कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	3791	मैसर्स किरण मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	3798	मैसर्स विश्वकिरण होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	30605	मैसर्स यूनिक प्रेस्टो मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
16.	30608	मैसर्स श्री अन्नपूर्णेश्वरी मार्केटिंग (बेंगलूर) प्राईवेट लिमिटेड
17.	30611	मैसर्स एस. ए. फिफ्थ डे डायविंग स्कूल प्राईवेट लिमिटेड
18.	30622	मैसर्स एक्सिस मार्केटिंग एण्ड कंसलटेंट्स (कर्नाटक) प्राईवेट लिमिटेड
19.	30624	मैसर्स जेप्रोवेस साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
20.	30634	मैसर्स अरविंद डिजाइन प्राईवेट लिमिटेड
21.	30637	मैसर्स टिंबरसिटी नेट प्राईवेट लिमिटेड
22.	30639	मैसर्स वकवेल डायरेक्ट मर्चेंट प्राईवेट लिमिटेड
23.	30644	मैसर्स ल्युमिनस डिस्प्ले साईन प्राईवेट लिमिटेड
24.	30646	मैसर्स लिमरा हाई-टेक प्लानर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	30651	मैसर्स पार्कव्यू मेडिकल डायग्नोस्टिक प्राईवेट लिमिटेड
26.	30654	मैसर्स शक्ति हर्बल एक्स्ट्रेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
27.	30655	मैसर्स अनिमिका साफ्टवेयर टेक्नॉलाजी प्राईवेट लिमिटेड
28.	30657	मैसर्स सविनानासु फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	30659	मैसर्स शिवानी पावर प्राईवेट लिमिटेड
30.	30681	मैसर्स आप्टकेयर मेडी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
31.	30682	मैसर्स आला एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	30690	मैसर्स अपूर्वा पेविंग्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	30700	मैसर्स सालिडस मल्टी टेक प्राईवेट लिमिटेड
34.	30706	मैसर्स नेचुरल कमोडिटीस प्राईवेट लिमिटेड
35.	30708	मैसर्स अल-कमर मेडिकेयर एण्ड रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
36.	30709	मैसर्स कंस्टेलो फार्म प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	30714	मैसर्स ए. एफ. सी. न्यूट्रिफ्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	30715	मैसर्स मइक्रो सेल इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
39.	30723	मैसर्स जिशा ह्यूमेन रिसोर्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
40.	30737	मैसर्स भगवती विद्या तरंग टेक्नॉलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
41.	30738	मैसर्स एक्सिस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	30743	मैसर्स एस बी क्यू फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	30752	मैसर्स सिलिटेक एलिमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	30759	मैसर्स सेल्कोस मार्केटर्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	30766	मैसर्स पेस इनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	30767	मैसर्स अरविंद बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
47.	30779	मैसर्स ए. के. डाटासिस एण्ड साल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	30781	मैसर्स रॉयल इंप्रेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	30782	मैसर्स पोरवाल शेयर्स एण्ड स्टॉक्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	30783	मैसर्स मेडियन डायरेक्ट फायनेंसियल साल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	30786	मैसर्स शेशाद्री इनोवेटिव टेक्नॉलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
52.	30790	मैसर्स एसोसिएटेड कोच बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	30797	मैसर्स आर. के. शेटी हॉलीडे रिसोर्ट्स एण्ड वण्डर लैंड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. सजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 22 मई 2008

सं. 560(5) के एम/2008-09--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :-

क्र०	कंपनी नं०	कंपनी का नाम
1	28950	नचविश साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस प्राइवेलिमी०
2	28957	सर्ग इंफोटेक प्राइवेलिमी०
3	28960	टगेदर टेक्नोलॉजिस प्राइवेलिमी०
4	28964	बिग डील इन्वेस्टमेंट कंसलटेंट्स प्राइवेलिमी०
5	28982	श्री तर्ष एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेलिमी०
6	29473	टेकोर्स एकेडमी प्राइवेलिमी०
7	28996	ईसी मार्केटिंग कान्सल्टंट्स प्राइवेलिमी०
8	29004	हावैस्टर इंफोसिस्टम्स प्राइवेलिमी०
9	29014	स्पार्क एको-टेक प्राइवेलिमी०
10	29019	डागा एजेन्सीस प्राइवेलिमी०
11	29020	गोल्डन टाउनशिप डेवलपर्स प्राइवेलिमी०
12	29021	आप्टिमल साफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेलिमी०
13	29026	गेनी लर्निंग टेक्नोलॉजिस प्राइवेलिमी०
14	29043	डेल्टा-5 कोरियर सर्विसेस प्राइवेलिमी०
15	29049	गारजी मार्केटिंग एण्ड एसोसियेटेड सर्विसेस प्राइवेलिमी०
16	29060	यूनिक इंफो प्राइवेलिमी०
17	29069	पंचवटी एगोटेक प्राइवेलिमी०
18	29070	भारती आजलाईन कम्युनिकेशन्स इंडिया प्राइवेलिमी०
19	29078	काल प्रो सॉल्यूशन्स प्राइवेलिमी०
20	29079	आर्चिड इंफोटे प्राइवेलिमी०
21	29083	त्रिकूट इंफोटेक प्राइवेलिमी०
22	29085	कोमरला कंसल्टन्स प्राइवेलिमी०
23	29100	एमपी0के0 कंसल्टन्स प्राइवेलिमी०
24	29101	ई4य नेटवर्क्स प्राइवेलिमी०
25	29109	सीएस-टेक कंसल्टेंट्स सॉल्यूशन्स प्राइवेलिमी०
26	29111	इंडस एसोसियेटेड्स रिकेशन्स प्राइवेलिमी०
27	29132	साफ्टेज नेटवर्क्स प्राइवेलिमी०
28	29157	मेगा प्रोजेक्ट्स एण्ड वैचर्स (इंडिया) प्राइवेलिमी०
29	29163	ए0के0एम0एस0 मेनेजमेंट सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेलिमी०
30	29175	एम0बी0ए0ए0 कारिंटिंग प्राइवेलिमी०
31	29178	गेजिया एक्सपोर्ट्स प्राइवेलिमी०
32	29183	शाय-मून होटल्स प्राइवेलिमी०
33	29187	एस0एल0 फर्निचर्स प्राइवेलिमी०
34	29190	वी-2 ट्रेनिंग कान्सल्टंट्स प्राइवेलिमी०
35	29192	उत्तोल आईटी सॉल्यूशन्स प्राइवेलिमी०
36	29200	काल रवेन टेक्नोलॉजिस प्राइवेलिमी०
37	29203	ओकार अपेरल्स प्राइवेलिमी०
38	29223	एस0एम0वी0 कंसल्टन्स प्राइवेलिमी०
39	29225	रायल रायफ होटल्स प्राइवेलिमी०

40	29236	पोलिटैक एलॉयस प्राइ0लिमि0
41	29242	विलफ एस्टेट्स एंड प्रापटीस प्राइ0लिमि0
42	29243	एसएन-एकिलिक इंडिया प्राइ0लिमि0
43	29248	मेरिकॉन्प टेक्नोलॉजिस प्राइ0लिमि0
44	29249	लाईफलाइन कार्ड्स प्राइ0लिमि0
45	29279	सिनेप्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस प्राइ0लिमि0
46	29284	सूर्या आईटी प्राइ0लिमि0
47	29289	रेक्स मल्टीटेक प्राइ0लिमि0
48	29290	मेदियस मेनेजमेंट सर्विसेस प्राइ0लिमि0
49	29294	कमांड इंटरनेशनल साफ्टवेयर प्राइ0लिमि0
50	29296	अभिवृद्धि मेनेजमेंट सर्विसेस प्राइ0लिमि0
51	29298	वोल्टेक फैशन नेट इंडिया प्राइ0लिमि0
52	29303	जीसीआरएफएल इंडियारेन्स साल्यूशन्स प्राइ0लिमि0
53	29315	मिलेनियम मेन पॉवर साल्यूशन एंड सर्विस प्राइ0लिमि0
54	29316	पद्मश्री कम्यूटर्स प्राइ0लिमि0
55	29317	इजेंट टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइ0लिमि0
56	29321	ओशआ एक्सपोर्ट्स प्राइ0लिमि0
57	29332	ई-वर्क्स टेक्नोलॉजिस प्राइ0लिमि0
58	29337	सेक सिंथेटिक्स प्राइ0लिमि0
59	29360	नेल्सन लाजिरिटक्स एण्ड देवल्स प्राइ0लिमि0
60	29365	आलविज नेटवर्क प्राइ0लिमि0
61	29371	बंगाकॉम इंडिया प्राइ0लिमि0
62	29386	बिओ डेल्टा टेक्नोलॉजिस प्राइ0लिमि0
63	29397	परपेक्चअल ट्रेड लिंक्स प्राइ0लिमि0
64	29400	एशोशियल क्लाइंटिंग सोर्स प्राइ0लिमि0
65	29402	साई राम सिल्वस प्राइ0लिमि0
66	29412	विलक इंफोटेक प्राइ0लिमि0
67	29415	कामिनसियेट साफ्टवेयर प्राइ0लिमि0
68	29420	रॉकवेल ग्रेनाइट्स प्राइ0लिमि0
69	29421	रॉकवेल एयर एक्सप्रेस प्राइ0लिमि0
70	29434	केरावेल इम्पेक्स प्राइ0लिमि0
71	29436	जेनॉम साफ्टवेयर साल्यूशन्स प्राइ0लिमि0
72	29457	बी0पी0बी0 साफ्टटेक प्राइ0लिमि0
73	29460	विसअल ट्रांस कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजिस प्राइ0लिमि0
74	29468	युनिडोल मार्केटिंग प्राइ0लिमि0

सी. बी. सजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 22 मई 2008

सं. 560(5)/के एम/2008-09--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियों विघटित हो गई हैं :--

क्र०	कंपनी नं०	कंपनी का नाम
1	29475	इंडोथर्मस कार्बुराइजिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2	29480	कोजि कोत वल्लभ प्राइवेट लिमिटेड
3	29490	राप्तागिरी पॉवर इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	29492	सोल साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
5	29494	सन्निराटी टेक्नर्स प्राइवेट लिमिटेड
6	29513	विजया एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड
7	29518	मेधा साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस्ट प्राइवेट लिमिटेड
8	29523	साबंद इन्फोमेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
9	29524	ई०टी० सिस्टम्स (बेंगलूर) प्राइवेट लिमिटेड
10	29526	ला-केपिटल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
11	29528	होयसाला इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
12	29532	बिसर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	29537	हवाईयॉ फूट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
14	29544	के०एम० एडवाइसर प्राइवेट लिमिटेड
15	29546	श्री चामुंडी टेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
16	29554	जे०पी० पावर प्राइवेट लिमिटेड
17	29557	सिद्धलिंगेश्वर पावर सप्लाइ प्राइवेट लिमिटेड
18	29559	संजीवनी बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड
19	29565	फर्स्ट स्टेप मार्केटिंग (कर्नाटक) प्राइवेट लिमिटेड
20	29571	इम्पावर इन्फोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
21	29575	शेलम लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
22	29581	ग्राम्ट एग्रीकल्चरल सर्वि एंड सेलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
23	29589	पद्मंजली होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
24	29596	श्री शंकरा पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड
25	29599	सी०बी०डी० इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
26	29600	ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
27	29601	अनुप्रा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
28	29605	डाय-लॉजिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
29	29606	लेकप्रा इन्फोमेशन टेक्नोलॉजिस्ट प्राइवेट लिमिटेड
30	29614	ब्लू लाईन होम्स प्राइवेट लिमिटेड
31	29620	प्रमथ आनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
32	29629	एम०जी० एक्सेलटेक प्राइवेट लिमिटेड
33	29632	टिबिटी आर्टो मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
34	29643	विजय इफो-टेलिटेक प्राइवेट लिमिटेड
35	29645	वसन्त इन्जिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
36	29658	न्यू लाईफ फार्मसियल कंसलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
37	29663	होलिस्टिक लीनिंग रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
38	29672	आहार एविकेन प्राइवेट लिमिटेड
39	29682	एग्लो कंजुमर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड

40	29705	डीएमओएच0 फंड प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइ0लिमि0
41	29710	ग्रीनल्यू नेटवर्क प्राइ0लिमि0
42	29718	ऑनलाईन रिकटर्स प्राइ0लिमि0
43	29722	वेरीक्यो कन्सल्टिंग प्राइ0लिमि0
44	29723	एक्स वेब साल्यूशन्स प्राइ0लिमि0
45	29724	बी0बी0बी0 म्यूजिक प्राइ0लिमि0
46	29727	चोई मेनेजमेंट सर्विसेस प्राइ0लिमि0
47	29732	आई0बी0ए0 सेक्युरिटी सिस्टम्स प्राइ0लिमि0
48	29735	गंगा कावेरी फायनेसियल एडवायसिंग सर्विसेस प्राइ0लिमि0
49	29736	वर्टेक्स फ्यूचर एल्डीहाइड्स प्राइ0लिमि0
50	29743	सी0जी0 लाइफस्टाइल प्राइ0लिमि0
51	29744	ग्लोबेट ई बिज प्राइ0लिमि0
52	29915	दत्ता कमीडिटी ट्रेडिंग प्राइ0लिमि0
53	29759	बैंगलोर साल्टेड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स प्राइ0लिमि0
54	29763	कामधेन फायनेसियल सर्विसेस प्राइ0लिमि0
55	29793	महात्मा रीमेड प्रोडक्ट्स प्राइ0लिमि0
56	29794	ईस्पेटियल रिस्पॉस प्राइ0लिमि0
57	29796	समर्थ गुवा काम प्राइ0लिमि0
58	29806	आफ्ट बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स प्राइ0लिमि0
59	29812	माइंड्स विजन मार्केटिंग प्राइ0लिमि0
60	29814	एम्बेसेडर साफ्टवेयर प्राइ0लिमि0
61	29819	एस0एल0एन0 मार्केटिंग प्राइ0लिमि0
62	29824	हरी एक्सपोर्ट ट्रेडिंग प्राइ0लिमि0
63	29835	सिंकोनाईज सॉफ्टवेयर प्राइ0लिमि0
64	29840	सप्तगिरी वाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइ0लिमि0
65	29844	बैंगलोर फोटो माईड प्राइ0लिमि0
66	29846	डिजाईन लॉजिक्स आईटी साल्यूशन्स एजुकेशन एंड कंसल्टिंग प्राइ0लिमि0
67	29858	श्रेयस रिटचवियर प्राइ0लिमि0
68	29879	कॉम्पलाईफ कम्प्यूटर एजुकेशन प्राइ0लिमि0
69	29883	सब 'एन' सेड होलिडे होम्स प्राइ0लिमि0
70	29887	कर्नाटका एबीकल्चर कंसलटेन्सी एंड सर्विसेस प्राइ0लिमि0
71	29920	बेसटेक नेटवर्क्स प्राइ0लिमि0
72	29892	एकाग्र कम्युनिकेशन्स प्राइ0लिमि0

सी. वी. सजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 22 मई 2008

से. 560(5) के एम/2008-09--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :-

क्र०	कंपनी नं०	कंपनी का नाम
1	29922	इन्स्टो हार्डवेयर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
2	29927	व्योम इन्वोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3	29939	लाइफ लाईन कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
4	29940	टेकडायनामिक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
5	31510	जेबीन (इंडिया) डिस्प्ले टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
6	31523	गेटगोइंग मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
7	31526	एक्वारेट स्पीच सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
8	31534	मालनाथ फायनेंसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
9	31542	आरना इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
10	31543	धनभरणी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
11	31556	एवीआरएन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
12	31558	चाकोस काउन प्लाना होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	31566	शेडो इंवेस्टीगेशन एंड सेक्युरिटी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
14	31569	राज राजेश्वरी रद्वचरल इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	31571	फेदर टच इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
16	31579	श्रीभटेक कॉन्सिडर्स प्राइवेट लिमिटेड
17	31593	माय वे इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
18	31594	बेना-सिरोज टॉलरोड (इं) प्राइवेट लिमिटेड
19	31595	इमोड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
20	31599	एक्सलेंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
21	31600	कम्प्यूटेक टीवींग प्राइवेट लिमिटेड
22	31602	एच-व्यूल्ड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
23	31611	थमारा नाडी प्राइवेट लिमिटेड
24	31963	आर०वी०के० मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
25	31628	जनप्रगति इंस्टीट्यूट ऑफ एचआरडी एंड वेलफेयर प्राइवेट लिमिटेड
26	31669	रिनजी मैनेजमेंट सर्विसेस एंड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड
27	31670	श्रीनिधी रिफायनर्स प्राइवेट लिमिटेड
28	31672	हर्षित मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
29	31675	मोटो कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
30	31685	इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
31	31690	संवाहन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
32	31697	ओ डीएम० नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
33	31699	गिरजा रामाना माइन्स मिनेरल्स एंड मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
34	31700	एम्पायर इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
35	31704	एस०एल०वी० टायर सेटर प्राइवेट लिमिटेड
36	31707	अरासु मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
37	31709	वेबसिल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
38	31724	अयूर कॉस्मिक थैरेपी प्राइवेट लिमिटेड
39	31739	मेफ्लोअर मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

40	31745	टेकटॉन इंफो साल्यूशन्स प्राइ0लिमि0
41	31756	लाउंच मार्केटिंग प्राइ0लिमि0
42	31761	सेव लाईफ एक्सप्रेस हेल्थकेयर प्राइ0लिमि0
43	31765	जिनियस एक्स शॉपिंग प्राइ0लिमि0
44	31767	रिवेलेशनस सेक्युरिटीस प्राइ0लिमि0
45	31774	जी0आर0आर0 नेटवर्क मार्केटिंग प्राइ0लिमि0
46	31973	इनचिप नेटविजन प्राइ0लिमि0
47	31781	आलगीन जर्किन एक्सपोर्ट्स प्राइ0लिमि0
48	31795	शाश्वत मार्केटिंग मेनेजमेंट प्राइ0लिमि0
49	31808	रघु वेबकंसल्ट प्राइ0लिमि0
50	31812	कॉन्करेंट कंसलटेन्सी एंड मेनेजमेंट प्राइ0लिमि0
51	31821	फार्चुन नेट इंडिया मार्केटिंग प्राइ0लिमि0
52	31822	कन्नियामोडुगु कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइ0लिमि0
53	31824	चेकवुड मेकर प्राइ0लिमि0
54	31834	एक्विट साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस प्राइ0लिमि0
55	31838	विशिता वेब सर्विसेस प्राइ0लिमि0
56	31846	अभिराम्नी इलेक्ट्रीकल्स (इं) प्राइ0लिमि0
57	31847	तेजस इंफोसाल्यूशन्स प्राइ0लिमि0
58	31857	मितेश साफ्टवेक प्राइ0लिमि0
59	31860	सिंटेगा इंसोसिस्टम्स प्राइ0लिमि0
60	31863	आलवेल हेल्थकेयर मार्केटिंग प्राइ0लिमि0
61	31872	मन्नु साफ्टवेयर इनोवेटिव टेक्नोलॉजिस प्राइ0लिमि0
62	31880	पायोनियर बिजनेस इंडिया प्राइ0लिमि0
63	31904	एयरो स्पॉन्सर मार्केटिंग प्राइ0लिमि0
64	31889	सूत्र कम्युनिकेशन्स प्राइ0लिमि0
65	31908	डोनाल्ड काउचर ब्रिट्टो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राइ0लिमि0
66	31916	विश्वास होमवूड्स प्राइ0लिमि0
67	31919	के0एल0 अरेक प्राइ0लिमि0
68	31920	एम0टी0जी0 अरेक प्राइ0लिमि0
69	31924	निमिश फूड प्रोडक्ट्स प्राइ0लिमि0
70	31928	मालनाड एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइ0लिमि0
71	31930	केटालिस्ट मार्केट साल्यूशन्स प्राइ0लिमि0
72	31935	आफटेक सर्विसेस प्राइ0लिमि0
73	31938	पेटागॉन इंटेक्स प्राइ0लिमि0
74	31940	सक्सेस विजन सिस्टम्स प्राइ0लिमि0
75	31946	मैत्री कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स प्राइ0लिमि0
76	31954	प्रमथराम मार्केटिंग प्राइ0लिमि0

सी. वी. सजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 30th April 2008

No. A-38012/02/2008-Admn. I.—The President is pleased to permit Shri S. S. Rama, CSS, working as Joint Secretary (Director Level) in UPSC to retire from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th April 2008.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

No. A-38012/04/2008-Admn. I.—The President is pleased to permit Shri P. S. Nair, CSS, working as Joint Secretary (Director Level) in UPSC to retire from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th April 2008.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

No. A-38013/04/2008-Admn. I.—The President is pleased to permit Shri Ashok Kumar Khanna, CSSS, working as Private Secretary in UPSC to retire from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th April 2008.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 21st May 2008

No. DP/Pers. 12008/0086/3/21/2003.—Services of Shri Deepak Kumar, IPS (JK : 1993), DIG, Central Bureau of Investigation, have been placed at the disposal of Government of Jammu & Kashmir with effect from the afternoon of 01.04.2008 on completion of deputation tenure at Centre.

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

No. DP/Pers. 12008/0087/3/18/2008.—The President is pleased to appoint Shri O. P. Galhotra, IPS (RJ : 1985) as Joint Director in Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 07/05/2008 for a period of 5 years or until further orders whichever is earlier.

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

No. DP/Pers. 12008/0088/3/29/2008.—The President is pleased to appoint Shri Alok Kumar Patena, IPS (MP : 1986) as Joint Director in Central Bureau of Investigation with

effect from the afternoon of 23rd April, 2008 for a period upto 15.05.2010, or until further orders, whichever is earlier.

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

No. DP/Pers. 1/2008/0089/3/19/2008.—The President is pleased to appoint Shri Rishi Raj Singh, IPS (KL : 1985) as Joint Director in Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 07.05.2008 for a period of 5 years or until further orders whichever event takes place earlier.

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT)

New Delhi, the 22nd May 2008

No. 13/2/2007/Admn.—The President is pleased to appoint Dr. B. V. Trivedi, Assistant Director, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi as Deputy Director in Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi on promotion basis in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/- with effect from the forenoon of 15th May, 2008.

A. K. SOOD
Asstt. Dir. (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 15th May 2008

No. O. II.968/74-CRC (MOs)—On his Superannuation, Dr. Bhanwar Lal Meena, DIGP (Med), (IRLA-1263), CH, CRPF, Neemuch (MP) made over charge of his post from the afternoon of 30.04.2008. Accordingly, his name deleted from the strength of the Force from the same date i.e. 30.04.2008 (AN).

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

No. O. II.3770/08-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Shabana Bano (IRLA-7659) as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in temporary capacity from the forenoon of 04.04.2008 till further order. She is posted to CH, CRPF, Allahabad.

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
CENTRAL REVENUES

New Delhi-110002, the 19th May 2008

No. Admn. I/16-1/Pron/04-09/286-303.—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi is pleased to promote the following Section Officers as Assistant Audit Officers (Group 'B') in a temporary capacity in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- w.e.f. 08.05.2008 (FN) until further orders :—

Sl. No.	Name	Emp. Code No.
1.	Smt. Seema Chowdhry	0707
2.	Shri Manoj Kumar Gupta	0770

The promotees may send their option for fixation of pay to the Establishment Section within one month of the date of their promotion.

A. SINHA
Dy. Dir. (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)
DELHI

New Delhi, the 21st May 2008

No. Admn. O.O. No. 15.—Consequent upon his attaining the age of superannuation Shri Manjit Singh Asstt. Audit Officer of this office will be retiring from the Service of the Government of India with effect from the afternoon of 30.6.2008.

His date of birth is 27.06.1948 and date of joining is 4.6.1970.

Sd/ ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA

New Delhi-110002, the 22nd April 2008

No. 2049-GE-I/13-2006.—Ms. Manjeet Kaur, Sr. PPS retired on superannuation wef 31.3.2008 (AN).

R. NARESH
Asstt. Comptr. & Auditor Gen. (P)

OFFICE OF THE DIRECTOR OF ACCOUNTS (POSTAL)

Kapurthala, the 21st May 2008

No. Admn./A-IV/Leave case/Des Raj, Clerk/22—Shri Des Raj S/o Shri Gian Chand previously clerk of this office had been on unauthorised absence since 21.6.2005 and he failed

to pay due attention towards the office communication and directions/orders. All Communications and memoranda issued to him at his last known address were received back undelivered with the remarks of Postman that (The person of this name has gone abroad may be returned to sender). After following necessary disciplinary proceedings under the departmental rules, it was decided that Sh. Des Raj, Clerk be removed from service with effect from 16.4.2008 A. N., and the orders of removal from service were also sent to him at his available address. The same envelope containing the orders of removal from service were also received back undelivered with the same remarks. It is therefore, notified that Sh. Des Raj, Clerk stands removed from service w.e.f. 16.4.2008 AN.

JASPAL SINGH
Dy. Dir. of Accounts

CIVIL & COMMERCIAL AUDIT
MADHYA PRADESH

Gwalior, the 16th May 2008

No. Admn. XI/Gr. II/F-55/Gazette/D-167—The Principal Accountant General (C & C Audit), M.P. Gwalior has been pleased to promote the following Section Officers as Asstt. Audit Officer in the officiating capacity in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the date noted against each. They will be on probation for a period of two years.:—

Sl. No.	Name	Permanent No.	Date of promotion as AAO
	S/Shri		
1.	Avinash Khawse	02/10289	01.01.2008
2.	Sanjay Kumar Shukla	02/10298	01.01.2008
3.	Ranjay Kumar Singh	02/10351	01.10.2008
4.	Smt. Kiran Phatak	02/10065	15.04.2008
5.	Surendra Kumar Harinkhede	02/10404	15.04.2008
6.	Goyind Khandelwal	02/10408	15.04.2008
7.	Yogesh Tiwari	02/10414	15.04.2008

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant Gen. (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(CIVIL AUDIT), ORISSA

Bhubaneswar, the 21st May 2008

No. Admn (CA) 17-2 (AO)/Vol-VI/432—In pursuance of OOC No. 1265, 1383 and 97 dated 29.02.2008, 31.03.2008 and 30.04.2008 communicated vide Memo No. Admn (CA)-17-2 (AO)/vol.-V/2509, 2788 and 276 dated 29.02.2008, 31.03.2008

and 30.04.2008 respectively the following officers on promotion have assumed charge as Audit Officers (Civil) in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the dates as indicated against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of taking over charge as Audit Officer
	S. Shri	
1.	K. V. Satyanarayana	03.03.2008 (AN)
2.	Sraban Kumar Pradhan	04.03.2008 (FN)
3.	Suvash Chandra Das-I	06.03.2008 (FN)
4.	Ghanashyama Tripathy	06.03.2008 (FN)
5.	T. Veerabhadra Rao	06.03.2008 (FN)
6.	Sankarsan Pradhan	01.04.2008 (FN)
7.	Bijay Chandra Rout-II	02.04.2008 (FN)
8.	Jagannath Sahoo	03.04.2008 (FN)
9.	Prasant Kumar Panda	05.05.2008 (FN)
10.	Golak Bihari Jena	02.05.2008 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Audit Officer (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(COMMERCIAL, WORKS & RECEIPT AUDIT)
ORISSA

Bhubaneswar, the 10th April 2008

No. Admn (CW&RA)/2-8-Gr "B"-Vol-I/45—In pursuance of Headquarter's office Sectional Office order No., CA-I/Admn-I dated 08.02.2008, Sri G. Rama Prasad, Asstt. Audit Officer (Com) on promotion as assumed charge as Audit Officer (Coml), O/o the Accountant General (CW&RA), Orissa, Bhubaneswar in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- w.e.f. 13.03.2008 FN.

The promotion to the cadre of Audit Officer (Com) is subject to the final decision of Hon'ble CAT/High Court/Supreme Court etc. in the case if any Sub-judice in Tribunals/Courts and without prejudice to the claim of his seniors.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant Gen. (Admn.)

The 21st May 2008

No. Admn (CW&RA)/2-8-Gr "B"-Vol-II/206—Accountant General (Coml), O/o the C & A. G of India, New Delhi vide their sectional office Order No. CA-I/Admn/58 dated 12.05.2008 has been pleased to order promotion of Sri Dusasana Behera, AAO (Coml.) to the cadre of Audit Officer (Coml.) in the scale of pay Rs. 7,500-250-12,000/- from date of assumption of charge. Accordingly, Shri Behera,

AAO (Coml.) on his promotion has assumed charge as AO (Coml.) in the commercial Audit Wing of the O/o the A. G. (CW&RA), Orissa, Bhubaneswar w.e.f. 14.05.2008 (FN).

The promotion to the cadre of Audit Officer (Coml.) is subject to the final decision of Hon'ble CAT/High Court/Supreme Court etc. in the case if any Sub-judice in Tribunals/Courts and without prejudice to the claim of his seniors.

The Officer may exercise the option regarding fixation of pay in terms of Government of India, Ministry of Home Affairs, Deptt. of Personnel and AR OM No. F/7/1/80/Estt P.I dated 26.09.1981 and 24.12.1981 as amended from time to time.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant Gen. (Admn.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE
ACCOUNTS

New Delhi-110605, the 19th May 2008

No. AN-1/1218/1/Vol. I—The President is pleased to appoint Shri N. L. Perumal, Senior private Secretary (Group 'B' Gazetted) (Rs. 7,500-250-12,000/-) to the grade of Principal Private Secretary (Group 'A') (Rs. 10,000-325-15,200/-) in the Defence Accounts Department on regular basis with effect from 21st April, 2008 and until further orders.

PUNEET AGARWAL
Dy. CGDA (Admn.)

MINISTRY OF MINES

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-16, the 23rd May 2008

No. 1421A/A-32013/2-Dir. (Geophy.)/2007-08/19B—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to approve the appointment of the following Geophysicist (Sr.) in Geological Survey of India as Director (Geophysics) on promotion in G.S.I. on pay according to Rules in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on regular basis with effect from the date as mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Place of Posting	Date of promotion
1.	Sh. Yudhisthir Chandra Kar	Marine Wing, Kolkata	04.12.2007 (AN)
2.	Sh. S. R. Samaddar	Marine Wing, Kolkata	04.12.2007 (AN)

KARTIKEYA VERMA
Administrative Officer Gr.-I
For Dir. Gen.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
METEOROLOGY

New Delhi-110003, the 14th May 2008

No. A-32013/III/89-E.I.—The President is pleased to appoint the following officers in a substantive capacity as Meteorologist Grade-II (Scale Rs. 8,000—13,500/-) in India Meteorological Department with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Confirmation
1	2	3
	S/Shri/Smt./Kumari	
1.	Sanjay Bist	11.11.2005
2.	Ashim Kumar Mitra	11.11.2005
3.	Ms. B. Amudha	11.11.2005
4.	Ajay Kumar Singh	08.09.2006
5.	Habibur Rahman Biswas	10.03.2006
6.	Ananda Kumar Das	10.03.2006
7.	Naresh Kumar	11.11.2005
8.	B. Arul Malarkannan	11.11.2005
9.	Kuldeep Srivastava-I	11.11.2005
10.	Manish Ramesh Chandra Ranalkar	10.03.2006
11.	Manorama Mohanty	10.03.2006
12.	Sidhartha	11.11.2005
13.	C.G.S. Patil	11.11.2005
14.	Sourav Adhikary	10.03.2006
15.	R. Balasubramaniam	11.11.2005
16.	Ajeet Prakash Pandey	10.03.2006
17.	Sreejith O. P.	10.03.2006
18.	S. A. Bhute	11.11.2005
19.	Dr. N. Puviarasan	10.03.2006
20.	Sunil P.	10.03.2006
21.	Kuldeep Srivastava-II	11.11.2005
22.	Anjit Anjan	11.11.2005
23.	Ganesh Kumar Das	08.09.2006
24.	Anil Kumar	11.11.2005
25.	Kopparthi Nagaratna	08.09.2006
26.	N. T. Niyas	11.11.2005
27.	Rajavel Manickam	11.11.2005
28.	Jainendra Kumar Singh Yadav	11.11.2005
29.	V. Revaldurai	10.03.2006
30.	P. S. Biju	11.11.2005
31.	Andrew Cuthbert Lyngdoh	11.11.2005

1	2	3
	S/Shri	
32.	Ashok Kumar Das	10.03.2006
33.	Gauri Shankar Kallapa Sawaisarje	10.03.2006
34.	Mohammed Imran Ansari	08.09.2006
35.	Rakesh Kumar	11.11.2005
36.	Himanshu Sekhar Mandal	10.03.2006
37.	Smt. Mini V. K.	10.03.2006
38.	Chander Singh Tomar	11.11.2005
39.	Meenatchinathan Nagamani	11.11.2005
40.	Samanti Sarkar	08.09.2006
41.	Sankar Nath	11.11.2005
42.	Uday Kashinath Shende	11.11.2005
43.	Sunit Das	10.03.2006
44.	Sebul Islam Laskar	12.04.2007

DEVENDRA KUMAR NIM
Dy. Dir. Gen. of Meteorology
(Admin. & Stores)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 19th May 2008

Ref. PD/11(1)/2008-R-III/2008/4243—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Sreekala Ramchander, Assistant, as Assistant personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from 07.04.2008 (FN) to 07.05.2008 (AN)

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

Mumbai-400085, the 23rd May 2008

No. 93/Noti./Estt. IA/54735—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sl. No.	Name of the officer	Relinquished Date of the charge	Date of relinquish-ment	Event
1	2	3	4	5
1.	Dr. (Smt.) Anjali S. Bhagwat	SO/F	02.04.2008 (FN)	Voluntary Retirement
2.	Sh. Suresh Kumar	SO/D	04.04.2008 (AN)	Resignation
3.	Sh. Vijay Kumar	SO/F	08.04.2008 (FN)	Voluntary Retirement
4.	Sh. Avik Sil	SO/D	10.04.2008 (AN)	Resignation

1	2	3	4	5
5.	Dr. (Smt.) A. P. Krishnaja	SO/F	11.04.2008 (FN)	Voluntary Retirement
6.	Dr. Sudhir Dahiya	SO/D	22.04.2008 (AN)	Resignation
7.	Dr. Deo Das Jaiswal	SO/F	30.04.2008 (AN).	Superannuation
8.	Dr. Jappu Radhakrishna Pai	SO/G	30.04.2008 (AN)	Superannuation
9.	Sh. Pramod Krishna Marathe	SO/E	30.04.2008 (AN)	Superannuation
10.	Sh. Rohtash Kumar	SO/E	30.04.2008 (AN)	Superannuation
11.	Dr. (Smt.) Saradha Ramani	SO/G	30.04.2008 (AN)	Superannuation
12.	Sh. Thomas Mathew	SO/F	30.04.2008 (AN)	Superannuation
13.	Dr. Kottakkal Narayanan Suseelan	SO/E	30.04.2008 (AN)	Superannuation

N. D. SHARMA
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Kalpakkam-603102, the 22nd May 2008

Ref. GSO/28(16)/2008-R/301—The Director, GSO appoints Shri G. Selvakumar, Steno Grade-III of General Services Organisation, Kalpakkam as Assistant personnel Officer on adhoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 15.04.2008 to 31.05.2008 in the same unit.

V. DAYALAN
Chief Administrative Officer

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400094, the 21st May 2008

No. DCSEM/A/3(2045)/08-Rectt./332.—The Director, Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri V. K. Janakiraman, Upper Division Clerk as Assistant Accounts officer in this Directorate in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- from the forenoon of 14.05.2008 until further orders.

G. MURLIDHARAN
Administrative Officer-III

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 14th May 2008

Ref. HWR/R/4(15)/2008/493—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers of Heavy Water Board (Central Office)/Heavy Water Plant (Kota/

Tuticorin) to the posts as indicated in Column 4 below with effect from the forenoon of date mentioned against each in the same Office/Plant in a temporary capacity until further orders. The scales of pay of the posts are also indicated below :—

Sl. No.	Name	Present Grade	Promoted to Grade	Unit HWB/HWP	Date of Appointment to the Promoted Grade
	S/Shri				
1.	Rohit Dash	SA/F	SO/E	Central Office	01.08.2007
2.	Girish Chandra Joshi	SO/C	SO/D	Central Office	01.08.2007
3.	Vicky Gautam	SO/C	SO/D	Central Office	01.08.2007
4.	Bibhas Prasad	SO/C	SO/D	Central Office	01.08.2007
5.	Surendra Singh Mehta	SO/D	SO/E	Kota	01.08.2007
6.	Rajendra Kumar Sharma	SO/D	SO/E	Kota	01.08.2007
7.	Ram Singh	SA/F	SO/E	Kota	01.08.2007
8.	Ramanand Prasad	SA/F	SO/E	Kota	01.08.2007
9.	Subodh Prakash Singh	SA/E	SO/D	Kota	01.08.2007
10.	Subbiah Ramakrishnan	SO/D	SO/E	Tuticorin	01.08.2007
11.	Esakkimuthu Selvanarayanan	SA/F	SO/E	Tuticorin	01.08.2007
12.	Smt. Vijayarghavan Indhumathy	SA/F	SO/E	Tuticorin	01.08.2007
13.	Annamalai Meiyazhagan	SO/C	SO/D	Tuticorin	01.08.2007
14.	Palani Velmurugan	SO/C	SO/D	Tuticorin	01.08.2007

The above Officers relinquished charge of the lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

Scale of Pay : 1. Scientific Officer/Engineer Grade 'E'—Rs. 12,000-375-16,500/-
2. Scientific Officer/Engineer Grade 'D'—Rs. 10,000-325-15,200/-

R. K. SAINI
Dir. (Personnel & Administration)

INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603102, the 6th May 2008

No. IGC/A-11013-2008-R/533—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' on an initial pay of Rs. 8,000/- in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-

with effect from the date indicated against each in a temporary capacity until further orders :—

Sl. No.	IC. No./Divn.	Name	Date of Appointment
1.	6698/PPCD/REG	S/Shri/Smt./Kum. R. Varuna	02.04.2008 (FN)
2.	6699/ESG	B. Sakthi	02.04.2008 (FN)
3.	6700/FRTG	M. Mythili	02.04.2008 (FN)
4.	6701/CG	E. Mohanraj	02.04.2008 (FN)
5.	6702/ESG	T. Manikandan	02.04.2008 (FN)
6.	6704/FRFCF	Amit Kumar Champatiray	11.04.2008 (FN)
7.	6705/MMD	V. David Vijayanand	11.04.2008 (FN)
8.	6706/FRFCF	M. Swapna	11.04.2008 (FN)
9.	6237/ESG	S. Kishan	11.04.2008 (FN)
10.	6708/MTD/MMG	B. Shashank Dutt	17.04.2008 (FN)
11.	6709/ROMG	V. Jayachitra	21.04.2008 (FN)

S. MANI
Chief Administrative Officer

DEPARTMENT OF SPACE

VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE

Thiruvananthapuram-695022, the 8th May 2008

No. VSSC/EST/F/1(17)/1071—Controller, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) hereby appoints on promotion the following Personal Assistants as personal Secretary in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in VSSC with effect from the dates shown against their names, until further orders :—

Sl. No.	Name	Division	With effect from
1.	Sh. Rajimon C. Abraham	PGA	12.12.2007
2.	Smt. K. R. Mini	O/o DIR(P)	01.04.2008
3.	Smt. R. Rajalekshmy	QRMG	21.04.2008

A. STEPHENSON
Senior Administrative Officer

No. VSSC/EST/F/1(17)/1072—Controller, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), Thiruvananthapuram hereby appoints on promotion Shri Thanumoorthy S. as Senior Personal Secretary in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- in VSSC with effect from 21.04.2008 (FN), until further orders.

A. STEPHENSON
Senior Administrative Officer

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur-208001, the 27th May 2008

No. LC/560(5)/175—Notice is hereby given pursuant to Sub-Seciton (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies have this day been struck off the Register and said companies are dissolved:—

Sl. No.	Company No	Name of the Company
1.	20-027456	M/s. Yug Associates Pvt. Ltd.
2.	20-012316	M/s. Alike Dial Pvt. Ltd.
3.	20-026956	M/s. Clairvoyance Associates Pvt. Ltd.
4.	20-012856	M/s. Alvi Packaging Pvt. Ltd.
5.	20-019580	M/s. Kishore Securities Pvt. Ltd.
6.	20-023056	M/s. Radhey Orchard Ltd.
7.	20-007501	M/s. Dee Pee Papers Pvt. Ltd.
8.	20-027105	M/s. Uday Trade Link Pvt. Ltd.
9.	20-028829	M/s. Shining Future Marketing Pvt. Ltd.
10.	20-027555	M/s. Allied Consumer Products Ltd.
11.	20-023876	M/s. Kreative Computer Strategies Pvt. Ltd.
12.	20-028177	M/s. Mohan Equities Pvt. Ltd.
13.	20-008434	M/s. Butterfly Ceramics Pvt. Ltd.
14.	20-027700	M/s. Jun Agrotech Pvt. Ltd.
15.	20-027189	M/s. Ekta Films and Communications Pvt. Ltd.
16.	20-009103	M/s. Malik Tanning Industries Pvt. Ltd.
17.	20-028550	M/s. Sapience Marketing Pvt. Ltd.
18.	20-027428	M/s. Ardent Marketing Pvt. Ltd.
19.	20-030856	M/s. Asvin Healthcare Pvt. Ltd.
20.	20-015012	M/s. R. H. Krishi Finance & Commercial Co. Ltd.
21.	20-015581	M/s. Pateshwari Leasing and General Finance Ltd.
22.	20-018345	M/s. Joshi Relex Home Pvt. Ltd.
23.	20-000433	M/s. Anwari Cold Storage Pvt. Ltd.
24.	20-026108	M/s. AITC Computer Education Pvt. Ltd.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Jalandhar City-144001, the 23rd May 2008

No. SES/2005/560/556—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	6150	M/s. Soccer Tanneries Ltd.
2.	4661	M/s. Kona International Pvt. Ltd.
3.	23052	M/s. H. P. Health Systems Corporation Ltd.
4.	2811	M/s. Punjab Salt Petre-Refinery Pvt. Ltd.
5.	23080	M/s. Indus Snacks Pvt. Ltd.
6.	31273	M/s. Dev Killicksons Prefabs (I) Pvt. Ltd.
7.	30080	M/s. Partap Network Concepts Pvt. Ltd.
8.	20342	M/s. Jagson Boards (India) Ltd.

K. C. MEENA
Asstt. Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/3—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	003171	M/s. Kalsi Rubber Products Pvt. Ltd.
2.	003174	M/s. Kay Tex Pvt. Ltd.
3.	003183	M/s. Rajasthan Films Pvt. Ltd.
4.	003186	M/s. Shree Vaishnodevi Oil Mills Pvt. Ltd.
5.	003187	M/s. Sirohi Plastic Industries Pvt. Ltd.
6.	003188	M/s. Uttam Bharat Cements Pvt. Ltd.
7.	003189	M/s. Janus (India) Pvt. Ltd.
8.	003192	M/s. Vaibhav Impex Pvt. Ltd.

1	2	3
9.	003197	M/s. Reliance Polytex Pvt. Ltd.
10.	003199	M/s. Sunflow Automotives Pvt. Ltd.
11.	003200	M/s. Crystal White Cements and Industries Ltd.
12.	003207	M/s. Hindustan Farms and Fertilizers Co. Ltd.
13.	003208	M/s. Krishna Hydrated Limes Pvt. Ltd.
14.	003215	M/s. Sumeet Marbles and Granites Ltd.
15.	003223	M/s. Kekari Granite and Marbles Pvt. Ltd.
16.	003238	M/s. Armer Ltd.
17.	003249	M/s. Hi-Tech Steels Pvt. Ltd.
18.	003257	M/s. Shivam Pvt. Ltd.
19.	003261	M/s. Supreme India Pvt. Ltd.
20.	003264	M/s. Rajasthan Lime Pvt. Ltd.
21.	003265	M/s. Bhairav Cement Industries Pvt. Ltd.
22.	003268	M/s. Bhawani Vanaspati Udyog Pvt. Ltd.
23.	003270	M/s. Rawat Marbles Pvt. Ltd.
24.	003271	M/s. Rajavasak Gases Pvt. Ltd.
25.	003273	M/s. Shree Spinners Pvt. Ltd.
26.	003287	M/s. Glaze Stones Pvt. Ltd.
27.	003299	M/s. Intelligent Controls (India) Pvt. Ltd.
28.	003301	M/s. Ishfahan Carpet Manufacturers Pvt. Ltd.
29.	003304	M/s. Enpar Traders Pvt. Ltd.
30.	003311	M/s. Galaxy Packaging Pvt. Ltd.
31.	003312	M/s. Allegheny International Builders Ltd.
32.	003318	M/s. Nekodaji Real Estate and Builders Pvt. Ltd.
33.	003319	M/s. Rajasthan Midways and Motels Pvt. Ltd.
34.	003321	M/s. Acro Plast Ltd.
35.	003328	M/s. Ovik Foods Pvt. Ltd.
36.	003329	M/s. Vikram Polyplast Pvt. Ltd.
37.	003332	M/s. Godvari Polychem Pvt. Ltd.
38.	003335	M/s. Shree Polytex Pvt. Ltd.
39.	003339	M/s. Computer Management Group Pvt. Ltd.
40.	003351	M/s. Associates Industrial Investors Pvt. Ltd.
41.	003352	M/s. Indian Polytex Pvt. Ltd.
42.	003354	M/s. Marmo Grilles India Pvt. Ltd.
43.	003356	M/s. Kalyan Sundram Wheels Ltd.

1	2	3	1	2	3
44.	003358	M/s. Patodia Cement Ltd.	80.	003541	M/s. Kamdhenu News Paper Pvt. Ltd.
45.	003364	M/s. Mahendra Synthetics Pvt. Ltd.	81.	003543	M/s. Mahveer Oil Products Pvt. Ltd.
46.	003368	M/s. Marudhar Syntex Pvt. Ltd.	82.	003549	M/s. Kota Cement Udyog Pvt. Ltd.
47.	003381	M/s. Jevsons Pvt. Ltd.	83.	003552	M/s. New Shivani Cements Pvt. Ltd.
48.	003385	M/s. Digi-Com Systems Ltd.	84.	003553	M/s. Chandani Properties Pvt. Ltd.
49.	003391	M/s. Mishra Metal and Metals Pvt. Ltd.	85.	003555	M/s. Sunrise Rubber Industries Ltd.
50.	003392	M/s. Manjushree Synthetics Pvt. Ltd.	86.	003564	M/s. Sunika Alloys Pvt. Ltd.
51.	003403	M/s. Wearwell Fabrics Pvt. Ltd.	87.	003568	M/s. Surya Automotive Tubes Pvt. Ltd.
52.	003404	M/s. Khemka Synthetics Pvt. Ltd.	88.	003576	M/s. Crab Coil Pvt. Ltd.
53.	003409	M/s. Sand A Electrodes Pvt. Ltd.	89.	003580	M/s. Shar Shobha Chemicals Pvt. Ltd.
54.	003416	M/s. Taramanik Engineering Industries Pvt. Ltd.	90.	003583	M/s. Shree Bamanwara Fibre and Fabrics Pvt. Ltd.
55.	003423	M/s. Industrial Links Pvt. Ltd.	91.	003585	M/s. Quraish Enterprises Ltd.
56.	003428	M/s. Rajasthan Pre-Stressed Concrete Sleepers Pvt. Ltd.	92.	003586	M/s. Haroti Flour Mills Pvt. Ltd.
57.	003431	M/s. Genetic Chemical Industries Pvt. Ltd.	93.	003593	M/s. Communication Aids and Measuring Instruments Pvt. Ltd.
58.	003435	M/s. Kalptaru Marble (India) Pvt. Ltd.	94.	003598	M/s. Ashokas Adhar Castings Pvt. Ltd.
59.	003443	M/s. Shree Shyam Ice Factory Pvt. Ltd.	95.	003599	M/s. Ashokas Adhar Re-Rolling Mills Pvt. Ltd.
60.	003446	M/s. Anish Color Lab Pvt. Ltd.	96.	003603	M/s. Uma Shankar Construction and Holdings Pvt. Ltd.
61.	003454	M/s. Rashmi Finance and Leasing Ltd.	97.	003605	M/s. Subhash Synthetics Pvt. Ltd.
62.	003458	M/s. Romet (India) Pvt. Ltd.	98.	003606	M/s. Supreme Suitings Pvt. Ltd.
63.	003461	M/s. Falcon Fulf Ceramics Ltd.	99.	003612	M/s. Shree Rawat Oil Industries Ltd.
64.	003467	M/s. Mahalaxmi Labs Pvt. Ltd.	100.	003617	M/s. Jai Enterprises Ltd.
65.	003468	M/s. Adarsh Dyes Chemicals Ltd.	101.	003624	M/s. Jaipur Pink Hotels Pvt. Ltd.
66.	003472	M/s. Optima Springs Pvt. Ltd.	102.	003626	M/s. Ganga Fabrics Pvt. Ltd.
67.	003477	M/s. Shri Nakoda Metals Pvt. Ltd.	103.	003627	M/s. G.B.S. Leather Enterprises Pvt. Ltd.
68.	003489	M/s. Areena Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	104.	003628	M/s. Transcontinental Consultants Pvt. Ltd.
69.	003494	M/s. Material Movement Pvt. Ltd.	105.	003632	M/s. Micro Point Institute of Computer Training Pvt. Ltd.
70.	003495	M/s. West India Gas Products Ltd.	106.	003634	M/s. Kothari Ayurved Massala Udyog Pvt. Ltd.
71.	003499	M/s. Kamal Stone Industries Pvt. Ltd.	107.	003635	M/s. Pansy Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
72.	003501	M/s. Priyajee Distributors Pvt. Ltd.	108.	003639	M/s. S. N. K. Construction Company Pvt. Ltd.
73.	003508	M/s. Modern Swadeshi Tyres (India) Pvt. Ltd.	109.	003642	M/s. Wardhman Silk Mills Pvt. Ltd.
74.	003515	M/s. Swapnika Pvt. Ltd.	110.	003650	M/s. Maisons Electronics Pvt. Ltd.
75.	003518	M/s. Kelwa Marles Pvt. Ltd.	111.	003652	M/s. Asera Mudran Udyog Pvt. Ltd.
76.	003529	M/s. Jagdambe Electronics Pvt. Ltd.	112.	003664	M/s. Dees Pistons Pvt. Ltd.
77.	003531	M/s. Jagdamba Rolling Mills Pvt. Ltd.			
78.	003533	M/s. Durga Cement Pvt. Ltd.			
79.	003534	M/s. Alpha Marbles (India) Pvt. Ltd.			

1	2	3	1	2	3
113.	003672	M/s. Rajasthan Polypack Laminators Pvt. Ltd.	150.	004411	M/s. Shrinathji Oil Refinery Pvt. Ltd.
114.	003673	M/s. Salbo Engineering Pvt. Ltd.	151.	004412	M/s. Gayatri Oil Products Pvt. Ltd.
115.	003678	M/s. Rakshak (India) Pvt. Ltd.	152.	004419	M/s. Shree Translines Pvt. Ltd.
116.	003679	M/s. Navratan Fabrics Pvt. Ltd.	153.	004433	M/s. M. Marble and Granite Pvt. Ltd.
117.	003680	M/s. Apex Marbles Pvt. Ltd.	154.	004437	M/s. Gitanjali Synthetics Pvt. Ltd.
118.	003683	M/s. Anand Irrigation Equipments Pvt. Ltd.	155.	004440	M/s. Shri Ram Pipes Pvt. Ltd.
119.	003686	M/s. Kansons Leatherites Pvt. Ltd.	156.	004444	M/s. K. T. Building Materials Ltd.
120.	004264	M/s. Shree Vallabh Synthetics Pvt. Ltd.	157.	004445	M/s. Umrao Marble and Granite Pvt. Ltd.
121.	004269	M/s. Ghoomar Tyres Pvt. Ltd.	158.	004447	M/s. Marudhar Tyre and Treads Pvt. Ltd.
122.	004276	M/s. Vita Refinery Pvt. Ltd.	159.	004448	M/s. Shree Gaurav Synthetics Pvt. Ltd.
123.	004278	M/s. Goodwill Rubber Products Pvt. Ltd.	160.	004452	M/s. Ulphite and Allied Chemicals (India) Pvt. Ltd.
124.	004285	M/s. Chaudhary Oil Products Pvt. Ltd.	161.	004455	M/s. M. Misch Matel Pvt. Ltd.
125.	004286	M/s. Marudhar Engineers Pvt. Ltd.	162.	004465	M/s. Neelkanth Mineral Products Pvt. Ltd.
126.	004287	M/s. Pearl Foods Pvt. Ltd.	163.	004463	M/s. Neelkanth Marbles Pvt. Ltd.
127.	004297	M/s. Ajmer Press Pvt. Ltd.	164.	004466	M/s. Rajeeva Suitings Pvt. Ltd.
128.	004300	M/s. Jodhpur Pagesetters Pvt. Ltd.	165.	004467	M/s. Ksheer Sagar Hotel Pvt. Ltd.
129.	004302	M/s. Gem Mining Industries Pvt. Ltd.	166.	004468	M/s. Snapshot Photo Lab Company Pvt. Ltd.
130.	004303	M/s. Dujodwala Cement Pvt. Ltd.	167.	004486	M/s. Premier Ceramic Industries Pvt. Ltd.
131.	004305	M/s. Jaipur Suitings Pvt. Ltd.	168.	004487	M/s. Mansukh Starch Products Pvt. Ltd.
132.	004311	M/s. Chakra Alloys and Steels Pvt. Ltd.	169.	004494	M/s. Gaurav Dhara Vit Co. Pvt. Ltd.
133.	004314	M/s. Fax (India) Pvt. Ltd.	170.	004501	M/s. Gopal Silk Mills Pvt. Ltd.
134.	004315	M/s. Sachetan Minerals Pvt. Ltd.	171.	004502	M/s. Gajjars Syntex Pvt. Ltd.
135.	004322	M/s. Gajraj Multidrug Pvt. Ltd.	172.	004514	M/s. Rajputana XSM Services Pvt. Ltd.
136.	004323	M/s. Diamond Gums Pvt. Ltd.	173.	004515	M/s. H. P. Marbles and Granites Tiles Pvt. Ltd.
137.	004329	M/s. Bhartiya Foods Pvt. Ltd.	174.	004524	M/s. Yogesh Synthetics Pvt. Ltd.
138.	004335	M/s. Sunrise Constructions Pvt. Ltd.	175.	004525	M/s. Pancham Synthetics Pvt. Ltd.
139.	004336	M/s. Haroti Constructions Pvt. Ltd.	176.	004528	M/s. Jaipur Estate Exchange Ltd.
140.	004339	M/s. Shanti Industrial Resources India Ltd.	177.	004537	M/s. Suncity Engineers Pvt. Ltd.
141.	004340	M/s. Aravali Beej Vinimay Co. Pvt. Ltd.	178.	004542	M/s. Tarun Printers Pvt. Ltd.
142.	004347	M/s. Punsumi Engineers Ltd.	179.	004557	M/s. Y. G. Construction Pvt. Ltd.
143.	004359	M/s. Crisp Bakeries Pvt. Ltd.	180.	004560	M/s. Abhinav Industries (Chemicals and Cosmetics) Pvt. Ltd.
144.	004372	M/s. Brothers Laboratories Pvt. Ltd.	181.	004564	M/s. B. L. Castings Pvt. Ltd.
145.	004382	M/s. Jai Bhiwani Perfumers Pvt. Ltd.	182.	004565	M/s. Mahesh Rubber Industries Pvt. Ltd.
146.	004387	M/s. Rathore Chemicals Pvt. Ltd.	183.	004589	M/s. Khemka Textiles Pvt. Ltd.
147.	004397	M/s. India Synthetics Ltd.	184.	004599	M/s. Modern Metal Works Pvt. Ltd.
148.	004398	M/s. Kalyani Metal and Alloys Pvt. Ltd.			
149.	004407	M/s. Bhati Shah Marble Pvt. Ltd.			

1	2	3
185.	004600	M/s. Bhilwara Food Products Pvt. Ltd.
186.	004603	M/s. Viswakarma Electrode Pvt. Ltd.
187.	004609	M/s. Sharma P. Way Engineers Pvt. Ltd.
188.	004618	M/s. Himalaya Synthetics Pvt. Ltd.
189.	004620	M/s. Rishikul Pharmacy Pvt. Ltd.
190.	004635	M/s. Marmo Machine Tools Pvt. Ltd.
191.	004638	M/s. Jaumbo Auto Products Pvt. Ltd.
192.	004639	M/s. D. P. Steel Industries Pvt. Ltd.
193.	004646	M/s. Unique Autoking Tyres Pvt. Ltd.
194.	004647	M/s. Sunrise Tea Marketing Pvt. Ltd.
195.	004654	M/s. Dhanjai Chemicals Pvt. Ltd.
196.	004659	M/s. K. K. Distilleries Pvt. Ltd.
197.	004660	M/s. Shalimar Minerals Pvt. Ltd.
198.	004663	M/s. Shakti Marketing Pvt. Ltd.
199.	004664	M/s. Gupta Processors Pvt. Ltd.
200.	004668	M/s. Sampan Foods Pvt. Ltd.
201.	004679	M/s. Aravali Aero Rope Travels Pvt. Ltd.
202.	004681	M/s. C. V. Roller Flour Mills Pvt. Ltd.
203.	004682	M/s. Jayde Agro Engineers Pvt. Ltd.
204.	004695	M/s. Star Oil Processors Pvt. Ltd.
205.	004708	M/s. Maharaja Bottling Pvt. Ltd.
206.	004727	M/s. Agarwal Grinding Mills Pvt. Ltd.
207.	004733	M/s. Konark Suiting Pvt. Ltd.
208.	004744	M/s. Kalibon Oil Mills Pvt. Ltd.
209.	004750	M/s. Maloo Retreading Co. Pvt. Ltd.
210.	004752	M/s. Anubhav Farms Pvt. Ltd.
211.	004771	M/s. Delta Auto Manf. Pvt. Ltd.
212.	004777	M/s. Shree Hargovind Marketers Pvt. Ltd.
213.	004780	M/s. Lila Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
214.	004782	M/s. Ved Prakash Sanjay Kumar Construction Pvt. Ltd.
215.	004792	M/s. Goenka Marbles Pvt. Ltd.
216.	004793	M/s. Shekhawati Estate Development Co. Pvt. Ltd.
217.	004808	M/s. Agarwal Tubes Pvt. Ltd.
218.	004814	M/s. Jal Ganga Drillings Pvt. Ltd.
219.	004822	M/s. Stddarth Agro and Poultry Farm Pvt. Ltd.

1	2	3
220.	004825	M/s. Natraj Weaving Mills Pvt. Ltd.
221.	004831	M/s. Ajmer Cold Retreads Pvt. Ltd.
222.	004832	M/s. Deco Build Systems Pvt. Ltd.
223.	004837	M/s. Fixwell Electronics and Industries Ltd.
224.	004840	M/s. Calcutta Farms Pvt. Ltd.
225.	004842	M/s. Vinayak Granites Pvt. Ltd.
226.	004848	M/s. Shri Vrikshalaya Granites Pvt. Ltd.
227.	004850	M/s. Basant Poultry Pvt. Ltd.
228.	004851	M/s. Fauryland Electronics Toy Pvt. Ltd.
229.	004853	M/s. Madhu Granites Pvt. Ltd.
230.	004858	M/s. Classic Ceramics Pvt. Ltd.
231.	004861	M/s. Siddhi Marbles Pvt. Ltd.
232.	004868	M/s. Raj Lakshmi Tiles and Granites Pvt. Ltd.
233.	004870	M/s. Intex Aseptic Packaging Pvt. Ltd.
234.	004879	M/s. Raj Cements Pvt. Ltd.
235.	004881	M/s. Marwar Plastics Pvt. Ltd.
236.	004886	M/s. Paramount Advertising (Rajasthan) Pvt. Ltd.
237.	004887	M/s. Shree Goverdhan Sangemarmar Pvt. Ltd.
238.	004889	M/s. Ask Eximp Pvt. Ltd.
239.	004907	M/s. Bhragu Engineers Pvt. Ltd.
240.	004916	M/s. Suviga Marbles Pvt. Ltd.
241.	004919	M/s. Pearl Auto Instruments Pvt. Ltd.
242.	004920	M/s. K. R. Spinners Pvt. Ltd.
243.	004923	M/s. Alfa Electricals Pvt. Ltd.
244.	004925	M/s. Govind Synthetic Pvt. Ltd.
245.	004926	M/s. Karan Conductors Pvt. Ltd.
246.	004930	M/s. Gulshan Sales Pvt. Ltd.
247.	004932	M/s. S. V. Casting Pvt. Ltd.
248.	004951	M/s. Fancinating Stones Pvt. Ltd.
249.	004953	M/s. Supereps (India) Pvt. Ltd.
250.	004954	M/s. Philadelphia Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
251.	004955	M/s. Rock Cast (India) Pvt. Ltd.
252.	004957	M/s. Kapri Polymers Pvt. Ltd.
253.	004963	M/s. Real Marketing Pvt. Ltd.
254.	004965	M/s. Sidihesh Land and Finance Ltd.

1	2	3
255.	004972	M/s. Ramganjmandi Mining and Exports Pvt. Ltd.
256.	005008	M/s. Eden Agro Mills Pvt. Ltd.
257.	005019	M/s. Telecords (India) Pvt. Ltd.
258.	005021	M/s. Konark Parts Pvt. Ltd.
259.	005024	M/s. Crittal Window and Structural Pvt. Ltd.
260.	005025	M/s. Lacment Polysters (India) Pvt. Ltd.
261.	005026	M/s. Trend Shoes Pvt. Ltd.
262.	005034	M/s. Prasanya Foods Pvt. Ltd.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalsi Rubber Products Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25191RJ1984PTC003171/11002—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kalsi Rubber Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kay Tex Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17111RJ1984PTC003174/11003—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kay Tex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Films Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92112RJ1985PTC003183/11005—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of

three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Films Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Vaishnodevi Oil Mills Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1985PTC003186/11006—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Vaishnodevi Oil Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sirohi Plastic Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25209RJ1985PTC003187/11007—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sirohi Plastic Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Uttam Bharat Cements Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1985PTC003188/11008—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Uttam Bharat Cements Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Janus (India) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24236RJ1985PTC003189/11009—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Janus (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vaibhav Impex Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U99999RJ1985PTC003192/11010—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vaibhav Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Reliance Polytex Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28992RJ1985PTC003197/11011—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Reliance Polytex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunflow Automotives Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29309RJ1985PTC003199/11012—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sunflow Automotives Private Limited unless cause is shown to the

contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Crystal White Cements and Industries Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1985PLC003200/11013—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Crystal White Cements and Industries Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hindustan Farms and Fertilizers Company Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24124RJ1985PLC003207/11014—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hindustan Farms and Fertilizers Company Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Krishna Hydrated Limes Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1985PTC003208/11015—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Krishna Hydrated Limes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sumeet Marbles and Granites Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1985PLC003215/11016—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sumeet Marbles and Granites Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kekari Granite and Marbles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14102RJ1985PTC003223/11017—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kekari Granite and Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Armer Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1985PTC003238/11018—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Armer Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hi-Tech Steels Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1985PTC003249/11019—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hi-Tech Steels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivam Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25201RJ1985PTC003257/11020—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shivam Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Supreme India Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U36991RJ1985PTC003261/11021—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Supreme India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Lime Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1985PTC003264/11022—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Lime Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhairav Cement Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1985PTC003265/11023—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhairav Cement Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhawani Vanaspati Udyog Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1985PTC003268/11024—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhawani Vanaspati Udyog Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rawat Marbles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1985PTC003270/11025—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rawat Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajavasak Gases Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24111RJ1985PTC003271/11026—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajavasak Gases Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Spinners Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17111RJ1985PTC003273/11027—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Spinners Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Glaze Stones Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1985PTC003287/11028—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Glaze Stones Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Intelligent Controls (India) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1985PTC003299/11029—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Intelligent Controls (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ishfahan Carpet Manufacturers Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17222RJ1985PTC003301/11030—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ishfahan Carpet Manufacturers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Enpar Traders Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1985PTC003304/11031—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Enpar Traders

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Galaxy Packaging Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74950RJ1985PTC003311/11032—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Galaxy Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Allegheny International Builders Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1985PLC003312/11033—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Allegheny International Builders Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nekodaji Real Estate and Builders Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U70101RJ1985PTC003318/11034—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nekodaji Real Estate and Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Midways and Motels Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1985PTC003319/11035—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Midways and Motels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Acro Plast Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25209RJ1985PLC003321/11036—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Acro Plast Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ovik Foods Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15499RJ1985PTC003328/11037—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ovik Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vikram Polyplast Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1985PTC003329/11038—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vikram Polyplast Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Godvari Polychem Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1985PTC003332/11039—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Godvari Polychem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Polytex Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17117RJ1985PTC003335/11040—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Polytex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Computer Management Group Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72100RJ1985PTC003339/11041—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Computer Management Group Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Associates Industrial Investors Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U99999RJ1985PTC003351/11042—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Associates Industrial Investors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Indian Polytex Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25201RJ1985PTC003352/11043—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Indian Polytex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marmo Grilles India Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1985PTC003354/11044—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Marmo Grilles India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalyan Sundram Wheels Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27203RJ1985PTC003356/11045—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kalyan Sundram Wheels Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Patodia Cement Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1985PLC003358/11046—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Patodia Cement Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck

off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahendra Synthetics Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1985PTC003364/11047—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mahendra Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marudhar Syntex Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25201RJ1985PTC003368/11048—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Marudhar Syntex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jevsons Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1985PTC003381/11049—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jevsons Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Digi-Com Systems Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72100RJ1985PTC003385/11050—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Digi-Com Systems Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mishra Metal and Metals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1985PTC003391/11051—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mishra Metal and Metals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Manjushree Synthetics Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1985PTC003392/11052—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Manjushree Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Wearwell Fabrics Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1985PTC003403/11053—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Wearwell Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Khemka Synthetics Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1985PTC003404/11054—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Khemka Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sand A Electrodes Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51395RJ1985PTC003409/11056—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sand A Electrodes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Taramanik Engineering Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74210RJ1985PTC003416/11057—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Taramanik Engineering Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Industrial Links Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1985PTC003423/11058—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Industrial Links Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Pre-Stressed Concrete Sleepers Private
Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26932RJ1985PTC003428/11059—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Pre-Stressed Concrete Sleepers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Genetic Chemical Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1985PTC003431/11060—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Genetic Chemical Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalptaru Marble (India) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1985PTC003435/11061—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kalptaru Marble (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Shyam Ice Factory Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15544RJ1985PTC003443/11062—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Shree Shyam Ice Factory Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anish Color Lab Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74940RJ1985PTC003446/11063—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anish Color Lab Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rashmi Finance and Leasing Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1985PTC003454/11064—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rashmi Finance and Leasing Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Romet (India) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U99999RJ1985PTC003458/11065—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Romet (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Falco Gulf Ceramics Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26933RJ1985PTC003461/11066—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Falco Gulf Ceramics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahalaxmi Labs Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U85195RJ1985PTC003467/11067—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mahalaxmi Labs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Adarsh Dyes Chemicals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24114RJ1985PTC003468/11068—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Adarsh Dyes Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Optima Springs Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27106RJ1985PTC003472/11069—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Optima Springs

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Nakoda Metals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51501RJ1985PTC003477/11070—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Nakoda Metals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Areena Pharmaceuticels Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U2423214101RJ1985PTC003489/11071—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Areena Pharmaceuticels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Material Movement Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1985PTC003494/11072—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Material Movement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. West India Gas Products Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24111RJ1985PLC003495/11073—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. West India Gas Products Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kamal Stone Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1985PTC003499/11074—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kamal Stone Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Priyajee Distributors Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1986PTC003501/11075—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Priyajee Distributors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Modern Swadeshi Tyres (India) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25111RJ1986PTC003508/11076—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Modern Swadeshi Tyres (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swapnika Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1986PTC003515/11077—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swapnika Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kelwa Marles Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1986PTC003518/11078—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kelwa Marles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jagdambe Electronics Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51395RJ1986PTC003529/11079—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jagdambe Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jagdamba Rolling Mills Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1986PTC003531/11080—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jagdamba Rolling Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Durga Cement Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1986PTC003533/11081—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Durga Cement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Alpha Marbles (India) Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1986PTC003534/11082—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Alpha Marbles (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kamdhenu News Paper Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U22121RJ1986PTC003541/11083—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kamdhenu News Paper Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahveer Oil Products Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15141RJ1986PTC003543/11084—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mahveer Oil Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kota Cement Udyog Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1986PTC003549/11088—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kota Cement Udyog Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. New Shivani Cement Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1986PTC003552/11086—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. New Shivani Cement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Chandani Properties Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U70101RJ1986PTC003553/11087—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chandani Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunrise Rubber Industries Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25191RJ1986PTC003555/11088—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sunrise Rubber

Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunika Alloys Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27101RJ1986PTC003564/11089—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sunika Alloys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Surya Automotive Tubes Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51109RJ1986PTC003568/11090—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Surya Automotive Tubes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Crab Coil Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1986PTC003576/11091—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Crab Coil Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shar Shobha Chemocals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24119RJ1986PTC003580/11092—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shar Shobha Chemocals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Bamanwara Fibre and Fabrics Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1986PTC003583/11093—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Bamanwara Fibre and Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Quraish Enterprises Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1986PTC003585/11094—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Quraish Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Haroti Flour Mills Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15311RJ1986PTC003586/11095—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Haroti Flour Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Communication Aids and Measuring Instruments
Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28129RJ1986PTC003593/11096—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Communication Aids and Measuring Instruments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashokas Adhar Castings Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27310RJ1986PTC003598/11097—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ashokas Adhar Castings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashokas Adhar Re-Rolling Mills Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1986PTC003599/11098—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ashokas Adhar Re-Rolling Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Uma Shankar Construction and Holdings Private
Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1986PTC003603/11099—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Uma Shankar Construction and Holdings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Subhash Synthetics Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1986PTC003605/11100—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Subhash Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Supreme Suitings Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U18108RJ1986PTC003606/11101—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Supreme Suitings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Rawat Oil Industries Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15141RJ1986PTC003612/11102—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Rawat Oil Industries Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jai Enterprises Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1986PLC003617/11103—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jai Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaipur Pink Hotels Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1986PTC003624/11104—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jaipur Pink Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganga Fabrics Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1986PTC003626/11105—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ganga Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. G. B. S. Leather Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U19129RJ1986PTC003627/11106—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. G. B. S. Leather Enterprises Private Limited unless cause is shown to the

contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Transcontinental Consultants Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74140RJ1986PTC003628/11107—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Transcontinental Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Micro Point Institute of Computer Training Private
Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U80302RJ1986PTC003632/11108—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Micro Point Institute of Computer Training Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kothari Ayurved Massala Udyog Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24233RJ1986PTC003634/11109—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kothari Ayurved Massala Udyog Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pansy Pharmaceuticals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1986PTC003635/11110—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pansy Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S. N. K. Construction Company Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1986PTC003639/11111—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S. N. K. Construction Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Wardhman Silk Mills Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17116RJ1986PTC003642/11112—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Wardhman Silk Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Malsons Electronics Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51395RJ1986PTC003650/11113—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Malsons

Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Asera Mudran Udyog Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U22212RJ1986PTC003652/11114—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Asera Mudran Udyog Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dees Pistons Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29112RJ1986PTC003664/11115—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dees Pistons Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Polypack Laminators Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74993RJ1986PTC003672/11116—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Polypack Laminators Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Salbo Engineering Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1986PTC003673/11117—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Salbo Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rakshak (India) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U99999RJ1986PTC003678/11118—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rakshak (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Navratan Fabrics Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1986PTC003679/11119—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Navratan Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Apex Marbles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1986PTC003680/11120—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Apex Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anand Irrigation Equipments Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29212RJ1986PTC003683/11121—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anand Irrigation Equipments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kansons Leatherites Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U19129RJ1986PTC003686/11122—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kansons Leatherites Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bunnty Engineering Works Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51504RJ1984PTC003041/11123—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bunnty Engineering Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. New Modern Textiles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1984PTC003042/11124—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. New Modern Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Motel Amar Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1984PTC003044/11125—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Motel Amar Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahaveer Processors Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17114RJ1984PTC003045/11126—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mahaveer Processors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Polystone Industries (India) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1984PTC003046/11127—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Polystone Industries (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Shiva Spinners Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U99999RJ1984PTC003048/11128—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Shiva Spinners Private Limited unless cause is shown to the contrary,

will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Trade and Travels Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U63040RJ1984PTC003052/11129—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Trade and Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kota Stone and Marble Industries Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1984PTC003057/11130—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kota Stone and Marble Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaipur Carpets Mfg. India Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17222RJ1984PTC003059/11131—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jaipur Carpets Mfg. India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sabko Emerystone Co. Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1984PTC003061/11132—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sabko Emerystone Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Khaitan Chemicals Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1984PLC003065/11133—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Khaitan Chemicals Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhav Hitachi-Taga Electronics (India) Private
Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31103RJ1984PTC003072/11134—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madhav Hitachi-Taga Electronics (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Everest Stoneware Pipes Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26956RJ1984PTC003074/11135—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Everest Stoneware Pipes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gyo International India Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1984PTC003078/11136—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gyo International Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gupta Laboratories Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U85195RJ1984PTC003081/11137—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gupta Laboratories Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kotputli Cement Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1984PTC003082/11138—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kotputli Cement Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Energy and Communications Services Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U64201RJ1984PTC003090/11139—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Energy and Communications Services Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sheba International Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U36911RJ1984PTC003092/11140—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sheba International Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Monarch Films Combined Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92111RJ1984PTC003099/11141—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Monarch Films Combined Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Akash Deep Oil Indus Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15143RJ1984PTC003100/11142—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Akash Deep Oil Indus Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. West India Electronics Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51505RJ1984PTC003110/11143—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. West India Electronics Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Central Subscription Agencies Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U22122RJ1984PTC003113/11144—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Central Subscription Agencies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Bhagwati Syntex Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1984PTC003115/11145—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Bhagwati Syntex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Khyati Marble and Granite Tiles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1984PTC003119/11146—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Khyati Marble and Granite Tiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Winners Electronic Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1984PTC003127/11147—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Winners Electronic Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Synthiko Exports Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U99999RJ1984PTC003128/11148—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Synthiko Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S. R. Estates Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U70101RJ1984PTC003130/11149—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S. R. Estates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jawai Cement Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1984PTC003131/11150—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jawai Cement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Activated Earths Chemicals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24119RJ1984PTC003135/11151—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Activated Earths Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Precambrians (India) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24119RJ1984PTC003137/11152—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Precambrians (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Shakti Cement Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1984PTC003155/11153—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Shakti Cement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marudhar Granites Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14102RJ1984PTC003168/11154—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Marudhar

Granites Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Northern Castings Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27310RJ1984PTC003169/11155—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Northern Castings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Roxy International Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U99999RJ1980PTC002107/11156—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Roxy International Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Venus Marbles Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1980PTC002109/11157—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Venus Marbles Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhawan Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1980PTC002110/11158—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dhawan Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Emerald Hotels and Restaurants Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1980PTC002112/11159—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Emerald Hotels and Restaurants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanjay Engineering Services Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51420RJ1980PTC002117/11160—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sanjay Engineering Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Panchsheel Agencies Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1980PTC002119/11161—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Panchsheel

Agencies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kutumb General Trading Co. Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1980PLC002123/11162—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kutumb General Trading Co. Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Asbestos Cement (Rajasthan) Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1980PLC002130/11163—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Asbestos Cement (Rajasthan) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vikas Insulation Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31103RJ1980PTC002131/11164—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vikas Insulation Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Lakecity Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1980PTC002135/11165—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lakecity Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rhoda Chem Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1980PTC002139/11166—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rhoda Chem Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Agarwal Ceramics Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26933RJ1980PTC002142/11167—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Agarwal Ceramics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Raj Mangal Syntex Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17121RJ1980PTC002143/11168—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Raj Mangal

Syntex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Cresols Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74999RJ1980PLC002146/11169 --
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Cresols Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Poly-Protein Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15497RJ1980PTC002149/11170—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Poly-Protein Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Annapurana Chemicals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1980PTC002150/11171—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Annapurana Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kumar Fabrics Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1980PTC002151/11172--
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kumar Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tripura Fabrics Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1981PTC002158/11173—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tripura Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Orient Gum Industries Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24139RJ1981PTC002163/11174—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Orient Gum Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swastika Tyres Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25111RJ1981PTC002166/11175—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swastika Tyres Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanwat Agro Industries Private Limited
Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29212RJ1981PTC002170/11176—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sanwat Agro Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Thread Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17115RJ1981PTC002171/11177—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Thread Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Durolite Fiber Glass Products Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26102RJ1981PTC002173/11178—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Durolite Fiber Glass Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Excellent Rubber Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25191RJ1981PTC002195/11178—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Excellent Rubber Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Delhi Multi Tech Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25201RJ1981PTC002196/11179—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Delhi Multi Tech Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Plasticraft Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25209RJ1981PTC002199/11179—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Plasticraft Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Udaipur Flour Mills Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15311RJ1981PTC002203/11180—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Udaipur Flour Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hitop Tools Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28939RJ1981PTC002206/11181—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hitop Tools

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arvind Suitings Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17111RJ1981PTC002208/11182—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arvind Suitings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. RPL India Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17115RJ1981PLC002210/11183—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. RPL India Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ess Ess Marbles (India) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1981PTC002214/11184—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ess Ess Marbles (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Ganesh Himalaya Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1981PTC002215/11185—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Ganesh Himalaya Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jai Grinders Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1981PTC002217/11186—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jai Grinders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganga Insulators Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1981PTC002218/11187—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ganga Insulators Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Manish Manju Marbles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1981PTC002219/11188—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Manish Manju Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marwar Multi Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26343RJ1981PTC002221/11189—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Marwar Multi Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Carnation Textile Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1981PTC002226/11190—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Carnation Textile Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Powdrex (India) Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28910RJ1981PLC002236/11191—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Powdrex (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. International Springs Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28999RJ1981PTC002240/11192—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. International

Springs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Priti Organic and Chemical Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24119RJ1981PTC002246/11193—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Priti Organic and Chemical Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sumit Textiles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1981PTC002248/11194—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sumit Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Alwar Rubber Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25191RJ1981PTC002250/11195—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Alwar Rubber Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marabar Pharmaceuticals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1981PTC002254/11196—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Marabar Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Verma Builders and Engineers Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1981PTC002263/11197—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Verma Builders and Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Abhishek Engineering Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U58999RJ1981PTC002265/11198—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Abhishek Engineering Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Udaipur Textile Processors Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1981PTC002269/11200—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Udaipur Textile Processors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Raj Boards and Chemicals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U21012RJ1981PTC002272/11201—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Raj Boards and Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jeevan Phosphates and Chemicals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24121RJ1981PTC002274/11202—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jeevan Phosphates and Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Microwax (India) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U23201RJ1981PTC002277/11203—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Microwax (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shekhawati Chemicals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1981PTC002280/11204—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shekhawati Chemicals Private Limited unless cause is shown to the

contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arvind Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1981PTC002281/11205—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arvind Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kanodia Rubber Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25191RJ1981PTC002285/11206—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kanodia Rubber Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Lahoty Constructions Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1981PTC002288/11207—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lahoty Constructions Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Premier Electrodes Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31908RJ1981PTC002289/11208—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Premier Electrodes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sayar Engineering Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1981PTC002290/11209—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sayar Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Urvashi Hotels Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1981PTC002291/11210—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Urvashi Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. SVS Forgings Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17101RJ1981PTC002299/11211—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SVS Forgings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Neelam Marbles and Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1981PTC002303/11212—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Neelam Marbles and Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. R Tubes Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25201RJ1981PTC002305/11213—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R Tubes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhilwara Metals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1981PTC002307/11214—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhilwara Metals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Salecha Krishi Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51214RJ1981PTC002316/11215—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Salecha Krishi

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Golecha Cinetalc Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U99999RJ1981PTC002318/11216—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Golecha Cinetalc Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Govind Marbles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1981PTC002319/11217—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Govind Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hindustan Agro Chemicals Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24124RJ1981PLC002324/11218—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hindustan Agro Chemicals Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Foremost Engineering Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28999RJ1981PTC002325/11219—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Foremost Engineering Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Continental Foregings Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27101RJ1981PTC002330/11220—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Continental Foregings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Yadav Road Transport Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U60231RJ1981PTC002334/11221—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yadav Road Transport Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhagwati Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1981PTC002344/11222—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhagwati Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kaushal Papers Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U21012RJ1981PTC002348/11223—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kaushal Papers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vandana Chemicals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27117RJ1981PTC002353/11224—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vandana Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. R. B. Textile Mills Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1981PTC002354/11225—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R. B. Textile Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shakti Steels Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1981PTC002356/11226—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shakti Steels

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Udaipur Synthetics Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24304RJ1981PTC002360/11227—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Udaipur Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jan Kalyan Finance and Investment Co. Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1981PLC002364/11228—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jan Kalyan Finance and Investment Co. Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaingo Ispat Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1981PTC002365/11229—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jaingo Ispat Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. United Structures (India) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28999RJ1981PTC002369/11230—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. United Structures (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajnagar Marble and Mineral Industries Private
Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1981PTC002371/11231—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajnagar Marble and Mineral Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mayank Textiles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1981PTC002380/11232—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mayank Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hamir Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002386/11233—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hamir Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivrani Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002387/11234—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shivrani Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kailash Oil Mills Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15141RJ1982PTC002388/11235—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kailash Oil Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mridula Steel and Wires Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1973PLC002392/11236—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mridula Steel and Wires Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Abu Cement Works Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002397/11237—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Abu Cement

Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Laxmi Lime and Cement Works Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002402/11238—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Laxmi Lime and Cement Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ambica Machines Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28939RJ1982PTC002403/11239—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ambica Machines Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Joysina Trading Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002406/11240—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Joysina Trading Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. R. Kumar Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002407/11241—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R. Kumar Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Alwar Thermopack Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28992RJ1982PTC002414/11242—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Alwar Thermopack Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Super Cable Machine Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1982PTC002421/11243—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Super Cable Machine Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Maruti Cement Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002423/11244—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maruti Cement

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hem Kund Products Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15411RJ1982PTC002424/11245—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hem Kund Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Continentaal Marbles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1981PTC002425/11246—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Continentaal Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arch Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002431/11247—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arch Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan XLO Sanwa Midland Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U34300RJ1982PTC002434/11248—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan XLO Sanwa Midland Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhogarhia Investment Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U65990RJ1982PTC002436/11249—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madhogarhia Investment Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. C. K. Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002437/11250—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. C. K. Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swastika Engineering Works Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U34300RJ1982PTC002444/11251—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swastika Engineering Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Premier Cylinders Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28121RJ1982PLC002446/11252—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Premier Cylinders Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Domoplast (India) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25201RJ1982PTC002449/11253—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Domoplast (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhu Cement Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002455/11254—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madhu Cement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sahi Ramka Steels Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1982PTC002461/11255—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sahi Ramka Steels Private Limited unless cause is shown to the contrary,

will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Laxmi Cement Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002462/11257—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Laxmi Cement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. K. F. Diamond Marbles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1982PTC002466/11258—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. K. F. Diamond Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Tyres Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25111RJ1982PTC002471/11259—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Tyres Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Ambika Oil and Chemical Mills Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U99999RJ1982PTC002473/11260—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Ambika Oil and Chemical Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Richa Chem (India) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002479/11261—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Richa Chem (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Khajanchi Cement Works Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002483/11262—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Khajanchi Cement Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rama Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002485/11263—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rama Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Super Potteries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26911RJ1982PTC002486/11264—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Super Potteries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jwala Cement and Allied Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002489/11265—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jwala Cement and Allied Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Maheshwari Plastic Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25209RJ1982PTC002496/11266—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maheshwari Plastic Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Raj Amber Films Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92112RJ1982PTC002498/11267—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Raj Amber Films Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Goyal Oil Flour and Dal Mills Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15141RJ1982PTC002499/11268—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Goyal Oil Flour and Dal Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tarai Seedsindia Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51214RJ1982PTC002514/11270—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tarai Seedsindia Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Agglomerable Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1982PTC002516/11271—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Agglomerable Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Divya Fertilisers Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24124RJ1982PTC002520/11272—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Divya Fertilisers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhilwara Insulations Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1982PTC002521/11272—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhilwara Insulations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shekhawati Transport Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U60231RJ1982PTC002524/1123—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shekhawati Transport Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shringar Trading Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002525/11274—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shringar Trading Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Fabtec Engineers Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1982PTC002529/11276—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Fabtec Engineers

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sidharath Cones Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U21091RJ1982PTC002531/11277—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sidharath Cones Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Meratwal Insulations Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1982PTC002534/11278—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Meratwal Insulations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Savera Savings and Finance (India) Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1982PTC002542/11279—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Savera Savings and Finance (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Modis Prayers Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29212RJ1982PTC002548/11281—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Modis Prayers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sumansilk Mill Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17116RJ1982PTC002549/11281—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sumansilk Mill Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Primado Marble Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1982PTC002553/11282—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Primado Marble Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arun Mica Industries Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14293RJ1982PLC002555/11283—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arun Mica Industries Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arya Agro Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51214RJ1982PTC002558/11284—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arya Agro Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dan Chemicals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1982PTC002561/11285—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dan Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Fasco Duplicators Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U36991RJ1982PTC002562/11286—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Fasco Duplicators Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Goyals Constructions Investments Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1982PTC002566/11287—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Goyals Constructions Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hem Kund Minerals and Chemicals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1982PTC002570/11288—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hem Kund Minerals and Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Oriental Cylinders Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28121RJ1982PTC002576/11289—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Oriental Cylinders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marble Mandir Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1982PTC002579/11290—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Marble Mandir Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. G. T. Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002581/11291—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. G. T. Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Monarch Chems and Allied Products Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1982PTC002590/11292—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Monarch Chems and Allied Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Deetex Processors (India) Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1982PLC002594/11293—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Deetex Processors (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Interonics Components Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U99999RJ1982PTC002596/11294—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Interonics Components Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Western Minerals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1982PTC002598/11295—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Western Minerals Private Limited unless cause is shown to the contrary,

will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anil Ginning and Pressing Factory Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U01405RJ1982PTC002599/11296—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anil Ginning and Pressing Factory Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Suchita Trading Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1982PTC002600/11297—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Suchita Trading Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Balwant Food Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15499RJ1982PTC002604/11298—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Balwant Food Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hotel Vijay Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1982PTC002612/11299—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hotel Vijay Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gypsum Fibre India Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24302RJ1983PLC002622/11300—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gypsum Fibre India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rashmi Soaps Chemicals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24302RJ1983PTC002623/11301—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rashmi Soaps Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sharma Metal Machines Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1983PTC002629/11302—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sharma Metal Machines Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Friends Trading Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1983PTC002635/11303—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Friends Trading Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Alankar Associates Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31909RJ1983PTC002636/11304—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Alankar Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shyam Oil Cake Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1983PTC002637/11305—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shyam Oil Cake Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sekhawati Marbles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1983PTC002647/11306—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sekhawati Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S. O. Gas Products Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24111RJ1983PTC002648/11307—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S. O. Gas Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. B.N.B. Electricals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51395RJ1983PTC002651/11308—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. B.N.B. Electricals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Seth Sanwaria Marble Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1983PTC002654/11309—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Seth Sanwaria Marble Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Modi Secured Investment Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007.

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1983PTC002655/11310—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Modi Secured Investment Private Limited unless cause is shown to the

contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kumar Swastik Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1983PTC002657/11311—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kumar Swastik Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Khandelwal Trading Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1983PTC002659/11302—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Khandelwal Trading Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ethichem Laboratories Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U85195RJ1983PTC002661/11313—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ethichem Laboratories Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Annapurna Silk Mills Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17116RJ1983PTC002663/11314—

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Annapurna Silk Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aristo Pulp and Papers Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U21012RJ1983PLC002665/11315—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aristo Pulp and Papers Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jay Shree Rice Mills Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15312RJ1983PTC002666/11316—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jay Shree Rice Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Patel Marbles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1983PTC002672/11317—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Patel Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kohinoor Marbles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1983PTC002676/11318—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kohinoor Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gopinath Trading Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1983PTC002686/11319—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gopinath Trading Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sah Enterprises (Rajasthan) Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1983PLC002687/11320—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sah Enterprises (Rajasthan) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vardhan Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1983PTC002690/11321—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vardhan Enterprises Private Limited unless cause is shown to the

contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Prem Hans Engineering Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1983PTC002693/11322—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prem Hans Engineering Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Samridhi Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29308RJ1983PTC002694/11323—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Samridhi Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vikas Marbles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1983PTC002695/11324—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vikas Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Hindustan
Hydrocarbons and Chemicals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1983PTC002696/11325—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hindustan Hydrocarbons and Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Varun Tar Pulin Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28201RJ1983PTC002703/11326—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Varun Tar Pulin Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Strips Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1983PTC002704/11327—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Strips Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Iceland Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29191RJ1983PTC002713/11328—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Iceland Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Everlast Filters Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U34300RJ1983PTC002716/11329—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Everlast Filters Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nirmal Solvant Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1983PLC002719/11330—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nirmal Solvant Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S-Felts (India) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U18101RJ1983PTC002723/11331—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S-Felts (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. B. R. and Sons Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1983PTC002724/11332—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. B. R. and Sons Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Encons (Rajasthan) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29308RJ1983PTC002732/11333—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Encons (Rajasthan) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Madan Sons Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29308RJ1983PTC002735/11334—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madan Sons Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vimal Milk Products Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15203RJ1983PTC002738/11335—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vimal Milk Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Chemcaps Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1983PLC002739/11336—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chemcaps Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhilwara Spinning Mills Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17115RJ1983PTC002740/11337—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhilwara Spinning Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Amarnath Chiranjilal Builders Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1983PTC002747/11338—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amarnath Chiranjilal Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bikaner Pulp and Paper Industry Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U21012RJ1983PTC002748/11339—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bikaner Pulp and Paper Industry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Deepali Distributors Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1983PTC002754/11340—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Deepali Distributors Private Limited unless cause is shown to the

contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Lakshmi Fabrics Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1983PTC002760/11341—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lakshmi Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rana Cement Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1983PTC002763/11342—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rana Cement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhusudan Properties and Investments Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U70101RJ1983PTC002766/11343—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madhusudan Properties and Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiraj Tools Manufacturing Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28939RJ1983PTC002767/11344—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shiraj Tools Manufacturing Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jan Jyoti Trading Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1983PTC002768/11345—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jan Jyoti Trading Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M M Alloys Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27101RJ1983PTC002780/11346—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. M M Alloys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Oxygen Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24111RJ1983PTC002781/11347—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Oxygen Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhuram Vanaspati and Soya Products Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15141RJ1983PTC002785/11348—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madhuram Vanaspati and Soya Products Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Giriraj Papers Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U21012RJ1983PTC002786/11349—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Giriraj Papers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marudhar Refinery and Chemical Industries Private
Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1983PTC002790/11350—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Marudhar Refinery and Chemical Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Computer and Management Services Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ1983PTC002791/11351—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Computer and

Management Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. R. B. Dairy Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15203RJ1983PTC002794/11352—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R. B. Dairy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. K. K. Granites Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14102RJ1983PTC002795/11353—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. K. K. Granites Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kama Foods Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15141RJ1983PTC002796/11354—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kama Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rathi Marble Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1983PTC002797/11355—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rathi Marble Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. R. M. Marbles Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007.

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1983PTC002804/11356—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R. M. Marbles Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Navrang Spinners Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17112RJ1983PTC002806/11357—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Navrang Spinners Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. V. G. Mohnot and Co. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31200RJ1983PTC002810/11358—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. V. G. Mohnot and Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. New Lucky Marble Granite Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14102RJ1983PTC002811/11359—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. New Lucky Marble Granite Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Bhagwat Processors Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U18101RJ1983PTC002819/11360—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Bhagwat Processors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Krishna Forge and Stampings Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U28910RJ1983PTC002823/11361—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Krishna Forge and Stampings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kapil Krafts Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U18101RJ1983PTC002819/11362—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kapil Krafts

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Trinity Combine Associates Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U99999RJ1983PTC002841/11363—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Trinity Combine Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Loharki Cement Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1983PTC002842/11364—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Loharki Cement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Industrial Cutters and Finishers Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1983PTC002843/11365—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Industrial Cutters and Finishers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhilwara Mineral and Chemical Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1983PTC002844/11366—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhilwara Mineral and Chemical Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Adarsh Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1983PTC002848/11367—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Adarsh Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajputana Hosiery and Chemicals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51311RJ1983PTC002850/11368—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajputana Hosiery and Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. A. C. M. Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92111RJ1983PTC002852/11369—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A. C. M. Private

Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pink City Service on Call Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U64201RJ1983PTC002856/11370—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pink City Service on Call Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Amrut Sheele Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1983PTC002860/11371—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amrut Sheele Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ace Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1983PTC002863/11372—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ace Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Ganpati Cement Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1984PTC002867/11373—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Shree Ganpati Cement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Punjab Pipes Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26932RJ1984PTC002871/11374—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Punjab Pipes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Laxmi Synfab Mills Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1984PTC002875/11375—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Laxmi Synfab Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cannon and Canon Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1984PLC002880/11376—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Cannon and Canon Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prashant Alums and Chemicals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27203RJ1984PTC002882/11377—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prashant Alums and Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saraswati Metals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51420RJ1984PTC002883/11378—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saraswati Metals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cigma Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26993RJ1984PTC002889/11379—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Cigma Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hindustan Circuits Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31200RJ1984PLC002892/11380—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hindustan Circuits Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shankar Electronics Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51395RJ1984PLC002893/11381—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shankar Electronics Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kedia Fabrics Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1984PTC002894/11382—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kedia Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sodani Cements and Chemicals Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1984PTC002899/11383—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sodani Cements and Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Swastik Cement Distributors Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51432RJ1984PTC002903/11384—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swastik Cement Distributors Private Limited unless cause is shown to the

contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Durga Minchem Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1984PTC002905/11385—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Durga Minchem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Friends Lime Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14107RJ1984PTC002906/11386—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Friends Lime Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. G S Processors Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24302RJ1984PTC002907/11387—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. G S Processors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Periodicals Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U22122RJ1984PTC002913/11388—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Periodicals Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kopy Rite Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U99999RJ1984PTC002914/11389—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kopy Rite Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jupiter Advertising Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74300RJ1984PTC002917/11390—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jupiter Advertising Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shyam G Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U36911RJ1984PTC002921/11391—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shyam G Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Marudhar Cement Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1984PTC002930/11392—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Marudhar Cement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajesh Minerals and Industries Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U36911RJ1984PTC002933/11393—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajesh Minerals Industries Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Swapnika Tiles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1984PTC002935/11394—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swapnika Tiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bajaj Forging Works Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27101RJ1984PTC002938/11395—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bajaj Forging Works Private Limited unless cause is shown to the contrary,

will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rohit Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1984PTC002949/11396—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rohit Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gesawat Tiles (India) Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1984PTC002952/11397—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gesawat Tiles (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mundra Marbles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1984PTC002974/11398—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mundra Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anupama Builders and Contractors Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1984PTC002980/11399—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anupama Builders and Contractors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Polyset Silk and Synthetic Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17116RJ1984PTC002986/11400—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Polyset Silk and Synthetic Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajgarhia Wooden Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U20291RJ1984PTC002987/11401—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajgarhia Wooden Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kocher Enterprises Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1984PTC002992/11402—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kocher Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ajenta Chemicals (India) Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24211RJ1984PTC002994/11403—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ajenta Chemicals (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. J. K. and Sons Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24222RJ1984PTC003008/11404—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. J. K. and Sons Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Monrch Marble Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1984PTC003010/11405—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Monrch Marble Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Standard Automobiles Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51109RJ1984PTC003012/11406—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Standard

Automobiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Uttam Foods Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15497RJ1984PTC003017/11407—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Uttam Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Manglam Agencies Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1984PTC003018/11408—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Manglam Agencies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Satyan Packaging Industries Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74950RJ1984PTC003036/11409—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Satyan Packaging Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Vishal Printers Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U22190RJ1984PLC003038/11410—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Vishal Printers Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Majeed and Brothers Private Limited

Jaipur, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14101RJ1984PTC003039/11411—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Majeed and Brothers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indo Liquids Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00025—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Indo Liquids Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ever Ice Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00022—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ever Ice Private Limited unless cause is shown to

the contrary, will be struck off the register and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Varun Aqua Filpack Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00028—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Varun Aqua Filpack Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Silver Springs Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00031—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Silver Springs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sant Nilobarai Mineral Water Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00034—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nilobarai Mineral Water Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ameet Ice Factory Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00019—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Ameet Ice Factory Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kanchan Mineral Water and Containers
Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00037—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kanchan Mineral Water and Containers Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off the register and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Don-San Beverage and Mineral Water
Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00040—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Don-San Beverages and Mineral Water Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off the register and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mansukh Minerals Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00043—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of

Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Mansukh Minerals Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Patalganga Minerals Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00046—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Patalganga Minerals Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yeshul Food and Aqua Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00050—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Yeshul Food and Aqua Products Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Armstrong Pure Water Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00056—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Armstrong Pure Water Services Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shreeji Mineral Waters Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00059—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shreeji Mineral Waters Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A. V. G. Securities Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00063—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. A. V. G. Securities Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Priya Minerals and Processors Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00066—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Priya Minerals and Processors Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bharat Parikh and Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00072—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Bharat Parikh and Company Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. West Coast Minerals Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00078—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. West Coast Minerals Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fitness Soydaury Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00082—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Fitness Soydaury Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yash Aqua Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00087—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Yash Aqua Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and said
company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vanguard Aqua Pure Beverages Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00093—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vanguard Aqua Pure Beverages Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sheetal Dhara Beverages and Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00099—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sheetal Dhara Beverages and Foods Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Milkyway Frozen Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00016—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Milkyway Frozen Foods Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kaushal Ice Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00094—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kaushal Ice Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and said
company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Natural Icecream Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00013—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Natural Icecream Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anishakash Ice Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00010—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Anishakash Ice Products Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sukai Ice Manufacturing Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00007—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sukai Ice Manufacturing Company Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Silky Ice and Cold Storage Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00105—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Silky Ice and Cold Storage Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDAANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sinnar Ice Factory Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00108—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sinnar Ice Factory Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDAANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aman Ice Factory Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00114—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Aman Ice Factory Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDAANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Venkateshwar Constru-Well Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/01134—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Venkateshwar Constru-Well Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Western Millennium Infotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00384—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Western Millennium Infotech Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pancham Steel Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00082—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Pancham Steel Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prerna Secusys Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00457—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Prerna Secusys Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalpavriksha Marketing Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00074—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kalpavriksha Marketing Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gatisheel Finance Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00381—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Gatisheel Finance Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Centrum Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00780—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Centrum Exports Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maks Agrotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00144—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Maks Agrotech Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sun Administration Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00772—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sun Administration Services Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vision Sales Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00803—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vision Sales Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and said
company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Intouch Management Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00823—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Intouch Management Services Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Medizone India Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00468—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Medizone India Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vikram Plasto Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00273—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vikram Plasto Industries Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kashmira Hirepurchase and Leasing Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00186—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kashmira Hirepurchase and Leasing Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sumi Computers Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00339—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sumi Computers Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tatva Solutions Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00319—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Tatva Solutions Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sky High Motels (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00297—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sky High Motels (India) Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vectra Advanced Engineering Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00289—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vectra Advanced Engineering Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Winner's Information Technology Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00267—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Winner's Information Technology Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunmak Enterprises Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00257—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sunmak Enterprises Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anupam Wires Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00309—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Anupam Wires Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Utkarsh Mushroom Cultivation Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00325—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Utkarsh Mushroom Cultivation Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Harsheel Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00355—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Harsheel Textiles Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the the Companies Act, 1956 and of
M/s. Decos Software Development Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00375—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Decos Software
Development Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the the Companies Act, 1956 and of
M/s. Klassic Fabrics Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00046—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Klassic Fabrics
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off the register and the said company will be dissolved.

SHIRIRAM MOFIRAM SAJNDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aarveelon Synthetics Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00053—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aarveelon Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalbro Silk Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00061—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kalbro Silk Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Milan Syntex Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00070—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Milan Syntex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Theertha Sons Synthetics Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00084—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Theertha Sons

Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pancha Ratna Textile Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00092—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pancha Ratna Textile Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shankar's Fabrics Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00098—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shankar's Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Spectrum Tex-Dye Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00104—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Spectrum Tex-Dye Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Springhill Granite Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00263—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Springhill Granite Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. De Beers India Surveys Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00040—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. De Beers India Surveys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dwivedi Boards Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00051—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dwivedi Boards Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Imperial Papers Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00143—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Imperial Papers

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sumangal Papers Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00025—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sumangal Papers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Satyam Paper and Board Mill Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00054—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Satyam Paper and Board Mill Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tricolour Art Decors Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00242—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tricolour Art Decors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amar Minerals Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00155—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amar Minerals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDA NE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jewel Engineering Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00139—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jewel Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MEENA RAJENDER SINGH
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S R Knitfab Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00396—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S R Knitfab Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MEENA RAJENDER SINGH
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Midtown Civil Contractors Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00202—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Midtown Civil Contractors Private Limited unless cause is shown to the

contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MEENA RAJENDER SINGH
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deveshri Enviro and Engineers Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00014—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Deveshri Enviro and Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahankal Printer Ribbons Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00500—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mahankal Printer Ribbons Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Sant Gadge Maharaj Food Processing Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00186—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Sant Gadge Maharaj Food Processing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. National Food Products (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00182---
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. National Food Products (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kavands Hotels Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00166---
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kavands Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ekvira Adhesives Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00559---
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ekvira Adhesives Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Hanuman Minaral Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/01212 ---
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Hanuman

Minaral Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiv-Mahima Agro Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00490---
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shiv-Mahima Agro Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Eagle Melchem Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00342---
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Eagle Melchem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bonace Engineering Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00672---
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bonace Engineering Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Noorsons Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00137—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Noorsons Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Golden Grapes and Allied Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00095—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Golden Grapes and Allied Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Agriya Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00134—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Agriya Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Laxmi Ganesh Kripa Spicy Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00128—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Laxmi Ganesh Kripa Spicy Products Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Plaza Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00122—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Plaza Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cookvel Food's India Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00311—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Cookvel Food's India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Everest Fruits Exporters and Processors Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00115—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Everest Fruits Exporters and Processors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tikamsons Bakers and Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00104—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tikamsons Bakers and Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nilesh Spices and Masala Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00099—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nilesh Spices and Masala Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Moon Rich Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00074—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Moon Rich Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Niphad Grapes and Fruit Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00068—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Niphad Grapes and Fruit Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Soni Agro Met Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00059—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Soni Agro Met Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhura Chemicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00973—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madhura Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhusawal Steels Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00498—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhusawal Steels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bansal Synthetics Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00107—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bansal Synthetics Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Progressive Synthetics and Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00110—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Progressive Synthetics and Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pringles Fabrics Weaving Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00117—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pringles Fabrics Weaving Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jam Advertising (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00120—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Jam Advertising (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. R R Wovens Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00126—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R R Wovens Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Priti Threads Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00129—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Priti Threads Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. New Bombay Ice and Cold Storage Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00110—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. New Bombay Ice and Cold Storage Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Makson Beverages Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00085—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Makson Beverages Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. New Era Beverages Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00072—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. New Era Beverages Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Priya Beverages and Appliances Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00069—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Priya Beverages and Appliances Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Brahmaputra Aqua Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00066—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Brahmaputra Aqua Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Strategic Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00063—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sai Strategic Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Manek Construction Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00059—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Manek Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hitkari Hitech Filters Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00015—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hitkari Hitech Filters Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vibhuti Products (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00006—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vibhuti Products (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saloni Kath Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00009—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saloni Kath Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramanbhai Chhotabhai Patel Tobacco Products
Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00028—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ramanbhai Chhotabhai Patel Tobacco Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. V H Patel Tobacco Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00025—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. V H Patel Tobacco Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A-1 Standard Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00021—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A-1 Standard Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Neelkanth Tobacco Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00018—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Neelkanth Tobacco Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kailas Tobacco Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00056—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kailas Tobacco Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prerna Cold Storage and Ice Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00106—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prerna Cold Storage and Ice Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajpal Liquors Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00100—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajpal Liquors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Royal Masala and Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00095—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Royal Masala and Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Express Liquor's Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00092—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Express Liquor's

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nipura Imports and Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00052—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nipura Imports and Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kamal Kattha Factory Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00049—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kamal Kattha Factory Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bombay Tobacco Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00045—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bombay Tobacco Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kamptee Tobacco Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00038—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kamptee Tobacco Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Priyajee Distributors Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00035—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Priyajee Distributors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Magnum Processed Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00031—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Magnum Processed Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Super Containers Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00081—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Super Containers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Baga Dia Packaging Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00084—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Baga Dia Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Siddhi Vinayak Packaging Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00087—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Siddhi Vinayak Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nandesh Metal Tin Containers Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00090—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nandesh Metal Tin Containers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deluxe Containers Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00093 —
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Deluxe Containers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Skip Packaging Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00096 —
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Skip Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Creative Containers Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00129 —
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Creative Containers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Asian Petro-Chemicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00126 —
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Asian Petro-

Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. J K Containers Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00120 —
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. J K Containers Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shreyas Packaging Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00123 —
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shreyas Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kusum Packaging Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00099 —
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kusum Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Metal Caps (Bombay) Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00102—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sai Metal Caps (Bombay) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shamit Metal Closures Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00105—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shamit Metal Closures Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vindya Packaging Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00114—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vindya Packaging Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Top Closers Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00108—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Top Closers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Wepco Drums Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00111—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Wepco Drums Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunshine Packaging Private Limited

Mumbai-400 002, the 18th January 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00117—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sunshine Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vrudhi Hotels Private Limited

Panaji-403 001, the 22nd May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Goa/sec 560/2008/00308/2918—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vrudhi Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Snruti Stone Crushing Private Limited

Panaji-403 001, the 22nd May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Goa/sec 560/2008/00309/2920—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Smruti Stone
Crushing Private Limited unless cause is shown to the contrary,
will be struck off the register and the said company will be
dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Muskan Fisheries Private Limited

Panaji-403 001, the 22nd May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Goa/sec 560/2008/00310/2925—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Muskan
Fisheries Private Limited unless cause is shown to the contrary,
will be struck off the register and the said company will be
dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Govinda Polymers Private Limited

Panaji-403 001, the 22nd May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Goa/sec 560/2008/00311/2926—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Govinda
Polymers Private Limited unless cause is shown to the contrary,
will be struck off the register and the said company will be
dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prizm Information Technology Private Limited

Panaji-403 001, the 22nd May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Goa/sec 560/2008/00312/2930—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Prizm Information
Technology Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sonedev Technologies Private Limited

Hyderabad-500 195, the 21st May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Hyderabad/sec 560/2008/00033/
340—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration
of three months from the date hereof the name of M/s. Sonedev
Technologies Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

RICHARD HENRY
Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Naginimara Forest Products Private Limited

Shillong-793 001, the 16th May 2008

No. NL001959/2008—Notice is hereby given pursuant to
sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956
that the name of M/s. Naginimara Forest Products Private
Limited has this day been struck off the register and the said
company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arunachal Chemicals Private Limited

Shillong-793 001, the 16th May 2008

No. AR001971/2008—Notice is hereby given pursuant to
sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956
that the name of M/s. Arunachal Chemicals Private Limited
has this day been struck off the register and the said company
is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhismak Veneer Mills Private Limited

Shillong-793 001, the 16th May 2008

No. AR004265/2008—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhismak Veneer Mills Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pongkong Timber Industries Private Limited

Shillong-793 001, the 16th May 2008

No. NL002113/2008—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pongkong Timber Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vinayaka Timbers Private Limited

Shillong-793 001, the 16th May 2008

No. AR004095/2008—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vinayaka Timbers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kaman Meyor Chemicals Private Limited

Shillong-793 001, the 16th May 2008

No. AR005529/2008—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kaman Meyor Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Wallong Chemicals Private Limited

Shillong-793 001, the 16th May 2008

No. AR005952/2008—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Wallong Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. B And S Housing Finance Private Limited

Shillong-793 001, the 16th May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2008/00003—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. B And S Housing Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anans Enterprises Limited

Shillong-793 001, the 16th May 2008

No. AS006022/2008—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anans Enterprises Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Edu-Ware Informatics Private Limited

Shillong-793 001, the 16th May 2008

No. AS006507/2008—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Edu-Ware Informatics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lohit Chemicals Private Limited
Shillong-793 001, the 16th May 2008

No. AR002225/2008—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lohit Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Patkai Chemicals Private Limited
Shillong-793 001, the 16th May 2008

No. AS003787/2008—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Patkai Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. N. C. Timber Industries Private Limited
Shillong-793 001, the 16th May 2008

No. AS002051/2008—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. N. C. Timber Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Min Meena Leasing Company Private Limited
Chennai-600 034, the 5th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00564—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Min Meena Leasing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amruthalakshmi Benefit Fund Limited
Chennai-600 034, the 5th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00582—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amruthalakshmi Benefit Fund Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mansarrovar Mineral Water Private Limited
Chennai-600 034, the 5th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00588—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mansarrovar Mineral Water Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Wilson Overseas Trading Private Limited
Chennai-600 034, the 5th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00585—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Wilson Overseas Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Janani Imports & Exports Private Limited
Chennai-600 034, the 5th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00569—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Janani Imports & Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A2Z Eye Deal Private Limited

Chennai-600 034, the 5th May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00581—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A2Z Eye Deal Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N

Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sprout Systems Private Limited

Chennai-600 034, the 5th May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00550—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sprout Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N

Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adyar Engineering and Technology Consortium
Private Limited

Chennai-600 034, the 5th May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00570—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Adyar Engineering and Technology Consortium Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N

Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Silver Sacks Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00070—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Silver Sacks Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N

Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Meridian Fisheries Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00190—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Meridian Fisheries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N

Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. K. P. Agrichem Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00154—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. K. P. Agrichem Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N

Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Elless Finance Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00105—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Elless Finance Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N

Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Twenty First Century Pest Control Services Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00068—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Twenty First Century Pest Control Services Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Spectrum Petro Projects Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00184—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Spectrum Petro Projects Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Swarnakamal Finvest Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00331—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swarnakamal Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jagatsri Computers & Communications Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00063—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof the name of M/s. Jagatsri Computers & Communications Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Senthil Properties Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00321—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Senthil Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. N. P. S. Wire Bricks Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00110—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. N. P. S. Wire Bricks Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kar Forgings (Chennai) Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00317—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kar Forgings (Chennai) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. White Arrow Information Services Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00080—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. White Arrow Information Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Elephant Pass Orchids Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00074—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Elephant Pass Orchids Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ipfones India Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00179—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ipfones India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Worldwide Enterprise Solutions Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00079—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof the name of M/s. Worldwide Enterprise Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishwas Informatics Company Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00102—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vishwas Informatics Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Surag Trade Links Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00486—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Surag Trade Links Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. MSA Impex Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00150—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. MSA Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. MK Castings Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00161—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. MK Castings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N

Registrar of Companies

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Three X Clarity and Execution Solutions Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00156—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Three X Clarity and Execution Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N

Registrar of Companies

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ranads Travel and Tours Private Limited

Chennai-600 034, the 19th May 2008

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00403—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ranads Travel and Tours Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

HARISH B N

Registrar of Companies

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of following
Companies

Bangalore, the 21st May 2008

No. SUO-MOTO/560(3)/2008-09—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the names of the following companies unless cause is

shown to the contrary, will be struck off the register maintained by this office and the said companies will be dissolved :—

Sl.No.	Co. No.	Name of the Company
1.	17497	M/s. Sheron Pesticides Limited
2.	17514	M/s. Ambica Irrigation Systems Limited
3.	17619	M/s. Amrut Housing Development Corporation Limited
4.	17670	M/s. Odme India Limited
5.	17671	M/s. Executrain India Limited
6.	17673	M/s. Frigem India Limited
7.	17704	M/s. TRB Investment and Finance Limited
8.	17780	M/s. Sham Bhor Silks Limited
9.	17863	M/s. Shree Aryuadurga Aqua Products Limited
10.	18097	M/s. Recon Finance Limited
11.	19397	M/s. Karam Autofin Limited

A. M. SRIDHARAN

Dy. Registrar of Companies

Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of following
companies

Bangalore, the 19th May 2008

No. TA/H/S.560(5)/SUO MOTU/08—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of companies mentioned below have this day been struck off from the register and the said companies shall stand dissolved on the date of publication of this notice in the Official Gazette. :—

Sl.No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	3656	M/s. Computer Products & Services Private Limited
2.	3929	M/s. Zenith Body Builders Private Limited
3.	3940	M/s. Haltons Flour Mills Private Limited
4.	3942	M/s. Fibre Moulds Private Limited
5.	3955	M/s. Adramark Innovators Private Limited
6.	3964	M/s. Kalpana Estates Private Limited
7.	3765	M/s. Kota's Hotel International Limited
8.	3767	M/s. Arihanth Conductors Private Limited
9.	3774	M/s. Sapphire Grasa Private Limited

1	2	3
10.	3776	M/s. Good Life Food Products Private Limited
11.	3780	M/s. Revathi Engineering Industries Private Limited
12.	3790	M/s. Essar Engineers Contractors & Consultants Private Limited
13.	3791	M/s. Kirana Metals Private Limited
14.	3798	M/s. Vishwakiran Hotels Private Limited
15.	30605	M/s. Ubique Presto Marketing Private Limited
16.	30608	M/s. Shree Annapoornejwari Marketing (Bangalore) Private Limited
17.	30611	M/s. S. A. Fifth Day Diving School Private Limited
18.	30622	M/s. Axis Marketing & Consultants (Karnataka) Private Limited
19.	30624	M/s. Genprowess Software Private Limited
20.	30634	M/s. Aravind Design Private Limited
21.	30637	M/s. Timbercity .Net Private Limited
22.	30639	M/s. Workwell Direct Merchant Private Limited
23.	30644	M/s. Luminous Display Signs Private Limited
24.	30646	M/s. Limra Hi-tech Planners & Developers Private Limited
25.	30651	M/s. Parkview Medical Diagnostic Private Limited
26.	30654	M/s. Shakthi Herbal Extracts Private Limited
27.	30655	M/s. Animika Software Technologie Private Limited
28.	30657	M/s. Savinanasu Farms Private Limited
29.	30659	M/s. Shivani Power Private Limited
30.	30681	M/s. Aptcare Medi Services Private Limited
31.	30682	M/s. Ala Exports & Imports Private Limited
32.	30690	M/s. Apporva Pavings Private Limited
33.	30700	M/s. Solidus Multi Tech Private Limited
34.	30706	M/s. Natural Commodities Private Limited
35.	30708	M/s. Al-Qamar Medicare & Research Centre Private Limited
36.	30709	M/s. Castello Farm Products Private Limited
37.	30714	M/s. A F C Nutraceuticals Private Limited
38.	30715	M/s. Micro Cell Infotech Private Limited

1	2	3
39.	30723	M/s. Jisha Human Resource Service Private Limited
40.	30737	M/s. Bhagavathi Vidya Tarang Technologies Private Limited
41.	30738	M/s. Axis Exports Private Limited
42.	30743	M/s. Yes B Cube Farms & Resorts Private Limited
43.	30752	M/s. Silitech Elements Private Limited
44.	30759	M/s. Salcos Marketers Private Limited
45.	30766	M/s. Pace Environmental Projects Private Limited
46.	30767	M/s. Arvind Biotech Private Limited
47.	30779	M/s. AK Datasys & Solutions Private Limited
48.	30781	M/s. Royal Impressions Private Limited
49.	30782	M/s. Porwal Shares & Stocks Private Limited
50.	30783	M/s. Median Direct Financial Solutions Private Limited
51.	30786	M/s. Sheshadri Innovative Technologies Private Limited
52.	30790	M/s. Associated Coach Builders Private Limited
53.	30797	M/s. R. K. Setty Holiday Resorts & Wonder Land India Private Limited

C. V. SANJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of following companies

Bangalore, the 22nd May 2008

No. SUO MOTO/560(5)/KM/2008-09—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following companies have this day been struck off the registrar of Companies and the said companies are dissolved :—

Sl.No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	28950	M/s. Nachnish Software Technologies Private Limited
2.	28957	M/s. Sarga Infotech Private Limited
3.	28960	M/s. Together Technologies Private Limited

1	2	3	1	2	3
4.	28964	M/s. Big Deal Investment Consultants Private Limited	32.	29183	M/s. Shy-Moon Hotels Private Limited
5.	28982	M/s. Sree Varaha Agro Products Private Limited	33.	29187	M/s. S. L. Furnix Private Limited
6.	29473	M/s. Techcores Academy Private Limited	34.	29190	M/s. V-2 Trading Concepts Private Limited
7.	28996	M/s. Aisi Marketing Concepts Private Limited	35.	29192	M/s. Nutshell IT Solutions Private Limited
8.	29004	M/s. Harvestor Infosystems Private Limited	36.	29200	M/s. Call Scan Technologies Private Limited
9.	29014	M/s. Spark Eco-Tech Private Limited	37.	29203	M/s. Omkhar Apparels Private Limited
10.	29019	M/s. Daga Agencies Private Limited	38.	29223	M/s. S. M. V. Constructions Private Limited
11.	29020	M/s. Golden Township Developers Private Limited	39.	29225	M/s. Royal Ralf Hotels Private Limited
12.	29021	M/s. Optimal Software Solutions Private Limited	40.	29236	M/s. Polytech Alloys Private Limited
13.	29026	M/s. Genii Learning Technologies Private Limited	41.	29242	M/s. Cliff Estates and Properties Private Limited
14.	29043	M/s. Delta-5 Courier Services Private Limited	42.	29243	M/s. SN.Acrylic India Private Limited
15.	29049	M/s. Gayathri Marketing and Associated Services Private Limited	43.	29248	M/s. Mericomp Technologies Private Limited
16.	29060	M/s. Unik Info Private Limited	44.	29249	M/s. Lifeline Cards Private Limited
17.	29069	M/s. Panchavati Agrotech Private Limited	45.	29279	M/s. Synapse Information Technologies Private Limited
18.	29070	M/s. Bharathi Online Communications India Private Limited	46.	29284	M/s. Surya IT Private Limited
19.	29078	M/s. Kal Pro Solutions Private Limited	47.	29289	M/s. Rees Multitech Private Limited
20.	29079	M/s. Orchid Infoway Private Limited	48.	29290	M/s. Matrix Management Services Private Limited
21.	29083	M/s. Trikoot Infotech Private Limited	49.	29294	M/s. Command International Software Private Limited
22.	29085	M/s. Komarla Constructions Private Limited	50.	29296	M/s. Abhivridhi Management Services Private Limited
23.	29100	M/s. M P K Constructions Private Limited	51.	29298	M/s. Voltek Fashion Net India Private Limited
24.	29101	M/s. E4U Networks Private Limited	52.	29303	M/s. GCRFL Insurance Solutions Private Limited
25.	29109	M/s. CS-Tech Constructive Solutions Private Limited	53.	29315	M/s. Millennium Man Power Solution and Service Private Limited
26.	29111	M/s. Indus Associates Recreations Private Limited	54.	29316	M/s. Padmashree Computers Private Limited
27.	29132	M/s. Softedge Networks Private Limited	55.	29317	M/s. Igent Technology India Private Limited
28.	29157	M/s. Mega Projects and Ventures (India) Private Limited	56.	29321	M/s. Joshua Exports Private Limited
29.	29163	M/s. A. K. M. S. Management Services (India) Private Limited	57.	29332	M/s. E-Wrks Technologies Private Limited
30.	29175	M/s. MBS Castings Private Limited	58.	29337	M/s. Sak Synthetics Private Limited
31.	29178	M/s. Grazia Exports Private Limited	59.	29360	M/s. Nelson Logistics and Travels Private Limited
			60.	29365	M/s. Allwin Network Private Limited
			61.	29371	M/s. Bangacom India Private Limited

1	2	3
62.	29386	M/s. Neo Delta Technologies Private Limited
63.	29397	M/s. Perpetual Trade Links Private Limited
64.	29400	M/s. Essential Clothing Source Private Limited
65.	29402	M/s. Sai Ram Silks Private Limited
66.	29412	M/s. Click Infotech Private Limited
67.	29415	M/s. Commiscent Software Private Limited
68.	29420	M/s. Rockwell Granites Private Limited
69.	29421	M/s. Rockwell Air Express Private Limited
70.	29434	M/s. Caravel Impex Private Limited
71.	29436	M/s. Jenom Software Solutions Private Limited
72.	29457	M/s. B P B Softech Private Limited
73.	29460	M/s. Visualtrance Communicating Technologies Private Limited
74.	29468	M/s. Unidole Marketing Private Limited
75.	29475	M/s. Endotherms Carburising Systems Private Limited
76.	29480	M/s. Cozy Cove Club Private Limited
77.	29490	M/s. Sapthagiri Power Equipments Private Limited
78.	29492	M/s. Soul Software Private Limited
79.	29494	M/s. Suncity Ventures Private Limited
80.	29513	M/s. Vijaya Aquatech Private Limited
81.	29518	M/s. Medha Software Technologies Private Limited
82.	29523	M/s. Sananda Information Technology Private Limited
83.	29524	M/s. E. T. Systems (Bangalore) Private Limited
84.	29526	M/s. La-Capital Solutions Private Limited
85.	29528	M/s. Hoysala Infotech Private Limited
86.	29532	M/s. Biesar Exports Private Limited
87.	29537	M/s. Hawaiian Fruit Products Private Limited
88.	29544	M/s. KM Advisors Private Limited
89.	29546	M/s. Sri Chamundi Traders Private Limited
90.	29554	M/s. J. P. Power Private Limited
91.	29557	M/s. Siddhalingeswar Power Supply Private Limited

1	2	3
92.	29559	M/s. Sanjeevini Biomed Private Limited
93.	29565	M/s. First Step Marketing (Karnataka) Private Limited
94.	29571	M/s. Empower Infonics Private Limited
95.	29575	M/s. Shalom Logistics Private Limited
96.	29581	M/s. Prompt Executive Search and Selection Private Limited
97.	29589	M/s. Padmanjali Hotels and Resorts Private Limited
98.	29596	M/s. Sri Shankari Pipes Private Limited
99.	29599	M/s. CBD Infotech Private Limited
100.	29600	M/s. Beautiful Marketing Private Limited
101.	29601	M/s. Anupra Marketing Private Limited
102.	29605	M/s. Di-Logic Systems Private Limited
103.	29606	M/s. Lakpro Information Technologies Private Limited
104.	29614	M/s. Blueline Homes Private Limited
105.	29620	M/s. Pramath Online Marketing Private Limited
106.	29629	M/s. MG Exceltech Private Limited
107.	29632	M/s. Trinity Auto Motors India Private Limited
108.	29643	M/s. Vijay Info-Teletech Private Limited
109.	29645	M/s. Vasals Engineering Private Limited
110.	29658	M/s. New Life Financial Consultancy Private Limited
111.	29663	M/s. Holistic Healing Resorts Private Limited
112.	29672	M/s. Aahar Exim Private Limited
113.	29682	M/s. Aglow Consumer Network Private Limited
114.	29705	M/s. D. M. H. Food Products (India) Private Limited
115.	29710	M/s. Greenveen Network Private Limited
116.	29718	M/s. Online Recruiters Private Limited
117.	29722	M/s. Veriquo Consulting Private Limited
118.	29723	M/s. AXS Web Solutions Private Limited
119.	29724	M/s. BBB Music Private Limited
120.	29727	M/s. Chord Management Services Private Limited
121.	29732	M/s. IBA Security Systems Private Limited

1	2	3	1	2	3
122.	29735	M/s. Ganga Kaveri Financial Advising Services Private Limited	148.	29927	M/s. Vyom Innovations Private Limited
123.	29736	M/s. Vertex Furan Aldehydes Private Limited	149.	29939	M/s. Life Line Careers Private Limited
124.	29743	M/s. C. G. Lifestyle Private Limited	150.	29940	M/s. Techdynamix Systems Private Limited
125.	29744	M/s. Glownet E Biz Private Limited	151.	31510	M/s. Jebon (India) Display Technologies Private Limited
126.	29915	M/s. Datta Commodity Trading Private Limited	152.	31523	M/s. Getgoing Marketing Private Limited
127.	29759	M/s. Bangalore Salted Vegetable Products Private Limited	153.	31526	M/s. Aquarate Speech Solutions Private Limited
128.	29963	M/s. Kamadhenu Financial Services Private Limited	154.	31534	M/s. Malnad Financial Services Private Limited
129.	29793	M/s. Mahalasa Cement Products Private Limited	155.	31542	M/s. Asna Institute of Hardware Technology Private Limited
130.	29794	M/s. I-Spatial Response Private Limited	156.	31543	M/s. Dhanabharani Hotels Private Limited
131.	29796	M/s. Samartha Yuva.Com Private Limited	157.	31556	M/s. Avrn Chemicals Private Limited
132.	29806	M/s. APT Builders and Engineers Private Limited	158.	31558	M/s. Chackos Crown Plaza Hotels and Resorts Private Limited
133.	29812	M/s. Minds Vision Marketing Private Limited	159.	31566	M/s. Shadow Investigation and Security Solution Private Limited
134.	29814	M/s. Ambassador Softech Private Limited	160.	31569	M/s. Raja Rajeshwari Structural Engineers Private Limited
135.	29819	M/s. S. L. N. Marketing Private Limited	161.	31571	M/s. Feather Touch Electronics Private Limited
136.	29824	M/s. Hari Export Trading Private Limited	162.	31579	M/s. Shobhtech Comsys Private Limited
137.	29835	M/s. Synchroniz Software Private Limited	163.	31593	M/s. My Way Infotech Private Limited
138.	29840	M/s. Sapthagiri Wine Distributors Private Limited	164.	31594	M/s. Bena-Sironj Tollroad (I) Private Limited
139.	29844	M/s. Bangalore Photo Guide Private Limited	165.	31595	M/s. Imode Software Technologies Private Limited
140.	29846	M/s. Design Logics IT Solutions Education and Consulting Private Limited	166.	31599	M/s. Exultant Software Private Limited
141.	29858	M/s. Shreyas Stitchwear Private Limited	167.	31600	M/s. Computech Teachings Private Limited
142.	29879	M/s. Complife Computer Education Private Limited	168.	31602	M/s. II-Cubed Biotech Private Limited
143.	29883	M/s. Sun 'N' Sand Holiday Homes Private Limited	169.	31611	M/s. Thamara Nadi Private Limited
144.	29887	M/s. Karnataka Agriculture Consultancy and Services Private Limited	170.	31963	M/s. RVK Marketing Private Limited
145.	29920	M/s. Bestech Networks Private Limited	171.	31628	M/s. Janapragathi Institute of HRD and Welfare Private Limited
146.	29892	M/s. Ekagra Communications Private Limited	172.	31669	M/s. Synergy Management Services and Trainers Private Limited
147.	29922	M/s. Insat Hardware Technologies Private Limited	173.	31670	M/s. Srimidhi Refineries Private Limited
			174.	31672	M/s. Harshuth Marketing Private Limited
			175.	31675	M/s. Motto Computers Private Limited
			176.	31685	M/s. Electrex Products Private Limited

1	2	3	1	2	3
177.	31690	M/s. Samvahan Marketing Private Limited	201.	31838	M/s. Dishitha Web Services Private Limited
178.	31697	M/s. O DM Networks Private Limited	202.	31846	M/s. Abhirami Electricals (I) Private Limited
179.	31699	M/s. Girija Ramana Mines Minerals & Metals Private Limited	203.	31847	M/s. Tejas Infosolutions Private Limited
180.	31700	M/s. Empire Infotech India Private Limited	204.	31857	M/s. Mitesh Softek Private Limited
181.	31704	M/s. SLV Tyre Centre Private Limited	205.	31860	M/s. Cyntegra Infosystems Private Limited
182.	31707	M/s. Arasu Marketing Services Private Limited	206.	31863	M/s. Allwell Healthcare Marketing Private Limited
183.	31709	M/s. Webasil Infotech Private Limited	207.	31872	M/s. Mannu Software Innovative Technologies Private Limited
184.	31724	M/s. Ayur Cosmic Therapy Private Limited	208.	31880	M/s. Pioneer Business India Private Limited
185.	31739	M/s. Maifloer Marketing Services Private Limited	209.	31904	M/s. Aero Sponser Marketing Private Limited
186.	31745	M/s. Tecton Info Solutions Private Limited	210.	31889	M/s. Sutra Communications Private Limited
187.	31756	M/s. Launch Marketing Private Limited	211.	31908	M/s. Donald Croucher Britto Import Export Private Limited
188.	31761	M/s. Save Life Xpress Healthcare Private Limited	212.	31916	M/s. Vishwas Homeneeds Private Limited
189.	31765	M/s. Genius AXS Shopping Private Limited	213.	31919	M/s. K. L. Arrack Private Limited
190.	31767	M/s. Revelations Securities Private Limited	214.	31920	M/s. M. T. G. Arrack Private Limited
191.	31774	M/s. G. R. R. Network Marketing Private Limited	215.	31924	M/s. Nimish Foodproducts Private Limited
192.	31973	M/s. Inchip Netvision Private Limited	216.	31928	M/s. Malnad Export Import Private Limited
193.	31781	M/s. Allgreen Gerkin Exports Private Limited	217.	31930	M/s. Katalyst Market Solutions Private Limited
194.	31795	M/s. Shashvatha Marketing Management Private Limited	218.	31935	M/s. Oftec Services Private Limited
195.	31808	M/s. Raghu Webconsult Private Limited	219.	31938	M/s. Pentagon Intex Private Limited
196.	31812	M/s. Concurrent Consultancy and Management Private Limited	220.	31940	M/s. Success Vision Systems Private Limited
197.	31821	M/s. Fortune Net India Marketing Private Limited	221.	31946	M/s. Maitri Commercial Concepts Private Limited
198.	31822	M/s. Kannyamodugu Constructions and Developers Private Limited	222.	31954	M/s. Pranaathraam Marketing Private Limited
199.	31824	M/s. Checkwood Maker Private Limited			
200.	31834	M/s. Accrete Software Technologies Private Limited			

C. V. SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008